



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1650]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 2012/भाद्र 5, 1934

No. 1650]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 2012/BHADRA 5, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2012

का.आ. 1975(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में का.आ. 324(अ), तारीख 23 फरवरी, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 24 फरवरी, 2012 में प्रकाशित की गई थी और जिसे रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, बुनियादपुर-कालियागंज (नई लाइन) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी संस्करण), तारीख 17 मार्च, 2012 और आनंद बाजार पत्रिका (बंगाली संस्करण), तारीख 19 मार्च, 2012 में प्रकाशित किया गया था;

और, 826(आठ सौ छब्बीस) आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा;

और, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिमी बंगाल में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, कालियागंज-बुनियादपुर (नई लाइन) के लिए सरचना सहित और बिना सरचना के अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अधिकारिता सूची सख्या के साथ भौज का नाम	सर्वेक्षण संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अभिलेख के अनुसार मालिक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	उत्तर दिनाजपुर	(1) धनकैल	(1) धनकैल - 84	6693	एच.आर. 1079	0.1300	निजी	भिटा	गोविंद रॉय, अकेल बाला रॉय, नूनी गोपाल रॉय, नगेन्द्र नाथ रॉय, पिगलकला दास, प्रमिला बाला रॉय, फनि गोपाल रॉय, भारती बाला रॉय, उरमिला बाला रॉय, ललित बाला रॉय
					एच.आर. 1081	0.3900	निजी	डांगा	गोविंद रॉय
					एच.आर. 1082	0.4750	निजी	डांगा	गोविंद रॉय, इंद्र कुमार साह
					एच.आर. 1083	0.1950	निजी	डांगा	कमला बाला दासी
					एच.आर. 1087	0.4100	निजी	डांगा	सुनील कुमार कुड़ू, कनईलाल बजाज बर्गादार-साधुआ खटवाल
					एच.आर. 1090	0.1000	निजी	भिटा	अकेल बाला रॉय, उरमिला बाला रॉय, गोविंद रॉय, नानी गोपाल रॉय, नगेन्द्र नाथ रॉय, पिगलकला दास, प्रमिला बाला रॉय, फनि गोपाल रॉय, भारती बाला रॉय, ललित बाला रॉय
					एच.आर. 1092	0.0400	निजी	वास्तु	कुमारेंद्र लाल नाग, चम्पा घटोवाल, बसंती रानी नाग, हति घटोवाल
					एच.आर. 1093	0.0200	निजी	भिटा	चम्पा खटोवाल, मुरली खटोवालनी, हिल् घटोवालनी
					एच.आर. 1094	0.0200	निजी	दोबा	चम्पा खटोवाल, मुरली खटोवालनी, हिल् घटोवालनी
					एच.आर. 1124	0.4500	निजी	डाला	मनोज बजाज, रवीन्द्र नाथ बर्मन, सुबीर बर्मन, चैतू देव शर्मा बर्गादार-सुखदेव घटोवाल
					एच.आर. 1134	0.0100	निजी	डाला	हरधन सरकार
					एच.आर. 1135	0.2850	निजी	डाला	अकेल बाका रॉय, उरमिला बाला रॉय, पिगलकला दास, प्रमिला बाला रॉय, फनि गोपाल रॉय, भारती बाला रॉय, ललित बाला रॉय, चित्रा रॉय
					एच.आर. 1136	0.3350	निजी	डाला	पुलिन सरकार
					एच.आर. 1137	1.1200	निजी	डाला	ममता ऊदवानी, चंदना रॉय, सुशांत रॉय, छतर रॉय, तुस्ता रानी धार, मनीन्द्र चंद्र धार बर्गादार-धरानी रॉय
					एच.आर. 1142	0.1700	निजी	डाला	सुशांत रॉय बर्गादार-नीलकांत बर्मन
					एच.आर. 1143	1.2900	निजी	डाला	रेणुका रॉय, गोपी नाथ बर्मन, गुरंग बर्मन, जितेंद्र नाथ सरकार, साधन चंद्र सरकार, विश्वनाथ बर्मन, बर्गादार-परेश देवशर्मा, सदारु बर्मनी, सजरु बर्मन
					एच.आर. 1146	0.0400	निजी	डाला	कटारु सरकार
					एच.आर. 1149	0.0175	निजी	डाला	जितेंद्र सरकार
					एच.आर. 1150	0.4400	निजी	डाला	गवई चंद्र बर्मन
					एच.आर. 1151	0.2150	निजी	डाला	सपेन सरकार
					एच.आर. 1179	0.4450	निजी	डाला	सुखमोहन बर्मन, दिनेश बर्मन, धुलेन रॉय, अधर बर्मन, बाबुन बर्मन
					एच.आर. 1180	0.4100	निजी	डाला	अधर बर्मन, मनु बर्मनी
					एच.आर. 1182	0.3100	निजी	डाला	सुमित्रा कुड़ू बर्गादार-सुधार बर्मन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एच.आर. 1183	0.2600	निजी	डाला	वीरेन्द्र नाथ राय, प्रफुल्ल देवशर्मा, हरीपद देवशर्मा, निशीकांत देवशर्मा, कैलाश देवशर्मा, कंटेलु देवशर्मा
					एच.आर. 1184	0.2400	निजी	डाला	विनोद बाला साह बर्गादार-महेन्द्र राय
					एच.आर. 1188	0.7675	निजी	डाला	चंद्रकांत सरकार
					एच.आर. 1191	0.3700	निजी	डाला	धिमन राय, विश्वनाथ राय, निकन्द्रा देवशर्मा
					एच.आर. 1192	0.5100	निजी	डाला	प्रेमदा राय, सुमिता राय, प्रियानाथ राय, वीरेन्द्र राय, विश्वनाथ राय, दर्गाश चंद्र साह बर्गादार-महेन्द्र बर्मन
					एच.आर. 1353	0.0150	निजी	डाला	तारिनी राय, हरसुंदर राय
					एच.आर. 1354	0.0300	निजी	डाला	नकुल चंद्र राय, सुधाशु चंद्र राय, सुधीर चंद्र राय
					एच.आर. 1355	0.0200	निजी	भिटा	विनय राय
					एच.आर. 1365	0.0150	निजी	डागा	रत्न कुमार कुड़
					एच.आर. 1366	0.1850	निजी	पुकर	रत्न कुमार कुड़
					एच.आर. 1367	0.5200	निजी	भिटा	रत्न कुमार कुड़
					एच.आर. 1368	0.1200	निजी	डाला	रत्न कुमार कुड़, सकल चंद्र राय
					एच.आर. 1369	0.0900	निजी	नयनजलि	उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद
					एच.आर. 1370	0.0750	निजी	सड़क	उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद
					एच.आर. 1371	0.0600	निजी	नयनजलि	उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद
					एच.आर. 1374	0.0500	निजी	डाला	ऊपेन्द्र प्रधान, कालू मणि बर्मनी, चांदे बर्मनी सुखमोहन बर्मन
					एच.आर. 1393	0.1000	निजी	डाला	जमीला बर्मन
					एच.आर. 1400	0.0300	निजी	वास्तु	चम्पा खटोवाल, मुरली खटोवालनी, हिलू घटोवालनी
					एच.आर. 1401	0.0325	निजी	वास्तु	तकरी खटोवाल, दर्गा खटोवाल, भक्ति खटोवाल, हरीश खटोवाल
					एच.आर. 1402	0.0550	निजी	वास्तु	चम्पा खटोवाल, मुरली खटोवालनी, हिलू घटोवालनी
					एच.आर. 1403	0.0200	निजी	वास्तु	चम्पा खटोवाल, मुरली खटोवालनी, हिलू घटोवालनी
					एच.आर. 1404	0.0450	निजी	वास्तु	चम्पा खटोवाल, मुरली खटोवालनी, हिलू घटोवालनी
					एच.आर. 1418	0.0525	निजी	डाला	रत्न कुमार कुड़
					एच.आर. 1419	0.3700	निजी	डाला	रत्न कुमार कुड़, सकल चंद्र राय
					एच.आर. 1421	0.2950	निजी	डाला	मेनका बाला सरकार
					एच.आर. 1422	0.2150	निजी	डाला	ममता रानी सरकार
					एच.आर. 1423	0.0400	निजी	डाला	नबेल चंद्र सरकार
					एच.आर. 1424	0.0750	निजी	डाला	महिकांत राय, हलधर राय
					एच.आर. 1425	0.2100	निजी	डाला	प्राणानंद साह, उत्तम बर्मन, अब्दुल समद, गुलाम मर्तजा
					एच.आर. 1426	0.2800	निजी	डाला	प्रबोध चौधरी, सामल चौधरी, सुनील चौधरी, सुबोध चौधरी बर्गादार- विनय कुमार राय
					एच.आर. 1428	0.0050	निजी	डाला	नबेल चंद्र सरकार, पुलिन चंद्र सरकार, महेन्द्र नाथ राय
					एच.आर. 1440	0.0300	निजी	डाला	मालती बर्मनी
					एच.आर. 1452	0.1300	निजी	डाला	कटारू सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एच.आर. 1455	0.3300	निजी	डाला	भुदंग देशी
					एच.आर. 1456	0.1550	निजी	डाला	निकन्द्रा देवशर्मा
					एच.आर. 1461	0.1400	निजी	डाला	महेन्द्रनाथ राँय
					एच.आर. 1463	0.3950	निजी	डाला	बसंती रानी नाग
					एच.आर. 1464	0.5700	निजी	डाला	फनि भूषण राँय, सुनील चंद्र राँय, बसंती रानी नाग
					एच.आर. 1465	0.1950	निजी	डाला	नरेंद्र नाथ बर्मन, भूपेन्द्र नाथ बर्मन, समेश चंद्र बर्मन, नारायण बर्मन
					एच.आर. 1466	0.1350	निजी	डाला	बसंती रानी नाग
					एच.आर. 1467	0.2600	निजी	डाला	बसंती रानी नाग, नरेन्द्र नाथ बर्मन
					एच.आर. 1501	0.0100	निजी	डाला	गोकुल चंद्र डे, मृपाल कांति साह, ब्रजेन्द्र कुमार साह, आभा साह, बर्गादार-ऊपेन्द्र लाल बर्मन
					एच.आर. 1502	0.2200	निजी	डाला	सुबोध बर्मन, सुवेन्द्र बर्मन
					एच.आर. 1503	0.0200	निजी	डाला	ऊपेन्द्र प्रधान, कालू मणि बर्मनी
					एच.आर. 1535	0.0500	निजी	डाला	माधो लाल बजाज, बर्गादार--मोहन देवशर्मा
			(2) मध्य दंगपुर - 83	6694	एच.आर. 17	0.0250	निजी	नयनजति	उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद
					एच.आर. 18	0.0850	निजी	डाला	रानू बर्मन, अमीरुद्दीन मुहम्मद, सुखमोहन बर्मन
					एच.आर. 19	0.4950	निजी	डांगा	तारिनी राँय
					एच.आर. 25	0.3650	निजी	डांगा	मालती बर्मनी
					एच.आर. 27	0.0500	निजी	दोबा	मुत्थू रानी बर्मनी, पोशाकी बर्मनी, सोरन बर्मन
					एच.आर. 28	0.0600	निजी	दोबा	भोला राँय, महिकांत राँय, हलधर राँय
					एच.आर. 29	0.3250	निजी	डांगा	मुत्थू रानी बर्मनी, पोशाकी बर्मनी, सोरन बर्मन
					एच.आर. 30	0.0050	निजी	डांगा	तरानी प्रसाद राँय
					एच.आर. 31	0.0300	निजी	डांगा	तरानी राँय
					एच.आर. 43	0.0250	निजी	डांगा	बुद्धि बाला शील, मंशारी शील
					एच.आर. 44	0.0400	निजी	डांगा	निशीकांत शील, विनोद देवशर्मा, भाटो बाला शशि, सहचंद्र शील, सतानु शील, उमैन शील, कुशल शील, गोपाल शील
					एच.आर. 45	0.3300	निजी	डांगा	सहचंद्र शील
					एच.आर. 46	0.3100	निजी	भिटा	दिनेश चंद्र घोष, बर्गादार-कनु चंद्र शील
					एच.आर. 47	0.4200	निजी	डाला	अधर बर्मन, मोहि कांत राँय, सुरन बर्मनी
					एच.आर. 89	0.0350	निजी	रास्ता	नं. 2 धनकिल ग्राम पंचायत
					एच.आर. 148	0.3050	निजी	डाला	नरेश राँय, परेश बर्मन, रूप नंद बर्मन
					एच.आर. 166	0.8800	निजी	डाला	समीरुद्दीन अहमद, रजनी शील, शान मोहम्मद
					एच.आर. 167	0.1800	निजी	डाला	विनोद देवशर्मा, भाटो बेवा
					एच.आर. 168	0.1600	निजी	डाला	विनोद देवशर्मा, भाटो बेवा
					एच.आर. 169	0.5600	निजी	डाला	सतानु शील, भानू चंद्र शील, मंगलू चंद्र शील, कुशल शील, गोपाल शील
					एच.आर. 173	0.2500	निजी	डांगा	निशीकांत शील, सहचंद्र शील, सतानु शील, उमैन शील, कुशल शील, गोपाल शील
					एच.आर. 191	0.2000	निजी	डाला	बुद्धि बाला शील, मंशारी शील

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					परजाम 192	0.7600	निजी	डाला	निशीकांत शील, सहचंद्र शील, सतानु शील, कुशल शील, गोपाल शील बर्गादार-महेन्द्र नाथ शील
					परजाम 193	0.0200	निजी	भिटा	रजनी शील
					परजाम 194	0.3800	निजी	भिटा	रजनी शील, सुनील चंद्र सरकार
					परजाम 195	0.0050	निजी	डाला	रजनी शील
					परजाम 205	0.0600	निजी	भिटा	बुद्धि बाला शील, मंशारी शील, सुनील चंद्र सरकार
					परजाम 206	0.0500	निजी	वास्तु	बुद्धि बाला शील, मंशारी शील, सुनील चंद्र सरकार
					परजाम 207	0.1200	निजी	दोबा	निशीकांत शील, सनातन शील, सहचंद्र शील, कुशल शील, गोपाल शील
					परजाम 208	0.0500	निजी	भिटा	निशीकांत शील, सनातन शील, सहचंद्र शील, कुशल शील, गोपाल शील बर्गादार-डालू बर्मन
					परजाम 209	0.1500	निजी	भिटा	बुद्धि बाला शील, मंशारी शील, महेन्द्र शील
					परजाम 210	0.1350	निजी	वास्तु	सहचंद्र शील, गोपाल शील
					परजाम 211	0.0700	निजी	वास्तु	निशीकांत शील, सनातन शील, सहचंद्र शील, कुशल शील, गोपाल शील
					परजाम 212	0.0800	निजी	वास्तु	सहचंद्र शील, गोपाल शील
					परजाम 213	0.0450	निजी	भिटा	झाड़ी दासी, महेन्द्र शील
					परजाम 218	0.0700	निजी	रास्ता	नं. 2 धनकिल ग्राम पंचायत
					परजाम 709	0.3400	निजी	डांगा	अचारी बेवा, भुतू बाला दासी
					परजाम 760	0.5000	निजी	डाला	यादव चंद्र दास, क्षितिज चंद्र दास बर्गादार-कलुआ बर्मन
					परजाम 763	0.0400	निजी	डांगा	जगत मोहन रॉय
					परजाम 765	0.2500	निजी	भिटा	निंदा बाला, विजय बर्मन, मिहार बर्मन, शिवाजी बर्मन, गोपाल शील
					परजाम 928	0.0600	निजी	डाला	निशीकांत शील, सनातन शील, सहचंद्र शील, कुशल शील, गोपाल शील
			(3) मणेशवति - 87	6837	परजाम 50	0.2300	निजी	डांगा	कलुआ बर्मन, उमेश बर्मन
					परजाम 51	0.4300	निजी	डांगा	दिनेश चंद्र घोष
					परजाम 52	0.1700	निजी	भिटा	इंद्रजीत चक्रवर्ती, नेपाल चक्रवर्ती, काना छत्रजी (चक्रवर्ती), नरन बर्मन
					परजाम 53	0.3300	निजी	वास्तु	समरू बर्मन, इंद्रजीत चक्रवर्ती
					परजाम 55	0.0150	निजी	डांगा	मोहन चंद्र रॉय, तारा पद बर्मन
					परजाम 56	0.0250	निजी	डाला	सुकुता बर्मनी
					परजाम 58	0.0700	निजी	डांगा	हरलाल शील
					परजाम 61	0.0350	निजी	डाला	उमेश बर्मन, सुधन बर्मनी, कालू बर्मन, झनझनी बर्मन, दिनेश चंद्र बर्मन
					परजाम 62	0.2650	निजी	डाला	भानू बर्मनी, मनु बर्मनी, सुधन बर्मन, सुधीर बर्मन, प्रथा भौमिक, फुलगी बर्मन
					परजाम 64	0.1900	निजी	डाला	भूधन चंद्र बर्मन, उधन बर्मन, सदरू बर्मन, कालू बर्मन
					परजाम 65	0.2950	निजी	डाला	सरला रानी बर्मनी
					परजाम 70	0.2350	निजी	डांगा	भूधन चंद्र बर्मन, उधन बर्मन, सदरू बर्मन, कालू बर्मन
					परजाम 73	0.3800	निजी	डाला	वाताशू बर्मन
					परजाम 74	0.2650	निजी	डाला	समर चंद्र दत्ता
					परजाम 76	0.0300	निजी	डाला	अमीन चंद्र बर्मन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एल.आर. 80	0.0900	निजी	डाला	किरण बर्मनी, परेश बर्मन, अतीन बर्मन
					एल.आर. 83	0.1050	निजी	डाला	काटू बर्मन
					एल.आर. 84	0.1500	निजी	डाला	कर्मा बर्मन
					एल.आर. 88	0.4750	निजी	डाला	भूधन चंद्र बर्मन, उधन बर्मन, सदरु बर्मन, अवि बर्मन
					एल.आर. 89	0.0600	निजी	डांगा	बालिका बर्मनी, बिमला बर्मनी, भूधन चंद्र बर्मन, भोला नाथ बर्मन, सदन बर्मनी, सुरन बर्मन, गयाश्वरी बर्मनी, नेदेम चंद्र मंडल,
					एल.आर. 97	0.2350	निजी	वास्तु	यशोमती दासी
					एल.आर. 98	0.2550	निजी	भिटा	ऊपेन बर्मन, शिव दास बर्मन, उत्तम कुमार भूतरा, गोपी नाथ बर्मन, तेमनी बर्मनी, ठाकुर दास बर्मन, नरेन बर्मन, निनामा बर्मनी
					एल.आर. 99	0.0950	निजी	भिटा	बजरु बर्मन, सुधामयी बर्मन, कालू मुनि बर्मन, फालू बर्मन
					एल.आर. 163	0.1300	निजी	भिटा	भवेन बर्मन, उमेन बर्मन, कृष्ण राय, अकडू बर्मन, दिखान बर्मनी
					एल.आर. 164	0.1700	निजी	भिटा	भवेन बर्मन, उमेन बर्मन, कृष्ण राय, अकडू बर्मन, दिखान बर्मनी
					एल.आर. 165	0.2750	निजी	डांगा	ऊपेन बर्मन, शिव दास बर्मन, स्वर्ण बर्मन, गोपी नाथ बर्मन, तेमनी बर्मनी, ठाकुर दास बर्मन, नरेन बर्मन, निनामा बर्मनी
					एल.आर. 166	0.0300	निजी	डाला	अनिल चंद्र राय, सुनील चंद्र राय
					एल.आर. 167	0.0100	निजी	डाला	महिमा रानी बर्मनी
					एल.आर. 168	0.1800	निजी	डाला	अनिल कुमार राय
					एल.आर. 169	0.3150	निजी	डाला	सेवादास बर्मन, गोपी नाथ बर्मन, ठाकुर दास बर्मन, नरेन बर्मन
					एल.आर. 181	0.3250	निजी	डाला	रति कांत बर्मन, सिलुबाला बाड.मणि, क्षितिज बर्मन, निंदू बाला बर्मनी
					एल.आर. 182	0.2000	निजी	डाला	रति कांत बर्मन, क्षितिज बर्मन
					एल.आर. 183	0.2600	निजी	डाला	रति कांत बर्मन, सिलुबाला बाड.मणि, क्षितिज बर्मन, निंदू बाला बर्मनी
					एल.आर. 184	0.3100	निजी	डाला	डंडी राम बर्मन
					एल.आर. 186	0.2150	निजी	डाला	सुरेन्द्र नाथ राय
					एल.आर. 187	0.2400	निजी	डाला	भवाग बर्मन
					एल.आर. 188	0.0350	निजी	डाला	रमेश बर्मन
					एल.आर. 190	0.0050	निजी	भिटा	बिजली रानी रायचौधरी बर्गादार- भवेन्द्र नाथ राय
					एल.आर. 191	0.0800	निजी	भिटा	बिजली रानी रायचौधरी बर्गादार- भवेन्द्र नाथ राय
					एल.आर. 192	0.2500	निजी	भिटा	बिजली रानी राय चौधरी बर्गादार- भवेन्द्र नाथ राय
					एल.आर. 197	0.0500	निजी	डाला	उमेश बर्मन, कालू बर्मन
					एल.आर. 198	0.0350	निजी	डाला	साशु बाला राय
					एल.आर. 199	0.0300	निजी	डाला	ललिता बर्मन
					एल.आर. 229	0.0500	निजी	रास्ता	नं. 2 धनकिल ग्राम पंचायत
					एल.आर. 427	0.1250	निजी	भिटा	संतोष कुमार बर्मन बर्गादार- स्वर्ण बर्मन
			(4) नसीरहाट - 95	6838	एल.आर. 577	0.0050	निजी	डांगा	कमल कुमार राय, नरेन्द्रनाथ राय, सुभाष चंद्र राय, नियामी देवी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एव.आ. 579	0.2300	निजी	डांगा	डोलगोविंद बर्मन, दिजेन्द्र बर्मन, वनमाली रॉय, बर्गेन्द्र बर्मन, भावाश बर्मन, सनय बर्मन, गंधा बर्मनी, जामी बर्मन
					एव.आ. 582	0.2850	निजी	वास्तु	दिनेश रे, बर्जेन्द्र बर्मन, भवेन्द्र रॉय, भावाश बर्मन, ऊपेन्द्र नाथ रॉय, सुशेन रॉय, गंधा बर्मनी
					एव.आ. 583	0.3650	निजी	वास्तु	भूलूराम रॉय, दिनेश रॉय, भावन्द्र रॉय, ऊपेन्द्र नाथ रॉय, सुशेन रॉय, कर्णा बाका देवी
					एव.आ. 584	0.1900	निजी	वास्तु	दिनेश रे, भवेन्द्र रॉय, ऊपेन्द्र नाथ रॉय, सुशेन रॉय
					एव.आ. 589	0.6200	निजी	डांगा	दुलाल सरकार, रमेश चंद्र सरकार, खेडूराम देवशर्मा
					एव.आ. 590	0.0650	निजी	डांगा	दुखिया सरकार
					एव.आ. 591	0.3600	निजी	डांगा	रमेश रॉय, जगमोहन बर्मन
					एव.आ. 592	0.7350	निजी	डांगा	निमई चंद्र सरकार, लाल मोहन सरकार, हिंता देवी, धलेन सरकार, बलेन्द्र सरकार, लखी कांत सरकार, सुशीला देवी, कलुआ प्रधान बर्गादार- अजय देवशर्मा
					एव.आ. 593	0.0300	निजी	डांगा	हेम चंद्र देवशर्मा, रवेन सरकार, विनोद सरकार
					एव.आ. 611	0.3350	निजी	डाला	हेम चंद्र देवशर्मा, पार्थी सरकार, रवेन सरकार, विनोद सरकार
					एव.आ. 612	0.4650	निजी	डांगा	लाल मोहन सरकार, हेम चंद्र देवशर्मा
					एव.आ. 613	0.3000	निजी	डांगा	दमन देवशर्मा, नीला बेवी
					एव.आ. 614	0.1450	निजी	डांगा	खर्गा देवशर्मा
					एव.आ. 615	0.1050	निजी	डांगा	लाल मोहन सरकार
					एव.आ. 616	1.0400	निजी	डांगा	तरानी प्रधान, निमई चंद्र सरकार, लाल मोहन सरकार, DHALAN सरकार, बलेन्द्र सरकार, लखी कांत सरकार, सुशीला देवी, कलुआ प्रधान बर्गादार - अजय देवशर्मा
					एव.आ. 753	0.0650	निजी	डांगा	नव देवशर्मा, गवई देवशर्मा
					एव.आ. 798	0.8500	निजी	डांगा	मयमा वनी देवी
					एव.आ. 454	0.0350	निजी	डाला	सैबू देवशर्मा
					एव.आ. 455	0.3800	निजी	डाला	दुलाल सरकार, रमेश चंद्र सरकार, खेडूराम देवशर्मा
					एव.आ. 456	0.1600	निजी	डाला	ऊपेन्द्र नाथ सरकार
					एव.आ. 457	0.1500	निजी	डाला	देवन सरकार, चिचा रानी सरकार
					एव.आ. 458	0.3700	निजी	डाला	पुलिन सरकार
					एव.आ. 460	0.0700	निजी	डाला	पूसा देवशर्मा, मतु देवी
					एव.आ. 461	0.2450	निजी	डाला	दमन देवशर्मा, प्रणव नंद साह, सत्यचरण देवशर्मा
					एव.आ. 462	0.0500	निजी	डाला	लालमोहन सरकार
					एव.आ. 463	0.3600	निजी	डाला	खर्गा देवशर्मा
					एव.आ. 464	0.3500	निजी	डाला	बरिन देवशर्मा, सरत चंद्र देवशर्मा, हेम चंद्र देवशर्मा
					एव.आ. 619	0.4850	निजी	डाला	बालिका देवी, भगेन्द्र सरकार, हरेन देवशर्मा
					एव.आ. 620	1.2700	निजी	डाला	प्रफुल्लु सरकार, सत्य रंजन सरकार, शिवीश सावरकर, रवेन सरकार, विनोद सरकार, गिरीश चंद्र सरकार बर्गादार- जीवन देवशर्मा, दिनेश चंद्र देवशर्मा, मिथुन सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					परजम	738	0.2750	निजी	डाला	निमई चंद्र सरकार, धलेन सरकार, बलेन्द्र सरकार, लखी कान्त सरकार, सुशीला देवी बर्गादार- अजय देवशर्मा
					परजम	740	0.3800	निजी	डाला	तरानी प्रधान
					परजम	743	0.2750	निजी	डाला	देवेन्द्र देवशर्मा, भदुई देवशर्मा, सत्य चरण देवशर्मा, सपल देवशर्मा, परेश देवशर्मा
					परजम	789	0.0100	निजी	डाला	सूर्यकांत देवशर्मा
					परजम	848	0.2250	निजी	डाला	दिनेश देवशर्मा, पूरन चंद्र रॉय
					परजम	861	0.0950	निजी	डाला	गिरीश चंद्र सरकार बर्गादार- छतर मोहन सरकार, महेश चंद्र सरकार, भद्रा चंद्र सरकार
	(2) बुशाडांगा	(1) अटघरा - 94		6833	परजम	611	0.0350	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
					परजम	631	0.2350	निजी	डांगा	खर्गा देवशर्मा, आशा नंद देवशर्मा, खकटू देवशर्मा, जाली देवशर्मा, देवेन्द्र देवशर्मा
					परजम	632	0.2200	निजी	डांगा	खर्गा देवशर्मा, आशा नंद देवशर्मा, खकटू देवशर्मा, जाली देवशर्मा, देवेन्द्र देवशर्मा
					परजम	633	0.1600	निजी	डांगा	निखिल सरकार, भावेश चंद्र सरकार
					परजम	634	0.0900	निजी	डांगा	खर्गा देवशर्मा, आशा नंद देवशर्मा, खकटू देवशर्मा, जाली देवशर्मा, देवेन्द्र देवशर्मा
					परजम	635	0.3550	निजी	डांगा	धेन्द्र नाथ सरकार, अकलू देवशर्मा
					परजम	636	0.3350	निजी	डांगा	खर्गा देवशर्मा, आशा नंद देवशर्मा, खकटू देवशर्मा, जाली देवशर्मा, देवेन्द्र देवशर्मा
					परजम	637	0.1800	निजी	डांगा	धिपसू मालकर, रति कान्त मालकर
					परजम	638	0.1300	निजी	डांगा	महेन्द्र कुमार सरकार
					परजम	639	0.0800	निजी	डांगा	धिपसू मालकर, धीरेन्द्र नाथ सरकार, रति कान्त मालकर, रानू बाका मालकर
					परजम	640	0.0750	निजी	डाला	चंचल सरकार, भूषण चंद्र सरकार, भूपेन्द्र नाथ सरकार, शशि मोहन सरकार
					परजम	641	0.0500	निजी	डाला	सिरेन्द्र देवशर्मा
					परजम	643	0.1650	निजी	डाला	नयन देवशर्मा, निशी कान्त सरकार, परेश चंद्र सरकार, धीरेन्द्र नाथ सरकार, हगूरु सरकार, हेमन्त देवशर्मा
					परजम	646	0.1000	निजी	डाला	मलिन सरकार, तुला दासी, निशी कान्त सरकार, धीरेन्द्र नाथ सरकार, सुरेन्द्र नाथ सरकार, विश्वनाथ सरका
					परजम	647	0.0650	निजी	डाला	विपद प्रधान, मनमोहन सरकार, राधा कान्त सरकार
					परजम	879	0.1600	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
					परजम	1015	0.2700	निजी	डाला	धीरेन्द्र नाथ सरकार, खर्गा देवशर्मा, आशा नंद देवशर्मा, खकटू देवशर्मा, जाली देवशर्मा, देवेन्द्र देव शर्मा
					परजम	1017	0.1000	निजी	डांगा	निखिल सरकार, भावेश चंद्र सरकार
					अरघरा	256	0.0200	निजी	डाला	प्रफल्सू सरकार, राधा कान्त सराकर, परीतोष चंद्र सरकार, आशुतोष सरकार, हगुरी बाका सरका
					अरघरा	257	0.5750	निजी	डाला	बादलो देवशर्मा, महेन्द्र कुमार सरकार, सत्येन्द्र नाथ रॉय
					अरघरा	258	0.7900	निजी	डाला	पुनग चंद्र सरकार, क्षीर मोहन देवशर्मा, शशि मोहन देवशर्मा, सत्येन्द्र नाथ रॉय
					अरघरा	261	0.0100	निजी	डाला	खर्गा देसी
					अरघरा	262	0.1050	निजी	डांगा	खर्गा देसी
					अरघरा	263	0.5000	निजी	डाला	नव धार सरकार
					अरघरा	277	0.5450	निजी	डाला	धर्मजय दास, नैयाती रानी सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				भारत	279	0.5150	निजी	डाला	शारकीत देवशर्मा, शिवेन्द्र नाथ देवशर्मा, दगो देवशर्मा, पवेन देवशर्मा, बाबू लाल देसी, हरी मोहन सरकार
				भारत	299	0.3300	निजी	डाला	अभि रॉय, मदन रॉय, रस मोहन रॉय
				भारत	300	0.0200	निजी	डांगा	महालू रॉय
				भारत	301	0.2800	निजी	डाला	महेन्द्र कुमार सरकार
				भारत	302	0.4150	निजी	डाला	ऊपेन्द्र नाथ मालकर
				भारत	303	0.0100	निजी	डाला	मनुमोहन सरकार
				भारत	304	0.1200	निजी	डाला	रस मोहन रॉय
				भारत	305	0.0400	निजी	डाला	मनुमोहन सरकार
				भारत	306	0.2400	निजी	डाला	अभि रॉय, मदन रॉय, रस मोहन रॉय
				भारत	315	0.0950	निजी	डाला	मलिन सरकार, तुला दासी, निशी कांत सरकार, धीरेन्द्र नाथ सरकार, सुरेन्द्र नाथ सरकार, विश्वनाथ सरका
				भारत	316	0.6600	निजी	डाला	गगनेन्द्र नाथ सरकार, शिपसू मालकर, वास्तू मालकर, सनू मालकर
				भारत	317	0.6650	निजी	डाला	अदय रॉय, चूडामणि देवी, हरेन्द्र नाथ मंडल, फूलेश्वरी देवी, सुमिता बाला देवी, समिला बाला देवी, तुलन बाला देसी, गुतिका रॉय, हकती रॉय, खगेन्द्र रॉय, सागेन्द्र रॉय, धुकारी बाला रॉय
				भारत	318	0.0450	निजी	डाला	सुकिल सरकार, ऊकिल सरकार, बर्गादार-भीरान रॉय, वीरान रॉय
				भारत	333	0.4750	निजी	डाला	मलिन सरकार, तुला दासी
				भारत	334	0.0850	निजी	डाला	बरण बर्मन, रणजीत बर्मन, लक्ष्मण बर्मन, दीप देवशर्मा
				भारत	335	0.1900	निजी	डांगा	चंद्रकांत सरकार
				भारत	336	0.1250	निजी	डांगा	खगेन्द्र नाथ रॉय
				भारत	337	0.5950	निजी	पुकर	धुकारी बाला रॉय, सागेन्द्र नाथ रॉय, खगेन्द्र नाथ रॉय
				भारत	338	0.1550	निजी	डांगा	धुकारी बाला रॉय, सागेन्द्र रॉय, खगेन्द्र रॉय
				भारत	344	0.5000	निजी	डाला	प्रसन्न कुमार सरकार, भुवन चंद्र सरकार, विमल चंद्र सरकार
				भारत	345	0.5300	निजी	डाला	निशी कांत सराकर
				भारत	364	0.4800	निजी	वास्तु	देवेन्द्र नाथ सरकार, नवीन रॉय, महादेव सरकार, बासु रॉय, रूप बेवा, धुलेन रॉय, सुशीला सरकार
				भारत	365	0.4550	निजी	भिटा	नयन रंजन दास, अनिल रंजन दास, मनुरंजन दास, सुभाष रंजन दास, बर्गादार-थानू बर्मन, भानू चंद्र बर्मन, सुशेन बर्मन, अन्नू बर्मन
				भारत	366	0.0600	निजी	भिटा	बाशु रॉय
				भारत	368	0.1350	निजी	भिटा	पचकतू सरकार, विमल बर्मन, ज्योत्सना बर्मन
				भारत	370	0.3400	निजी	वास्तु	ऊपेन बर्मन, हरभन बर्मन
				भारत	371	0.3750	निजी	डाला	तेपेन्द्र नाथ सरकार, तारिन बर्मन, धूपेन्द्र सरकार, रवीन्द्र सरकार, ऊपेन बर्मन, हरधन बर्मन, रवीन्द्र रॉय
				भारत	373	0.0500	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
				भारत	397	0.0300	निजी	भिटा	देवेन्द्र नाथ सरकार, नवीन रॉय, महादेव सरकार, मनुरंजन दास, नयनरंजन दास, सुभाष रंजन दास, अनिल दास, अन्नपूर्णा दासी, बर्गादार-हरधन बर्मन, तारिन बर्मन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरएस 399	0.3700	निजी	डांगा	चैतन सरकार, नरेन्द्र नाथ सरकार, मोहन चंद्र सरकार, रमानी देसी, सर्वानंद सरकार
					आरएस 400	0.2950	निजी	डांगा	गणेश चंद्र सरकार, नरेन्द्र नाथ सरकार, आज्ञा दासी, मोहन चंद्र सरकार
					आरएस 401	0.3300	निजी	डांगा	देवेन्द्र नाथ सरकार, चेतना सरकार, सर्वानंद सरकार, परमानंद सरकार, भानू मणि सरकार, महादेव सरकार
					आरएस 402	0.1050	निजी	डांगा	सूप मणि देवी
					आरएस 403	0.1850	निजी	डांगा	देवेन्द्र नाथ सरकार, चेतना सरकार, सर्वानंद सरकार, परमानंद सरकार, भानू मणि सरकार, महादेव सरकार
					आरएस 404	0.0450	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
					आरएस 405	0.1100	निजी	डांगा	देवेन्द्र नाथ सरकार, चेतना सरकार, सर्वानंद सरकार, परमानंद सरकार, भानू मणि सरकार, महादेव सरकार
					आरएस 406	0.1150	निजी	डांगा	देवेन्द्र नाथ सरकार, चेतना सरकार, सर्वानंद सरकार, परमानंद सरकार, भानू मणि सरकार
					आरएस 434	0.4400	निजी	डांगा	मेघलाल बर्मन, कोकिल बर्मन
					आरएस 435	0.2800	निजी	डांगा	मेघलाल बर्मन, उसू बर्मन, सतीश बर्मन
					आरएस 439	0.4150	निजी	डांगा	परमानंद सरकार, विमल कुमार सरकार, संतोष कुमार सरकार, तपश सरकार, अमूल्य सरकार, श्यामल सरकार, सुखेन सरकार
					आरएस 440	0.2450	निजी	डांगा	देवेन्द्र नाथ सरकार, चेतना सरकार, सर्वानंद सरकार, परमानंद सरकार, भानू मणि सरकार, महादेव सरकार
					आरएस 560	0.5700	निजी	डाला	देवेन्द्र नाथ सरकार, चेतना सरकार, सर्वानंद सरकार, परमानंद सरकार, भानू मणि सरकार, महादेव सरकार
					आरएस 563	0.4800	निजी	डाला	गोपाल चंद्र सरकार, चित्र गुप्त सरकार, जितेन्द्र नाथ सरकार, निशी कांत सरकार, सुधागशु सरकार, सत्येन्द्र नाथ सरकार, हेमंत सरकार, भवानंद सरकार, हरेन्द्र नाथ सरकार, बलेन्द्र नाथ सरकार
					आरएस 564	0.0050	निजी	डाला	अविधान बर्मन, शीरू रॉय, मनुरजन दास, नयन रंजन दास, सुभाष रंजन दास, अनिल दास, अन्नपूर्णा दासी बगीदार- भानू बर्मन, सुशेन बर्मन, थानू बर्मन, मिठू बर्मन
					आरएस 586	0.0200	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
					आरएस 1056	0.0400	निजी	वास्तु	बाशु रॉय
					आरएस 1058	0.1700	निजी	वास्तु	स्वरमोहन बर्मन, शारदा बर्मन
					आरएस 1061	0.1150	निजी	वास्तु	बरण बर्मन, रणजीत बर्मन, लक्ष्मण बर्मन
					आरएस 1064	0.0200	निजी	भिटा	नवीन रॉय, मनुरजन दास, नयन रंजन दास, सुभाष रंजन दास, अनिल दास, अन्नपूर्णा दासी
					आरएस 1065	0.1600	निजी	भिटा	सूपू बेवा, धुलेन रॉय, सुशीला सरकार
			(2) बुशाडांगा - 151	6862	एकअर 59	0.0600	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
					एकअर 158	0.0800	निजी	डाला	नतन देवशर्मा
					एकअर 159	0.0250	निजी	डाला	पुलिन देवशर्मा, भवेन देवशर्मा, तपन चंद्र सरकार, अरुण चंद्र सरकार
					एकअर 160	0.0500	निजी	डाला	अनीष सरकार, हरेन्द्र नाथ सरकार, लाल मोहन उर्फ (अकलू बर्मन)
					एकअर 161	1.1600	निजी	डाला	प्राण सरकार, बदलू रॉय, श्री नाथ रॉय, सुधीर चंद्र सरकार, धुलिन रॉय, अनिल रॉय, दिखान बाला रॉय, तुनी रॉय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकड़ 162	0.1050	निजी	डाला	परमार्थ बर्मन, अनीष देवशर्मा, खनीश देवशर्मा, तरु बाला देवशर्मा, कोकिल बर्मन, गणेश चंद्र बर्मन
					एकड़ 168	0.0150	निजी	डाला	मेला बाड़ राँय
					एकड़ 169	0.0450	निजी	डाला	निर्मल चंद्र बर्मन, अवदीन बर्मन, गणेश चंद्र बर्मन
					एकड़ 171	0.5550	निजी	डाला	अनित देवशर्मा, कोकिल बर्मन, खगेन्द्र बर्मन, अतूल देवशर्मा, गणेश चंद्र बर्मन
					एकड़ 208	0.1300	निजी	भिता	निदालू बर्मन, हरेन्द्र राँय, धूलिन राँय, अनिल राँय, दिखान बाला राँय, तुनी राँय
					एकड़ 209	0.5000	निजी	पुक्कुर	धूलिन बर्मन, अनिल बर्मन, निदालू बर्मन, बघालू रे. श्री नाथ राँय, हरेन्द्र राँय, देखुन बाला राँय
					एकड़ 210	0.4200	निजी	भिता	धूलिन बर्मन, निदालू बर्मन, भाल बर्मन, बदलू राँय
					एकड़ 260	0.5500	निजी	डाला	दुफरु बर्मन, देवानंद बर्मन, नगेन बर्मन
					एकड़ 261	0.0300	निजी	डाला	प्रफुल्लू कुमार सरकार, राकेश चंद्र सरकार, सेवा नंद सरकार, छतर नाथ देवशर्मा, जलधर देवशर्मा
					एकड़ 262	0.6430	निजी	डाला	निदालू बर्मन, नीला बर्मनी, बरिन्द्र राँय, हरेन्द्र राँय
					एकड़ 263	0.3750	निजी	भिता	निदालू बर्मन, बदलू राँय, श्री नाथ राँय, हरेन्द्र राँय, धूलिन राँय, अनिल राँय, देखुन बाला राँय, तुनी राँय
					एकड़ 702	0.1200	निजी	भिता	पुलिन बर्मन
					एकड़ 254	0.1400	निजी	डांगा	दुफरु बर्मन, नगेन बर्मन
					एकड़ 255	0.1300	निजी	डांगा	विष्णु पद सिंह
					एकड़ 257	0.5400	निजी	डांगा	विष्णु पद सिंह
					एकड़ 277	0.0150	निजी	भिता	दुफरु बर्मन, देवानंद बर्मन, नशी बर्मन, महिला बाला देवी, अहंता बाला देवी
					एकड़ 278	0.1500	निजी	वास्तु	दैन्य बर्मन, परमार्थ बर्मन, विजय बर्मन, मेघू बर्मन, जमनी बर्मन, रवीन्द्र बर्मन, खेजूर बर्मन
					एकड़ 279	0.0750	निजी	वास्तु	दैन्य बर्मन, परमार्थ बर्मन, विजय बर्मन, मेघू बर्मन, जमनी बर्मन, रवीन्द्र बर्मन, खेजूर बर्मन
					एकड़ 280	0.1950	निजी	भिता	रूपचंद्र प्रसाद, बर्गादार-परमार्थ राँय
					एकड़ 282	0.5200	निजी	भिता	मुकुल बर्मन, विजय बर्मन, बर्गादार-अमृता बर्मन
					एकड़ 283	0.0100	निजी	वास्तु	आनंद बर्मन
					एकड़ 285	0.0450	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडागा ग्राम पंचायत
					एकड़ 441	0.1550	निजी	भिता	बहल बर्मन
					एकड़ 442	0.3700	निजी	भिता	थालीबर्मन
					एकड़ 443	0.5300	निजी	भिता	अवदीन देवशर्मा, खगेन्द्र नाथ देवशर्मा, छतर नाथ देवशर्मा, सुरेज देवशर्मा, कमारेश देवशर्मा, गिरीश देवशर्मा, अजलि देवशर्मा, कल्पना देवशर्मा
					एकड़ 444	0.4950	निजी	डांगा	समिल बर्मन
					एकड़ 445	1.0950	निजी	डाला	बहल बर्मन भंडाल बर्मन
					एकड़ 446	0.1500	निजी	डाला	पासी राँय, हप राँय
					एकड़ 447	0.1400	निजी	डाला	पासी राँय, हप राँय
					एकड़ 448	0.3100	निजी	डाला	पासी राँय, हप राँय
					एकड़ 449	0.6000	निजी	डाला	भदंग चंद्र राँय, लालमोहन अफ (अकलू बर्मन), खेजूर बर्मन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एवम् 450	0.2100	निजी	डाला	समिल बर्मन, लालमोहन उर्फ अकलू बर्मन
					एवम् 458	0.0800	निजी	डाला	थालीबर्मन
					एवम् 459	0.4850	निजी	भिटा	समिल बर्मन, मुकुल बर्मन, विजय बर्मन
					एवम् 460	0.0650	निजी	भिटा	जाबू बर्मन
					एवम् 672	0.4550	निजी	डांगा	लालमोहन उर्फ (अकलू बर्मन), दीप्ति रानी बर्मन, अपत बर्मन
					एवम् 719	0.0650	निजी	डांगा	व्योम बर्मन, सीरीन बर्मन
					एवम् 726	0.0900	निजी	वास्तु	मुकुल बर्मन, विजय बर्मन बीनू बाला बर्मन
			(1) दक्षिण कम्पासुर - 133	6864	एवम् 3	0.1350	निजी	डांगा	मसीरुद्दीन अहमद, महताबुद्दीन सरकार
					एवम् 7	0.6800	निजी	डांगा	नलि बर्मन, भूपेन बर्मन, हरेन बर्मन, गोली बर्मन, गुपेन बर्मन
					एवम् 17	2.2050	निजी	डांगा	कार्तिक चंद्र बर्मन, गोली बर्मन, गुपेन बर्मन, नली बर्मन, नीलनी बेवा, भूपेन बर्मन, हरेन बर्मन
					एवम् 18	0.6400	निजी	डांगा	नुरुल इस्लाम, असीरुद्दी सरकार, रेशा खातून
					एवम् 27	0.1600	निजी	डांगा	मसीरुद्दीन अहमद, महताबुद्दीन सरकार
					एवम् 28	1.3600	निजी	डांगा	मसीरुद्दीन अहमद, महताबुद्दीन सरकार, बबलू बर्मन, प्राणनाथ बर्मन
					एवम् 95	0.3200	निजी	डांगा	नलि बर्मन, नीलनी बेवा, भूपेन बर्मन, हरेन बर्मन, गोली बर्मन, गुपेन बर्मन
					एवम् 97	0.9050	निजी	भिटा	फेलिमन्नेशा
					एवम् 98	0.7400	निजी	भिटा	भूपेन बर्मन, हरेन बर्मन, गुपेन बर्मन
					एवम् 99	0.8000	निजी	वास्तु/डांगा	आज्ञानाथ बर्मन, गोली बर्मन, गुपेन बर्मन, नलि बर्मन, भूपेन बर्मन, सत्यन बर्मन, हरेन बर्मन, झारू बर्मन, बबलू बर्मन, प्राणनाथ बर्मन, दुलन (गुलू) बर्मन, भूषेण बर्मन, गजेन बर्मन, प्रदीप बर्मन, रूपचंद बर्मन
					एवम् 111	0.3450	निजी	भिटा	निधू बाला बर्मनी, बासुदेव बर्मन
					एवम् 113	0.6000	निजी	भिटा	डालू बर्मन, ताजिमनेसा, धमालू बर्मन, नलि बर्मन, निधू बाला बर्मनी, भूपेन बर्मन, मसीरुद्दीन अहमद, बासुदेव बर्मन, महताबुद्दीन सरकार, हरेन बर्मन, गोली बर्मन, गुपेन बर्मन
					एवम् 114	0.8850	निजी	भिटा	मोहम्मद इस्माइल आजाद
					एवम् 116	0.0250	निजी	डांगा	मोहम्मद इस्माइल आजाद
					एवम् 117	0.3800	निजी	भिटा	ताजिमनेसा
					एवम् 118	0.4850	निजी	भिटा	मसीरुद्दीन अहमद, महताबुद्दीन सरकार
					एवम् 119	0.1100	निजी	डांगा	आज्ञानाथ बर्मन
					एवम् 151	0.0400	निजी	डांगा	बाबूलाल बर्मन
					एवम् 152	0.7800	निजी	डांगा	आनंद मोहन बर्मन, अमीनचंद बर्मन, धतानी कांत बर्मन, दीनदयाल बर्मन, बाबूलाल बर्मन, जितेन बर्मन, अशरू बर्मन, उलिका बर्मन, बाबूलाल बर्मन
					एवम् 153	0.6400	निजी	डाला	आनंद मोहन बर्मन, अमीनचंद बर्मन, धरानी कांत बर्मन, दीनदयाल बर्मन, बाबूलाल बर्मन, जितेन बर्मन
					एवम् 154	0.0650	निजी	डाला	अनंतरमन बर्मन, दधी राम सरकार, मजीदर रहमान, हमीदुल रहमान, मुकुलेश्वर रहमान, म्छतार हसन
					एवम् 159	0.0350	निजी	डाला	असीरुद्दीन अब्दुल सुवन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एकड़	739	0.3300	निजी	डाला	मोहम्मद इस्माइल आजाद
					एकड़	770	0.1050	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
			(4) दक्षिण भवानीपुर - 132	6861	एकड़	327	0.1550	निजी	इत्खोला	मोहसिन अली, हीरेन्द्र नाथ घोष, गयासुद्दीन, जाहर अली
					एकड़	330	0.7450	निजी	इत्खोला	तगड बर्मन
					एकड़	331	0.9750	निजी	इत्खोला	हीरेन्द्र नाथ घोष
					एकड़	334	0.4450	निजी	इत्खोला	प्रताप प्रमाणिक, विनोद प्रमाणिक, भवानी प्रमाणिक, फनिभूषण प्रमाणिक, बाशु मति प्रमाणिक
			(5) फतेपुर - 135		आरप	344	0.1250	निजी	रास्ता	नं. 4 बुशाडांगा ग्राम पंचायत
					आरप	391	0.2950	निजी	डांगा	भूतिया बर्मन, देवअशीष घोष
					आरप	392	0.1500	निजी	डांगा	धुलन बर्मन
					आरप	393	0.1500	निजी	दोबा	भूतिया बर्मन
					आरप	394	0.3350	निजी	इत्खोला	हीरेन्द्र नाथ घोष, देवअशीष घोष
					आरप	395	0.0050	निजी	इत्खोला	मुखदेव सिंह
					आरप	396	0.1450	निजी	इत्खोला	हीरेन्द्र नाथ घोष, देवअशीष घोष
					आरप	397	0.1400	निजी	इत्खोला	भूतिया बर्मन, देवअशीष घोष
					आरप	398	0.0350	निजी	डांगा	धुलन बर्मन
					आरप	406	0.2800	निजी	दोबा	हीरेन्द्र नाथ घोष, सेकेन्द्र नाथ सरकार, हरी दास सरकार
					आरप	472	0.5400	निजी	वास्तु	धुलन बर्मन
					आरप	475	0.0700	निजी	भिटा	जोगेन्द्र बर्मन
					आरप	476	0.3300	निजी	वास्तु	घाडापेल सरकार, नाकारु सरकार
					आरप	487	0.7200	निजी	वास्तु	घुट्यू रॉय बर्मन, भवानंद बर्मन
					आरप	488	0.3650	निजी	डांगा	जोगेन्द्र बर्मन
					आरप	489	0.0300	निजी	डांगा	जोगेन्द्र बर्मन
					आरप	491	0.6400	निजी	डांगा	रवि रॉय, मलिका बर्मन, सफाली बर्मन, कलावती बर्मनी, कुमारेश बर्मन
					आरप	492	0.2400	निजी	डांगा	मलिका बर्मनी, सफाली बर्मनी, कलावती बर्मनी
					आरप	503	0.4900	निजी	वास्तु	देवेन्द्रनाथ सरकार, नरेन्द्र चंद्र बर्मन, भूपाल चंद्र मोडल, हरेन्द्र बर्मन, हलफली बर्मन
					आरप	504	0.1500	निजी	वास्तु	पचानन बर्मन
					आरप	505	0.0300	निजी	डांगा	ऊपेन्द्र बर्मन
					आरप	506	0.2900	निजी	डांगा	शांति बर्मन
					आरप	508	0.1800	निजी	डांगा	अजीत बर्मन, सुशेन बर्मन, मन्दू बर्मन
					आरप	509	0.4200	निजी	डांगा	सुशेन बर्मन, मन्दू बर्मन
					आरप	532	0.0250	निजी	भिटा	अजीत बर्मन, नंद बर्मन, भावेश चंद्र बर्मन, सधीन बर्मन
					आरप	533	0.3350	निजी	डांगा	सूरज कांत सरकार, सुरेन्द्र नाथ सरकार
					आरप	534	0.0850	निजी	डाला	देवेन्द्र नाथ सरकार, नरेन्द्र चंद्र बर्मन, हरेन्द्र बर्मन
					आरप	535	0.0050	निजी	डाला	चैतन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					536	0.8700	निजी	डाला	गलीचंद सरकार चित्रा मोहन राय, मनीन्द्र राय, लक्ष्मी कांत बर्मन, सिहाआसीन बर्मन, हरगोविंद बर्मन
					537	0.2600	निजी	डाला	देवेन्द्र नाथ सरकार नरेन्द्र चंद्र बर्मन, हरेन्द्र बर्मन
					538	0.3800	निजी	डाला	टुकड़ देवशर्मा, देवेन्द्रनाथ सरकार बगोदर-सुरेश चंद्र सरकार
					539	0.0050	निजी	डाला	देवेन्द्र नाथ सरकार, नरेन्द्र चंद्र बर्मन, भूपाल चंद्र मंडल, हरेन्द्र बर्मन
					559	0.0800	निजी	डाला	नाकारु सरकार, जोगेन्द्र बर्मन
					576	0.1600	निजी	पुकर	धुलन बर्मन
					1793	0.6100	निजी	डाला	रवीन्द्र नाथ सरकार, डोल गोविंद सरकार, नसरकर सरकार, अकूल सरकार, विजय सरकार सतीश चंद्र सरकार
					1794	0.1550	निजी	डाला	जोगेन्द्र नाथ सरकार
					1796	0.0500	निजी	भिटा	मनोरजन सरकार, रमानी कांत सरकार
					1797	0.2200	निजी	डाला	मनोरजन सरकार, रमानी कांत सरकार
					1798	0.3850	निजी	डाला	पथ देवशर्मा, विजय सरकार, सतीश चंद्र सरकार, कनरेश सरकार
					1802	0.0650	निजी	डाला	मनोरजन सरकार, रमानी कांत सरकार
					2449	0.2400	निजी	डाला	अनय कुमार सरकार
					2450	0.0800	निजी	डाला	जितेन्द्र नाथ सरकार
			(5) भोवरा - 134	6858, 6859	375	0.4950	निजी	डाला	मोहिनी मोहन सरकार, रमानीकांत सरकार, नंदलाल बर्मन, अशोकी बर्मन, बाबूलाल बर्मन, चुनीलाल राय, बृदा रानी राय
					380	0.6000	निजी	डाला	तशील चंद्र सरकार, रामेश्वर सरकार, हरी चरण सरकार, कंचन सरकार, जनक सरकार, तसरीबाला देवी, आलाराम सरकार
					381	0.2050	निजी	डाला	तुलाराम सरकार, तुलसी सरकार, बजरु देवशर्मा, विलासु सरकार, शिवराम सरकार, रामेश्वर सरकार, हरीचरण सरकार, कंचन सरकार, जनक सरकार, तसरी बाला देवी
					382	0.3700	निजी	डाला	मोहिनी मोहन सरकार, संतोष कुमार सरकार
					593	0.1250	निजी	डाला	तशील चंद्र सरकार, रामेश्वर सरकार, हरी चरण सरकार, कंचन सरकार, जनक सरकार, तसरीबाला देवी, नंद लाल बर्मन, अशोकी बर्मन, बाबूलाल बर्मन, आलाराम सरकार
					594	0.3900	निजी	डाला	संतोष कुमार सरकार, नंदलाल बर्मन, अशोकी बर्मन, बाबूलाल बर्मन
					595	0.3850	निजी	डाला	देवेन्द्र सरकार, चेतन सरकार, सनता सरकार
					596	0.3200	निजी	डाला	मोहिनी मोहन सरकार, संतोष कुमार सरकार
					600	0.1150	निजी	डाला	निरुद्ध सरकार, प्रफुल्लु सरकार, माधव चंद्र सरकार, सुरेश सरकार, सुशेन सरकार, उमेश सरकार
					601	0.2400	निजी	डाला	रामेश्वर सरकार, हरी चरण सरकार, कंचन सरकार, जनक सरकार, तसरी बाला सरकार
2	दिनाजपुर	(1) अकला	(1) उपरा - 4	6851	73	0.0700	निजी	डाला	मनीन्द्र सरकार, मन्दू सरकार
					74	0.3750	निजी	डाला	मनीन्द्र सरकार, मन्दू सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					भारत 75	0.3200	निजी	डांगा	अनय कुमार सरकार, अतुल सरकार, कुमारेश सरकार, कुलदेव सरकार, बहेरी दासी, विजय सरकार, मणिक सरकार, सतीश चंद्र सरकार, बर्गादार-नाटूरानू सरकार, नाटू राम सरकार, नाटू राम देसी
					भारत 76	0.3300	निजी	डांगा	अतुल सरकार, कुलदेव सरकार, मणिक सरकार
					भारत 77	0.3800	निजी	डांगा	सुरेन्द्र नाथ सरकार
					भारत 78	0.0950	निजी	डांगा	बास देशी, सधर देशी
					भारत 80	0.2400	निजी	डाला	सुरेन्द्र नाथ सरकार
					भारत 81	0.5600	निजी	डाला	अतुल सरकार, कुलदेव सरकार, मणिक सरकार
					भारत 82	0.0050	निजी	डाला	खकसू देवशर्मा, देवेन्द्र नाथ सरकार, सनता नाथ सरकार
					भारत 83	0.3100	निजी	डाला	गणेश सरकार, सुबल सरकार
					भारत 84	0.0200	निजी	डाला	खकसू देवशर्मा, दर्शन देशी, नरेन सरकार, बज्र देशी, महेश देशी, सरीन सरकार
					भारत 99	0.0150	निजी	डांगा	खकसू देवशर्मा
					भारत 119	0.0850	निजी	डाला	दिलेन बाला दासी, बाबूबाल सरकार, शम्भू नाथ सरकार, राजकुमार सरकार, रणजीत सरकार
					भारत 135	0.0050	निजी	डांगा	विलासू सरकार
					भारत 136	0.6200	निजी	डांगा	विलासू सरकार
					भारत 137	0.0050	निजी	दोबा	विलासू सरकार
					भारत 138	0.1050	निजी	वास्तु	विलासू सरकार
					भारत 139	0.1850	निजी	वास्तु	देवेन्द्र नाथ सरकार, बेतन सरकार, सनता नाथ सरकार
					भारत 140	0.0800	निजी	दोबा	देवेन्द्र नाथ सरकार, बेतन सरकार, सनता नाथ सरकार
					भारत 141	0.2400	निजी	भिटा	देवेन्द्र नाथ सरकार, बेतन सरकार, सनता नाथ सरकार
					भारत 142	0.1250	निजी	डांगा	तुमीर देशी
					भारत 144	0.1900	निजी	डांगा	शोका देशी
					भारत 145	0.1150	निजी	डाला	कगलू रॉय, कालू रॉय, धीरन रॉय, मदरू रॉय
					भारत 150	0.0050	निजी	डांगा	खकसू देवशर्मा, दर्शन देशी, नरेन सरकार, बज्र देशी, महेश देशी, सरीन सरकार
					भारत 213	0.2000	निजी	डाला	परेश चंद्र सरकार, भूमि सरकार, रघु सरकार, ललित सरकार, लिवन सरकार, गणेश सरकार, खमील सरकार, दिनेश चंद्र सरकार
					भारत 252	0.0150	निजी	डाला	केलशी दासी
					भारत 254	0.1600	निजी	दोबा	ललित दासी
					भारत 256	0.2650	निजी	भिटा	केलशी दासी
					भारत 257	0.5250	निजी	डांगा	आशाराम देवशर्मा, जोगई चंद्र रे, विजय देशी, भद्रा देवशर्मा, पाण बल्लवदेसी
					भारत 258	0.4000	निजी	डाला	गली रॉय, देवेन्द्र रॉय
					भारत 259	0.1800	निजी	बनस	अलई सरकार, भूमि सरकार, रघु सरकार, ललित सरकार, लिवन सरकार, खमील सरकार
					भारत 260	0.0550	निजी	डांगा	क्षेत्र मोहन सरकार
					भारत 261	0.2000	निजी	डाला	हरन देशी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					आरक्ष	262	0.0450	निजी	डाला	केलशी दासी
					आरक्ष	266	0.1900	निजी	डाला	केलशी दासी
					आरक्ष	271	0.0250	निजी	पुकुर	क्षेत्र मोहन सरकार
					आरक्ष	275	0.0900	निजी	डांगा	पियाली देशी (डेथ)
					आरक्ष	276	0.7100	निजी	डांगा	प्रफल्लू देशी, क्षेत्र मोहन सरकार
					आरक्ष	277	0.3400	निजी	डांगा	विष्णु देशी
					आरक्ष	278	0.0500	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 1 अक्शा ग्राम पंचायत
					आरक्ष	279	0.4800	निजी	वास्तु	तारिन देवशर्मा, परेश चांद सरकार, बजरू देवशर्मा, भूमि सरकार, भूदेर देवशर्मा, रघु सरकार, ललित सरकार, लिबन सरकार, खमील सरकार
					आरक्ष	280	0.1650	निजी	भिटा	तुथू बेवा
					आरक्ष	571	0.0350	निजी	रास्ता	साफा देशी
					आरक्ष	575	0.0200	निजी	डांगा	केलशी दासी
			(2) राजपूत-उत्तरपार - 82	6850, 6852	आरक्ष	74	0.0025	निजी	डाला	बहनू देशी, भवानंद देशी, सुरेश देशी
					आरक्ष	161	0.1650	निजी	वास्तु	प्राण बल्लव देशी, विजय प्रधान
					आरक्ष	173	0.2450	निजी	भिटा	केलमी देशी, नीलेनाम देवशर्मा, बसंत देवशर्मा, वीरेन्द्र सरकार, सुरेन देवशर्मा, खोका देवशर्मा, योगेशचंद्र सरकार, अंधारू देवशर्मा
					आरक्ष	174	0.7450	निजी	भिटा	पलाश चंद्र सरकार, छतर कुमार सरकार
					आरक्ष	176	0.4000	निजी	डाला	आदि देवशर्मा मंजनी दासी, सुमय दासी, मालती दासी चितेन सरकार, वेदार देवशर्मा, जजनेश्वर सरकार, पाशमी रानी सरकार, दैतू देवशर्मा, भवानंद सरकार, पलाश चंद्र सरकार
					आरक्ष	177	0.4600	निजी	डाला	पुरेन्द्र सरकार, जजनेश्वर सरकार
					आरक्ष	178	0.3400	निजी	डाला	विजय प्रधान
					आरक्ष	179	0.1350	निजी	भिटा	कचाली दासी, पुरेन्द्र सरकार, भवानंद सरकार, पवित्र सरकार
					आरक्ष	190	0.0900	निजी	भिटा	जजनेश्वर सरकार
					आरक्ष	191	0.0100	निजी	डाला	नीलेनाम देवशर्मा
					आरक्ष	192	0.3000	निजी	डाला	मनीन्द्र सरकार, मन्टू सरकार
					आरक्ष	276	0.0150	निजी	डाला	जगी सरकार, विजय प्रधान, आशाराम सरकार
					आरक्ष	277	0.1200	निजी	डाला	केलमी देशी
					आरक्ष	278	0.4050	निजी	डाला	विजय प्रधान
					आरक्ष	282	0.4000	निजी	डाला	नलहरि देवशर्मा, नीलेनाम देवशर्मा, बसंत देवशर्मा, नमन देवशर्मा, नगेन चंद्र सरकार
					आरक्ष	283	0.4300	निजी	डाला	केलमी देशी
					आरक्ष	284	0.0750	निजी	डाला	विजय प्रधान, मलिन सरकार, वनेश्वर राँय
					आरक्ष	1030	0.2900	निजी	वास्तु	छवि रानी सरकार, छतर कुमार सरकार
					आरक्ष	1054	0.0850	निजी	रास्ता	प्रधान, अक्शा ग्राम पंचायत
					आरक्ष	452	0.0875	निजी	डाला	नीलेनाम देवशर्मा, बसंत देवशर्मा, बिशन सिंह, वत देवशर्मा, जोगेश्वर देवशर्मा, मिष्टू राम सरकार, फलि सरकार, अनिल सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					आरएस	453	0.2200	निजी	डाला	रवीन्द्र रॉय, गोविंद देशी, छवि सरकार, नीलेनाम देवशर्मा, बसंत देव शर्मा, वीरेन्द्र सरकार, हरिकांत सरकार, हबीब सरकार
					आरएस	454	0.2100	निजी	डाला	स्वामी नाथ देवशर्मा
					आरएस	455	0.0275	निजी	डाला	जगन्नाथ सरकार
					आरएस	457	0.0500	निजी	रास्ता	श्री श्री राधा बल्लव जियू सैवाइत कुमार अरुण चंद्र सिंह बहादर, कुमार जगदीश चंद्र सिंह बहादर, कुमार विमल चंद्र सिंह बहादर, अनिमा बाला सिंह बहादर, माता आभा रानी सिंह बहादर
					आरएस	459	0.2150	निजी	डाला	पुरेन्द्र सरकार
					आरएस	460	0.0300	निजी	डोंगा	नलहरि देवशर्मा, प्रेमहरी देवशर्मा
					आरएस	461	0.4100	निजी	डोंगा	मोहम्मद देशी
					आरएस	463	0.0500	निजी	डाला	भवानंद सरकार, पवित्र सरकार
					आरएस	886	0.0100	निजी	डोंगा	गौड़ मोहन सरकार
					आरएस	887	0.1800	निजी	भिटा	उस्मान अली, अलीबउद्दीन अहमद, अरुजा खातून
					आरएस	945	0.0500	निजी	रास्ता	श्री श्री राधा बल्लव जियू सैवाइत कुमार अरुण चंद्र सिंह बहादर, कुमार जगदीश चंद्र सिंह बहादर, कुमार विमल चंद्र सिंह बहादर, अनिमा बाला सिंह बहादर, माता आभा रानी सिंह बहादर
					आरएस	946	0.0400	निजी	रास्ता	प्रधान, अक्शा ग्राम पंचायत
		(3) नौगांव - 84		6846	एच.आर	114	0.0750	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 1 अक्शा ग्राम पंचायत
					एच.आर	118	0.1050	निजी	डाला	स्वामी नाथ रॉय
					एच.आर	123	0.1600	निजी	डाला	जगन्नाथ सरकार, नलिनी सरकार, अभिजीत सरकार, महारानी सरकार, तिसू बाला दासी, चर्खी दासी, गनुबाला दासी, जतुबाला दासी
					एच.आर	124	0.0350	निजी	डोंगा	जोगी सरकार
					एच.आर	125	0.3200	निजी	डोंगा	योगेशदेव शर्मा, सदानंद सरकार
					एच.आर	128	0.1800	निजी	डोंगा	जगन्नाथ सरकार, नलिनी सरकार, अभिजीत सरकार, महारानी सरकार, तिसू बाला दासी, चर्खी दासी, गनुबाला दासी, जतुबाला दासी
					एच.आर	129	0.2750	निजी	भिटा	व्रत दासी
					एच.आर	130	0.0500	निजी	डोंगा	अभिजीत सरकार, जगन्नाथ सरकार, नलिनी सरकार, महारानी सरकार, तिसू बाला दासी, चर्खी दासी, गनुबाला दासी, जतुबाला दासी
					एच.आर	131	0.5450	निजी	डोंगा	परश्वरी दासी, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सदानंद सरकार, सलुबाला दासी, सुकुमार देवशर्मा, सुविश्वर देवशर्मा
					एच.आर	132	0.0400	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 1 अक्शा ग्राम पंचायत
					एच.आर	133	0.1750	निजी	डोंगा	कस्तूरी बाला दासी, गजेन्द्र नाथ सरकार, दिनेश चंद्र सरकार, भूसूरी दासी, छिलकादासी, घेसे देसी, निशिकांत रॉय, शशिभूषण सरकार
					एच.आर	197	0.0750	निजी	डोंगा	स्वामी नाथ रॉय
					एच.आर	198	0.0600	निजी	डोंगा	स्वामी नाथ रॉय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकड़ 200	0.0025	निजी	डांगा	जगन्नाथ सरकार, नलिनी सरकार, अभिजीत सरकार, महारानी सरकार, तिसू बाला दासी, चर्खी दासी, गनुबाला दासी, जतुबाला दासी
			(4) जमीनपारा - 78	140	एकड़ 1	0.0300	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 1 अक्शा ग्राम पंचायत
					एकड़ 2	0.3025	निजी	डांगा	वत दासी
					एकड़ 3	0.1000	निजी	रास्ता	प्रधान, अक्शा ग्राम पंचायत
					एकड़ 4	0.2600	निजी	डांगा	गण देवशर्मा, शूली देवशर्मा, पूरन देवशर्मा, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सुकुमार देवशर्मा, सुवि देवशर्मा
					एकड़ 5	0.0750	निजी	भिटा	गण देवशर्मा, शूली देवशर्मा, पूरन देवशर्मा, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सुकुमार देवशर्मा, सुवि देवशर्मा
					एकड़ 6	0.0075	निजी	भिटा	गण देवशर्मा, शूली देवशर्मा, पूरन देवशर्मा, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सुकुमार देवशर्मा, सुवि देवशर्मा
					एकड़ 8	0.7800	निजी	डांगा	गण देवशर्मा, शूली देवशर्मा, पूरन देवशर्मा, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सुकुमार देवशर्मा, सुवि देवशर्मा
					एकड़ 9	0.0075	निजी	डांगा	गण देवशर्मा, शूली देवशर्मा, पूरन देवशर्मा, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सुकुमार देवशर्मा, सुवि देवशर्मा
					एकड़ 10	0.0900	निजी	डाला	गण देवशर्मा, शूली देवशर्मा, पूरन देवशर्मा, योगेश देवशर्मा, राधा देवशर्मा, सुकुमार देवशर्मा, सुवि देवशर्मा
					एकड़ 11	0.1575	निजी	डांगा	गणेश सरकार
					एकड़ 21	0.0475	निजी	भिटा	अशमुद्दीन मोहम्मद
					एकड़ 22	0.0025	निजी	डांगा	गणेश सरकार
					एकड़ 23	0.0850	निजी	भिटा	अशमुद्दीन मोहम्मद
					एकड़ 24	0.2700	निजी	डांगा	अशमुद्दीन मोहम्मद, खारुद्दीन अहमद, शम्भू मौला
					एकड़ 26	0.0075	निजी	डांगा	अशमुद्दीन मोहम्मद, खारुद्दीन अहमद
					एकड़ 27	0.3200	निजी	डांगा	अशमुद्दीन मोहम्मद
					एकड़ 33	0.1050	निजी	डांगा	जलू मुहम्मद, तैफूर रहमान, नजरुल इस्लाम, कशीम अली, मंगली बेवा, रिजिया खातून, मामुदा खातून, महामामुदा खातून, नूरनहर खातून, रोशनारा बेगम, अशरफ अली, कनीरुद्दीन, खयारुद्दीन अहमद, फजिला खातून, बशीरा खातून, बीवीरन बेवा, बेलू बीवी, मयमुना बेवा, महीदर रहामा, मोतीबर रहमान, मोतीबर रहमान
					एकड़ 34	0.7500	निजी	डांगा	खगेश्वर राय, तरानी सरकार, मन्दू चंद्र राय, नियामत अली, डालू मुहम्मद
					एकड़ 35	0.4000	निजी	डाला	जवानद बसक, सूफिया खातून, वहीद अली बर्गादार, वहीद अली, जतीन्द्र देसी
					एकड़ 76	0.2700	निजी	डाला	खैरुद्दीन अहमद, झुलेका खातून, तमीजुद्दीन अहमद, तमीना बेवा, नूरभानू बेवा, ममताजुद्दीन अहमद
					एकड़ 77	0.1100	निजी	डाला	खैरुद्दीन अहमद, झुलेका खातून, तमीजुद्दीन अहमद, तमीना बेवा, नूरभानू बेवा, ममताजुद्दीन अहमद
					एकड़ 91	0.0025	निजी	डांगा	अफताल अली, अब्बास अली, फैजूर रहमान, मोतियार रहमान, हमीद अली
					एकड़ 92	0.9500	निजी	डांगा	बेलू बीवी रफीकूल मोमिन, महीदर रहमान, मोतीबर रहमान, अमीनूल हक
					एकड़ 93	0.4050	निजी	डांगा	जलू मुहम्मद, तैफूर रहमान, नजरुल इस्लाम, कशीम अली, मंगली बेवा, रिजिया खातून, मामुदा खातून, महामामुदा खातून, नूरनहर खातून, रोशनारा बेगम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकड़ 94	0.0200	निजी	डांगा	जोगी नंद बसक, समसुल आलम, जाकिर हुसैन, जहागीर हुसैन बगोदार, शम्भू मुहम्मद, शलातुद्दीन
					एकड़ 552	0.0700	निजी	डांगा	खैरुद्दीन अहमद
		(5) जोर सुदम - 79		139, 141	एकड़ 7	0.1150	निजी	डांगा	मनीजा खातून, जमुना बिहारी बसक, जोगानंद बसक, जशोदा नंद बसक, दीपाली रानी बसक
					एकड़ 64	0.0550	निजी	डांगा	आयशा खातून बीवी, छलातुद्दीन मुल्ला शीना मुहम्मद, फैजूर रहमान, वजीनूर हसन
					एकड़ 79	0.0450	निजी	डांगा	अलाऊद्दीन अहमद, रफीकल अमीन, सहजान अली बगोदार, फूल मोहम्मद, कुल महमद
					एकड़ 80	0.5400	निजी	डांगा	अतिमन नेशा, शीना महमद, तमीना बावा, गजीबर रहमान, मजीदर रहमान, अजीजर रहमान, झलखा खातून, लोतिका खातून, शूर मुहम्मद
					एकड़ 82	0.0425	निजी	डांगा	अतिमन नेशा, शीना महमद, तमीना बावा, गजीबर रहमान, मजीदर रहमान, अजीजर रहमान, झलखा खातून, लोतिका खातून, शूर मुहम्मद
					एकड़ 83	0.1000	निजी	डांगा	अकीम नेशा, हलीमनेशा, गाजीबर रहमान
					एकड़ 84	0.0550	निजी	डांगा	गाजीबर रहमान
					एकड़ 85	0.2500	निजी	डांगा	जहरुद्दीन सरकार, नजियाद्दीन अहमद, पजीरुद्दीन अहमद, मन्सूर अली
					एकड़ 86	0.2075	निजी	डांगा	शम्भू मोहम्मद, नजमुल इस्लाम, अनमूल हक
					एकड़ 87	0.0700	निजी	डांगा	कमीनी रानी बसक
					एकड़ 91	0.0200	निजी	डांगा	करीदुल इस्लाम
					एकड़ 92	0.0550	निजी	डांगा	खैरुद्दीन अहमद, झलेका खातून, तमजुद्दीन अहमद, तहमीना बेवा, नूरभानू बेवा, ममताजुद्दीन अहमद
					एकड़ 93	0.1200	निजी	डांगा	अशरफ अली, अहेदा खातून कशीम अली, डालू मुहम्मद, तैफूर रहमान, तस्लीमा खातून, नजरुल इस्लाम, सिराशी बेगम, नूरनहर खातून, मंगली बेवा, जसुदा खातून, महमूदा खातून, रिजिया खातून, रोशनारा खातून, समीदा खातून, सलीमा खातून, सिराजुल इस्लाम, हमीदा खातून
					एकड़ 94	0.3850	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक
					एकड़ 95	0.0975	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक
					एकड़ 96	0.0250	निजी	डांगा	अबुल हुसैन, नजियाद्दीन अहमद, पजीरुद्दीन अहमद, करेसू (फसीऊद्दीन) मुल्ला (अहमद), हमीरुद्दीन अहमद
					एकड़ 97	0.1250	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक
					एकड़ 98	0.0100	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद
					एकड़ 99	0.1250	निजी	डांगा	मोमिना खातून
					एकड़ 100	0.1600	निजी	डांगा	अशरफ अली, अहेदा खातून कशीम अली, डालू मुहम्मद, तैफूर रहमान, तस्लीमा खातून, नजरुल इस्लाम, सिराशी बेगम, नूरनहर खातून, मंगली बेवा, जसुदा खातून, महमूदा खातून, रिजिया खातून, रोशनारा खातून, समीदा खातून, सलीमा खातून, सिराजुल इस्लाम, हमीदा खातून
					एकड़ 101	0.0200	निजी	डांगा	खैरुद्दीन अहमद, झलेका खातून, तमजुद्दीन अहमद, तहमीना बेवा, नूरभानू बेवा, ममताजुद्दीन अहमद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एल.आर. 102	0.1700	निजी	डांगा	अशीमुदीन अहमद
					एल.आर. 103	0.0600	निजी	डांगा	सहाबुदीन अहमद
					एल.आर. 104	0.1800	निजी	डांगा	तशलीमदीन अहमद, अरेजा खातून, फारुजा खातून, धनिया मुल्ला, नाजियुद्दीन अहमद, फातिमा, बेवा, पांचपद अहमद, मजीरुद्दीन अहमद, सहरभानू नेशा, रेजिया खातून, रिजिया खातून, लुकमान अली, श्रवण नेशा, सुलमान अली, हकीमुद्दीन अहमद
					एल.आर. 105	0.0525	निजी	डांगा	खविरुद्दीन अहमद, खविरुद्दीन(पंचकुर) सरकार, खातून, तशीरुद्दीन सरकार, नफरुद्दीन अहमद, नमीरुद्दीन अहमद, फिरोजा खातून, साहिता खातून
					एल.आर. 131	0.0500	निजी	रास्ता	प्रधान. नं. 1 अक्शा ग्राम पंचायत
					एल.आर. 173	0.3250	निजी	डांगा	जयंत कुमार बसक, जोगानंद बसक, जोसादा नंद बसक बगोदार- जबरुद्दीन, जहरुद्दीन
					एल.आर. 174	0.1050	निजी	डांगा	जरीमन बेवा, सैफुद्दीन अहमद
					एल.आर. 175	0.0050	निजी	डांगा	झुलेका खातून, दुलमन नेशा, सैफुद्दीन अहमद
					एल.आर. 181	0.0950	निजी	डांगा	करीदुल इस्लाम, महाशील अली
					एल.आर. 182	0.0525	निजी	डांगा	करीदुल इस्लाम, महाशील अली
					एल.आर. 183	0.1700	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक
					एल.आर. 184	0.0700	निजी	डांगा	जयगोपाल बसक
					एल.आर. 185	0.1050	निजी	डांगा	साकूरा खातून
					एल.आर. 186	0.0025	निजी	भिटा	जहरुद्दीन अहमद
					एल.आर. 194	0.2100	निजी	डांगा	जयंत कुमार बसक, जीवन गोपाल बसक, तजीरुद्दीन अहमद
					एल.आर. 195	0.0450	निजी	डांगा	तशलीमदीन अहमद, छलुद्दीन मुल्ला, वजीनूर हसन
					एल.आर. 196	0.8200	निजी	पुकर	तशलीमदीन अहमद, खविरुद्दीन अहमद, खैरुद्दीन अहमद, जयंत कुमार बसक, तमजुद्दीन अहमद, नफरुद्दीन अहमद, नमीरुद्दीन अहमद, ममताजुद्दीन अहमद, महीदर रहमान
					एल.आर. 197	0.0175	निजी	डांगा	नाजियादीन अहमद, पजीरुद्दीन अहमद
					एल.आर. 198	0.0300	निजी	डांगा	अबुल हुसैन, मकबूल हुसैन, हमीरुद्दीन अहमद बगोदार- तजीरुद्दीन अहमद
					एल.आर. 199	0.0250	निजी	डांगा	अबुल हुसैन, मकबूल हुसैन, हमीरुद्दीन अहमद बगोदार- तजीरुद्दीन
					एल.आर. 202	0.2700	निजी	डांगा	जहीरुद्दीन अहमद
					एल.आर. 203	0.0700	निजी	पुकरपार	शम्भू मोहम्मद
					एल.आर. 213	0.0550	निजी	डांगा	जयंत कुमार बसक, जीवन गोपाल बसक, जोगानंद बसक, यशोदा नंद बसक, मोहम्मद समसुल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद जांगीर आलम, मशरी हुसैन, नजमुल इस्लाम बगोदार- सफीरुद्दीन मुहम्मद, जबरुद्दीन अहमद
					एल.आर. 464	0.8500	निजी	डांगा	जय गोपाल बसक, जयंत कुमार बसक, जीवन गोपाल बसक, यमुना बिहारी बसक, योगानंद बसक, यशोदा नंद बसक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकड़ 479	0.4000	निजी	डांगा	जयंत कुमार बसक, जोगानंद बसक, जोसादा नंद बसक बर्गादार- प्रफुल्ल बसक
					एकड़ 481	0.2200	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक, यमुना बिहारी बसक
					एकड़ 482	0.0100	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक, जीवन गोपाल बसक, यमुना बिहारी बसक, जयंत KR बसक
					एकड़ 484	0.0150	निजी	डांगा	जयंत कुमार बसक, जोगानंद बसक, जशोदा नंद बसक बर्गादार- जबरुद्दीन
					एकड़ 485	0.0175	निजी	डांगा	जीवन गोपाल बसक, फैजूर रहमान, तजीरुद्दीन अहमद, सुलखा प्रवीण बर्गादार- छविरुद्दीन
					एकड़ 505	0.6000	निजी	डाला	जीवन गोपाल बसक, यमुना बिहारी बसक, मीरारानी बसक
			(6) धर्म डांगा - 80	142	एकड़ 270	0.0650	निजी	डांगा	पिछला पुंकर मस्जिद वक्फ नुमाईदे मोतोवली समसुद्दीन अहमद
					एकड़ 271	0.1700	निजी	डांगा	अलाऊद्दीन मिया, रफीकुल अमीन, मन्शूर अली बर्गादार- शम्भू मिया
					एकड़ 273	0.1100	निजी	डांगा	रफीकुल अमीन, हसन अली
					एकड़ 274	0.1750	निजी	डांगा	मिठु मिया
					एकड़ 275	0.3675	निजी	डांगा	श्रीराम भट्टाचार्य, हर भूषण भट्टाचार्य बर्गादार- शम्भू मिया
					एकड़ 276	0.1350	निजी	डांगा	यमुना बिहारी बसक, ऐमुद्दीन अहमद, अनरुल इस्लाम, अब्दुल सत्तार, अमीनुल इस्लाम बर्गादार- तसीमुद्दीन
					एकड़ 277	0.0725	निजी	डाला	नफीरुद्दीन अहमद, फिरोजा बेगम, साहिला खातून, रविउल आलम
					एकड़ 281	0.0800	निजी	डांगा	अरमान आलम, जव नंद दास, रफीकुल, बर्गादार- दविरुद्दीन, नूरआलम, इम्ताज आलम
					एकड़ 282	0.1500	निजी	डांगा	तमजुद्दीन अहमद, मफिजुद्दीन
					एकड़ 283	0.6250	निजी	डांगा	जयगोपाल बसक, रवेया बेगम, लिली अखतर
					एकड़ 284	0.0025	निजी	डांगा	जवानंद दास
					एकड़ 285	0.3450	निजी	डांगा	सजेदर रहमान, अजूरा बेगम, असुरा खातून, समुदा बेवा, उफीजा खातून बीवी, कफिलुद्दीन सरकार, जैनुल हक, अन्सार अली, अनीसर रहमान, रमजान अली, सरीफुद्दीन अली, अरमीना बेगम
					एकड़ 286	0.1675	निजी	डांगा	अबुल हुसैन
					एकड़ 287	0.1700	निजी	डांगा	नुरुल इस्लाम, महीदर रहमान
					एकड़ 288	0.0925	निजी	डांगा	अबुल हुसैन
					एकड़ 289	0.1800	निजी	डांगा	श्रीराम भट्टाचार्य, हर भूषण भट्टाचार्य बर्गादार- शम्भू मुहम्मद
					एकड़ 290	0.0200	निजी	डाला	जयनल हक, तसीरुद्दीन मुल्ला, पच कोरी सरकार
					एकड़ 371	0.0100	निजी	डाला	जातिन देवशर्मा, शीमू देवशर्मा
					एकड़ 372	0.2500	निजी	डांगा	तमजुद्दीन अहमद, मफिजुद्दीन
					एकड़ 373	0.0900	निजी	डांगा	काशिम अली, जोलू मुहम्मद, तैफूर रहमान, नजरुल इस्लाम, नूरनहर खातून, मंगली बेवा, मसुदा खातून, महमूदा खातून, रजिया खातून, रोशनीज खातून
					एकड़ 374	0.2550	निजी	डांगा	बरसाद अली, मेहबूब आलम, मोहम्मद कशार अली, मोहम्मद रहल अमीन
					एकड़ 384	0.1950	निजी	डांगा	तमजुद्दीन अहमद, मफिजुद्दीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकअर 385	0.1100	निजी	डांगा	तमजुद्दीन अहमद, मफिजुद्दीन
					एकअर 386	0.3350	निजी	डांगा	झारू मुल्ला, तमीजुद्दीन अहमद, मफिजुद्दीन
					एकअर 387	0.1450	निजी	डाला	अहेला खातून, अविरुद्दीन अहमद, तसरुद्दीन मुल्ला, नफीरुद्दीन अहमद, नमीरुद्दीन अहमद, पंचकुर सरकार, फिरोजा बेगम, सेहरा खातून
					एकअर 408	0.7600	निजी	डांगा	कमेश अली, जुल महम्मद, तैफूर रहमान, नजरुल इस्लाम नूर नहर खातून, मंगुली बेवा, मसुदा खातून, महमूदा खातून, रजया खातून, रोशनियाज खातून बर्गादार- कची मुल्ला, कूदी मुल्ला, कादि मुल्ला
					एकअर 409	0.0650	निजी	डांगा	सजादर रहमान, अंगुआ बेगम, असुरा खातून, समुदा खातून, उफीजा खातून, बीवी, जयनल हक, अन्सार अली, अनीसर रहमान, रमजान अली, सरीफुद्दीन अहमद, अरमीना बेगम
					एकअर 411	0.4800	निजी	डांगा	ताशीरुद्दीन मुल्ला, पंचकुर सरकार, मोमिना खातून
					एकअर 412	0.4250	निजी	डांगा	खैरुद्दीन, झुलेका खातून, तमीजुद्दीन मुल्ला, तहमीना बेवा, नूरवनी बेवा, मुमताजुद्दीन अहमद
					एकअर 416	0.0450	निजी	डांगा	अबेरुद्दीन अहमद, नफीरुद्दीन अहमद, नमीरुद्दीन अहमद, फिरोजा बेगम, खातून, साहिता खातून
					एकअर 417	0.4000	निजी	डांगा	भुलन बाला देशी, तैजुद्दीन अहमद बर्गादार- तमीजुद्दीन, तैजुद्दीन अहमद
					एकअर 418	0.3200	निजी	डांगा	तयशीरुद्दीन मुल्ला, पंचकुर सरकार, रविदुल आलम
					एकअर 419	0.0525	निजी	डांगा	नुरुल इस्लाम, महीदर रहमान, नशीर खातून
					एकअर 432	0.1950	निजी	डांगा	रेहाला खातून, सरीफुद्दीन अहमद, अरमीना बेगम, अनीसर रहमान, रमजान अली, पंचाकर सरकार, मोमिना खातून, नमुरादीन अहमद, नफीरुद्दीन अहमद, खदरादीन अहमद, फिरोजा खातून, साहिता खातून, सजेदर रहमान, अजुरा बेगम, असुरा खातून, समुदा बेवा, उफीजा खातून (बीवी), अफिलुद्दीन सरकार, जैनुल हक, तथरुद्दीन मुल्ला, अन्सार अली
					एकअर 433	0.3250	निजी	डांगा	शाजहा मिया, सफीरुद्दीन अहमद बर्गादार- समधु देशी
					एकअर 434	0.1700	निजी	डांगा	अलाऊद्दीन मिया, रफीकुल अमीन, सहेयद अली बर्गादार- पुरमूद्दीन मुल्ला, पुरमूद्दीन मुल्ला, किरामुद्दीन मुल्ला
					एकअर 440	0.4100	निजी	डांगा	जादू गोपाल दास, अमित कुमार राय बर्गादार- अशीमूद्दीन मुल्ला, किना मुल्ला
					एकअर 514	0.0600	निजी	डांगा	शम्भू मुल्ला
					एकअर 515	0.3100	निजी	डाला	उस्मान अली, अलीबुद्दीन अहमद, अरुजा खातून, सिराजुद्दीन अहमद, अबुल कलाम, मजहर अली
					एकअर 516	0.1700	निजी	डांगा	महमूदा खातून
					एकअर 518	0.0025	निजी	डांगा	फातिमा बेवा बर्गादार- मोतीबर रहमान
					एकअर 525	0.3000	निजी	डांगा	अहेला खातून, अविरुद्दीन अहमद, तसरुद्दीन मुल्ला, नफीरुद्दीन अहमद, नमीरुद्दीन अहमद, पंचकुर सरकार, फिरोजा बेगम, साहिता खातून

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एकड़	526	0.4050	निजी	डांगा	सजेदर रहमान, अंजुरा बेगम, असुरा खातून, समुद्रा बेवा, उफीजा खातून (बीवी), कफिलुद्दीन सरकार, जैनुल हक, अन्सार अली, अनीसर रहमान, रमजान अली, सरीफुद्दीन अली, पंचूर सरकार, मोमिना खातून, नफरुद्दीन अहमद, नमीरुद्दीन अहमद, खतिरुद्दीन अहमद, फिरीजा खातून, साहिदा खातून, रेहाला खातून, सफीरुद्दीन अहमद, अरमीना बेगम
					एकड़	544	0.0700	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 1 धर्मा डांगा ग्राम पंचायत
			(7) गोपालगांव - 75	7	आरएस	823	0.0300	निजी	डाला	तमीजुद्दीन अहमद, मोफिजुद्दीन अहमद
					आरएस	832	0.5600	निजी	डाला	फरीदुल इस्लाम, मोहसिन अली, मणिकुल इस्लाम, हफीजुर रहमान, मोसिउर रहमान बगोदार- महरू मुल्ला
					आरएस	833	0.3500	निजी	डाला	छलालुद्दीन अहमद, अकलू मुहम्मद, बाथीरन बेवा, गयासुद्दीन अहमद, फैजूर रहमान
					आरएस	834	0.0300	निजी	डाला	छानू मुल्ला
					आरएस	835	0.1225	निजी	डाला	छानू मुल्ला, मिलीमन बीवी
					आरएस	841	0.0375	निजी	डाला	युसुफ अली, शेरुद्दीन मुल्ला, पातू मुहम्मद, बहरुद्दीन मुहम्मद
					आरएस	842	0.1850	निजी	डाला	शम्भू मुल्ला
					आरएस	843	0.3900	निजी	डाला	मकसेद अली
					आरएस	844	0.2100	निजी	डाला	ऐजुद्दीन अली
					आरएस	845	0.0675	निजी	डाला	तमीजुद्दीन अहमद, मोफिजुद्दीन अहमद
					आरएस	846	0.3900	निजी	डाला	जौलला बेवा, धकनी बेवा, तुसीरन बेवा, तमीजुद्दीन अहमद, नंदरी बेवा, फोजिला खातून, मफिजुद्दीन अहमद
					आरएस	847	0.2600	निजी	डाला	तमीजुद्दीन अहमद, मोतिजुद्दीन अहमद
					आरएस	848	0.2100	निजी	डाला	तमीजुद्दीन अहमद, मोतिजुद्दीन अहमद
					आरएस	849	0.7200	निजी	डाला	हेपजुद्दीन अहमद, अमजद अली, सैफर रहमान, ओहेदा बेवा
					आरएस	850	0.3800	निजी	डाला	दवीर मुहम्मद, फजिला खातून, धजरुद्दीन अहमद
					आरएस	851	1.6200	निजी	डाला	अफिरुद्दीन, राविया बेगम, लिलियाखतारा अहमद, मकशेद अली
					आरएस	852	0.8350	निजी	डाला	अनीसुर रहमान, नजीरुद्दीन अहमद, पजीरुद्दीन अहमद, अब्दुल अजीज
					आरएस	853	0.8300	निजी	डाला	अन्शूर रहमान, छनकू मुहम्मद, पजीरुद्दीन मुहम्मद, अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन अहमद, शानवरा बेगम
					आरएस	854	0.2700	निजी	डाला	फैजक मुल्ला, ऐजदीन मुल्ला, रताली बीवी, धानी मुहम्मद
					आरएस	855	0.2900	निजी	डाला	धजरुद्दीन अहमद
					आरएस	856	0.2300	निजी	डाला	अशमन बीवी, वनी मोनशा, बजीरुद्दीन अहमद, मकशीद अली
					आरएस	857	0.1750	निजी	डाला	प्रदीप बसक
					आरएस	858	1.0100	निजी	डाला	नकीबुद्दीन मुल्ला, खजीरुद्दीन अहमद, फूल मुहम्मद, नजरुद्दीन अहमद, नशाना बीवी, दलो बीवी, महेजा बेवा
					आरएस	859	0.5200	निजी	डाला	छलालुद्दीन अहमद, अकलू मुहम्मद, बाथीरन बेवा
					आरएस	860	0.3550	निजी	डाला	कीनू मुहम्मद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरएस 861	0.4400	निजी	डाला	जोतला बेवा धकनी बेवा, तूसीरन बेवा, तमीजुद्दीन अहमद, नदरी बेवा, फोजिला खातून, मफिजुद्दीन अहमद
					आरएस 862	0.7900	निजी	डाला	दवीर मुहम्मद, भिथारु मुल्ला, अफीजुद्दीन
					आरएस 863	0.3200	निजी	डाला	उस्मान अली, अलीबुद्दीन अहमद, अरूजा खातून, सरीफुद्दीन अहमद, अमीनुल इस्लाम
					आरएस 864	0.2750	निजी	डाला	उजरीद्दीन अहमद, कसीरुद्दीन अहमद, पजीरुद्दीन अहमद
					आरएस 865	0.0800	निजी	डाला	उस्मान अली, अलीबुद्दीन अहमद, अरूजा खातून, खविरुद्दीन अहमद
					आरएस 866	0.3400	निजी	डाला	शेनकू महम्मद, अशरफ अली, माजिद अली, अहीदर रहमान, अनरुल हुसैन, हकीमुद्दीन अहमद
					आरएस 879	0.0200	निजी	डाला	नूरेशा खातून, माशेलुद्दीन खातून, मजीदा खातून
					आरएस 880	2.0950	निजी	डाला	तरबुद्दीन अहमद, दैत्य सरकार, नियामुद्दीन अहमद, निरंजनी बाला सरका, अशीदर रहमान, हरि कृष्ण साह, कला चंद साह, मनोरंजन साह
					आरएस 881	0.4150	निजी	डाला	सफीरुद्दीन अहमद, तरबुद्दीन अहमद, नियामुद्दीन अहमद
					आरएस 882	0.2200	निजी	डाला	नूरेशा खातून, माशेलुद्दीन खातून, मजीदा खातून
					आरएस 883	0.1125	निजी	डाला	सफीरुद्दीन अहमद, अब्दुल गफर बर्गादार- बोशामुद्दीन, मनिजुद्दीन, पशीमुद्दीन
					आरएस 885	0.0075	निजी	डाला	सरीफुद्दीन अहमद, तरबुद्दीन अहमद, नयामुद्दीन अहमद
					आरएस 886	0.8250	निजी	डाला	गिरीश चंद महंतो
					आरएस 887	1.4800	निजी	डाला	अमन सरकार, बालि कात देशी
					आरएस 888	0.4700	निजी	डाला	अल्बाला दासी, गुपी देवशर्मा, दयाल देवशर्मा, पहल देवशर्मा, सोहन देवशर्मा, तुलाराम सरकार, सेरू सरकार
					आरएस 889	0.5100	निजी	डाला	माशीलुद्दीन अहमद
					आरएस 890	0.0500	निजी	डाला	हेमंत सरकार
					आरएस 891	0.6400	निजी	डाला	अमन सरकार, अमय देशी, उपेन सरकार, विमला दासी, रोहिता दासी, सूपेन सरकार
					आरएस 892	0.6700	निजी	डाला	भूपेन देशी, छाप्पू रानी दासी, तितन दासी, दपेण देशी, कमारीश चंद्र राय
					आरएस 913	0.2000	निजी	डाला	बजुराद्दीन मुल्ला, सहरुद्दीन
					आरएस 914	0.5500	निजी	डाला	उस्मान अली, अलीबुद्दीन अहमद, अरूजा खातून, धाकू महम्मद
					आरएस 915	0.0450	निजी	डाला	उस्मान अली, अलीबुद्दीन अहमद, अरूजा खातून, खविरुद्दीन अहमद
					आरएस 918	0.0200	निजी	डाला	सफरा खातून, बर्गादार- भानू सिंह
					आरएस 1564	0.1500	निजी	डांगा	दगधान देशी, परेश देशी
					आरएस 1587	0.0900	निजी	डाला	उस्मान अली, अलीबुद्दीन अहमद, अरूजा खातून, धाकू महम्मद
					आरएस 1665	0.3900	निजी	डाला	अकीमन नेशा, जलिमन शेशा
			(8) अराजी क्रमा - 74	138	आरएस 29	0.0350	निजी	डाला	फैजुद्दीन अहमद
					आरएस 38	0.0200	निजी	डाला	बिथु मुहम्मद
					आरएस 40	0.2650	निजी	डाला	कशीमुद्दीन मुल्ला, शैरुद्दीन अहमद, सहलुद्दीन अहमद, बहरुद्दीन अहमद, खबीबर रहमान बर्गादार- सूखू मुल्ला
					आरएस 41	0.0050	निजी	डाला	अशमुद्दीन बर्गादार- सूखू मुल्ला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				आरएस	42	0.1350	निजी	डाला	तहीर मुल्ला
				आरएस	44	0.3000	निजी	डाला	असीमुद्दीन अहमद, तस्लीमा खातून, मकबूल हसन
				आरएस	45	2.5100	निजी	डाला	जमुना बिहारी बसक, जशोदा बसक, बर्गादार-खापत मुल्ला
				आरएस	46	0.4300	निजी	डाला	नेमूद्दीन अहमद, तस्लीमा खातून
				आरएस	47	0.0300	निजी	डाला	नेमूद्दीन अहमद, तस्लीमा खातून
				आरएस	48	0.7875	निजी	डाला	उफीजा खातून, जयनल हक, तसीरुद्दीन सरकार, अनीसर रहमान, अंशार अली, रमजान अली, पचकुटी सरकार, मोमिना खातून, बीवी, सरीफुद्दीन, समसुद्दीन सरकार
				आरएस	50	0.4350	निजी	डाला	लाल महाम्मद
				आरएस	51	1.2400	निजी	डाला	खैरुद्दीन, तमीना बेवा, नकीरुद्दीन मुल्ला, नजीरुद्दीन, फजुद्दीन अहमद, फूल मुहम्मद, मजरुद्दीन, मैनुद्दीन, मारा बेवा
				आरएस	52	0.3800	निजी	डाला	असतुल्ला मुल्ला, अकलू मुल्ला, एतबार सरकार, छलदीन मुल्ला
				आरएस	53	0.9200	निजी	डाला	पजीरुद्दीन अहमद, ताजुद्दीन अहमद, सहरबानू बेगम, जहेरा बेगम
				आरएस	54	0.3600	निजी	डाला	अमीना खातून, इच्छामुद्दीन अहमद
				आरएस	55	0.0525	निजी	डाला	जमुना बिहारी बसक, अकीरुद्दीन अहमद, मजीबुर रहमान, सैफर रहमान, मोती कुल इस्लाम, रविउल इस्लाम, बर्गादार-जियारु मुल्ला, जियार मुल्ला, रियाजुद्दीन मुल्ला
				आरएस	56	0.0200	निजी	डाला	बजीरुद्दीन अहमद
				आरएस	57	0.3400	निजी	डाला	पजीरुद्दीन अहमद, लतीफा खातून, जहेरा बेगम
				आरएस	58	0.0600	निजी	डाला	जमीला खातून
				आरएस	59	0.2300	निजी	डाला	जादू गोपाल बाशीक
				आरएस	68	0.3450	निजी	डाला	मतब्बर मुल्ला, सामू मुल्ला
				आरएस	69	0.2050	निजी	डाला	तितालीन्नेशा बीवी (खातून)
				आरएस	71	0.0225	निजी	डाला	राम भट्टाचार्य, बर्गादार-सैफर रहमान
				आरएस	108	0.0450	निजी	डाला	बालाराम सरकार, रजनी कांत सरकार
				आरएस	109	1.3025	निजी	डाला	राजेन्द्र नाथ सरकार, पुट्टू चंद्र सरकार, हैम चंद्र सरकार, मन्दू चंद्र सरकार
				आरएस	110	0.4400	निजी	डाला	बालाराम सरकार, रजनी कांत सरकार
				आरएस	299	0.0500	निजी	डाला	कार्तिक चंद्र साह
				आरएस	301	0.1000	निजी	डाला	कलया बाला हलदर, अंजलि दास, सुबदू दास, मुलक्षण दास, दिबेन्दू दास, जादव चंद्र दास, सुरेश चंद्र दास
				आरएस	305	0.6900	निजी	डाला	आस्था सरकार, अहित देशी, ऊपेन देशी, कृष्ण सरकार, दर्पण देशी, नारायण चंद्र सरकार, विभीषण सरकार, भूपाल चंद्र सरकार, भूपेन चंद्र सरकार, सुपेन देशी, कुमारेश राय, हीरा झा, विप्लव सरकार
				आरएस	306	0.0075	निजी	डाला	आस्था सरकार, अहित देशी, अर्धेन देशी, ऊपेन देशी, कृष्ण सरकार, दर्पण देशी, नारायण चंद्र सरकार, विभीषण सरकार, भूपाल चंद्र सरकार, विमला देशी, सुपेन देशी, हेमंत सरकार, कुमारेश राय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					भारत 307	0.3000	निजी	वास्तु	अमन चंद्र सरकार, गमंत चंद्र सरकार, दिजेन्द्र नाथ सरकार, हीरेन देवशर्मा, भीमलूली सरकार, मोहन लाल सरकार, अनय विश्वास, राजू विश्वास
					भारत 308	0.0400	निजी	भिता	भावक देशी, अनय विश्वास, राजू विश्वास
					भारत 309	0.7900	निजी	डाला	दगधान रॉय, नरेश चंद्र देवशर्मा
					भारत 310	0.0500	निजी	दोबा	दगधान रॉय, नरेश चंद्र देवशर्मा
					भारत 312	0.0350	निजी	डाला	खोकाराम सरकार
					भारत 313	0.1600	निजी	डाला	आस्था सरकार, सैलेन सरकार, रजीत सरकार
					भारत 314	0.1350	निजी	डाला	रत्न चंद्र सरकार
					भारत 315	0.9300	निजी	डाला	बालाराम सरकार, रजनीकांत सरकार
					भारत 316	1.1100	निजी	डाला	बालाराम सरकार, रजनीकांत सरकार
					भारत 317	0.1800	निजी	डांगा	अनय सरकार
					भारत 318	0.0600	निजी	डाला	रत्न चंद्र सरकार
					भारत 319	1.5000	निजी	डाला	आस्था सरकार, अहित देशी, ऊपेन देशी, कृष्ण सरकार, टपेण देशी, नारायण चंद्र सरकार, विश्वेश सरकार, भूपाल चंद्र सरकार, भूपेन चंद्र सरकार, विमला देशी, सुपेन देशी, कुमारेश रॉय
					भारत 320	1.9150	निजी	डाला	प्राणलोक देवशर्मा, मंगल चंद्र भौमिक, मोतीलाल भौमिक, जितेन्द्रनाथ भौमिक, विपद चंद्र भौमिक
					भारत 321	0.6000	निजी	डाला	निरेश चंद्र सरकार, मनरेन्द्र सरकार, बगोदार-केकड़ सरकार
					भारत 322	0.7200	निजी	डाला	तरुणाकानित सरकार, अरुणकानित सरकार
					भारत 323	0.7200	निजी	डाला	तरुणाकानित सरकार, अरुणकानित सरकार, बगोदार-मसमत अली
					भारत 324	0.1250	निजी	डाला	खिराजूदीन अहमद, मृपाल कानित सरकार, अरुणकानित सरकार
					भारत 325	0.5900	निजी	डाला	मृपाल कानित सरकार, ताज सरकार
					भारत 326	0.3800	निजी	डाला	भावक देशी
					भारत 381	0.1350	निजी	वास्तु	भावक देशी, कमल सरकार
					भारत 469	0.7450	निजी	डाला	आशाबाला दासी, शीतल देशी, मनरेन्द्र सरकार
					भारत 480	0.0475	निजी	डाला	अमीजुदीन सरकार
					भारत 501	0.0700	निजी	डाला	बालिकान्त देशी
(2) बरौंडल			(1) कलामडी - 70	137	भारत 1001	0.0900	निजी	नयनजलि	जिला परिषद, दक्षिण दिनाजपुर
					भारत 1002	0.0800	निजी	रास्ता	हबीजेदीन मुल्ला, नूर मति अली
					भारत 1003	0.0600	निजी	रास्ता	जिला परिषद, दक्षिण दिनाजपुर
					भारत 1059	0.1400	निजी	डांगा	तुला सरकार, शेरू सरकार
					भारत 1063	0.1450	निजी	डाला	सुधारी बेवा, प्रेमदा बाला, सुमिता बाला, मैनका बाला, कमला बाला, भूपेन्द्र देशी, निरुद्धा दासी, नारायण देशी, भूपाल देशी, कृष्ण देशी, बैनबल दासी, आस्था सरकार, शैलेन सरकार, रजीत सरकार
					भारत 1064	0.1100	निजी	डाला	आस्था सरकार, शैलेन सरकार, रजीत सरकार
					भारत 1065	0.0800	निजी	डाला	आस्था सरकार, हेमंत सरकार, शैलेन सरकार, रजीत सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरक्ष 1066	0.0100	निजी	रास्ता	प्रधान नं 4 आंचल पंचायत
					आरक्ष 1067	0.3300	निजी	डांगा	निरुद्धा दासी, नारायण देशी, भूपाल देशी, कृष्ण देशी, बैना बाला देशी
					आरक्ष 1069	0.2000	निजी	भिटा	विजय सरकार, अखिल सरकार, दानेश्वर सरकार, धनंजय सरकार
					आरक्ष 1070	0.0100	निजी	भिटा	भूपाल देशी, कृष्ण देशी, दयनवलका देशी, आस्थासरकार, हेमंत सरकार, शैलन सरकार, रंजीत सरकार, भूपेन सरकार, सावित्री सरकार, सुधारी बेवा, प्रेमदा बाला, सुमिता बाला, मेनका बाला, कमली बाला, कुमारीश चंद्र रॉय, भूरेन्द्र देशी, निरुद्धा देशी, नारायण देशी
					आरक्ष 1071	0.2500	निजी	वास्तु	वाताशू देशी, रामचंद्र शील, सोमनाथ सरकार, श्याम लाल देशी, नूनालू चादिक सरकार, बगोदार-कोकर देशी, फकरू देशी, केकड़ू देशी
					आरक्ष 1076	0.0025	निजी	वास्तु	जतीन्द्र देशी, रामचंद्र शील
					आरक्ष 1078	0.0775	निजी	वास्तु	वाताशू देशी, हुलाशू देशी, सोमनाथ देशी, बुद्धा बाला देशी
					आरक्ष 1081	0.1700	निजी	डाला	अचैना रानी पाल, हेमचंद्र सरकार
					आरक्ष 1082	0.1600	निजी	डाला	हेमचंद्र सरकार
					आरक्ष 1083	0.1900	निजी	डाला	बालाराम सरकार, रजनी कांत देशी
					आरक्ष 1085	0.0100	निजी	डाला	वाताशू देशी, हुलाशू देशी, सोमनाथ देशी, बुद्धा बाला देशी
					आरक्ष 1091	0.0050	निजी	डाला	वाताशू देशी, सोमनाथ देशी, नूनालू चादिक सरकार
					आरक्ष 1115	0.0175	निजी	वास्तु	धानी राम देशी, अधेश्वर देशी
					आरक्ष 1119	0.0050	निजी	वास्तु	धुलेश चंद्र रॉय
					आरक्ष 1121	0.0150	निजी	वास्तु	भावक देशी
					आरक्ष 1122	0.0650	निजी	वास्तु	पियानाथ सरकार
					आरक्ष 1123	0.0700	निजी	भिटा	धुलेश चंद्र रॉय
					आरक्ष 1124	0.0250	निजी	डांगा	केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1125	0.0600	निजी	वास्तु	कानीष सरकार, केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1126	0.0550	निजी	वास्तु	केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1127	0.0900	निजी	वास्तु	कानीष सरकार, केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1128	0.0050	निजी	पुकुर	केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1130	0.0125	निजी	वास्तु	वाताशू देशी, हुलाशू देशी, सोमनाथ देशी, बुद्धा बाला देशी
					आरक्ष 1143	0.0125	निजी	डांगा	तरुण कुमार दास
					आरक्ष 1144	0.0825	निजी	डाला	धानी राम देशी, अधेश्वर देशी, धुलेश चंद्र रॉय, भूलू चंद्र सरकार, बगोदार-तेपू देशी
					आरक्ष 1145	0.0250	निजी	डांगा	केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1146	0.0800	निजी	डांगा	केकड़ू रॉय
					आरक्ष 1147	0.0700	निजी	डांगा	केकड़ू रॉय, धुलेश चंद्र रॉय
					आरक्ष 1148	0.1700	निजी	डांगा	कानीष चंद्र सरकार, धुलेश चंद्र रॉय
					आरक्ष 1149	0.1250	निजी	डांगा	धुलेश चंद्र रॉय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					भारत 1150	0.0025	निजी	डांगा	केकड़ रॉय, सुनील चंद्र रॉय बर्गादार-केकड़ देशी
					भारत 1152	0.0650	निजी	डांगा	केकड़ रॉय
					भारत 1153	0.1450	निजी	वास्तु	कानीष चंद्र सरकार, केकड़ रॉय, जगन्नाथ सरकार, जितेन्द्र नाथ सरकार, वैद्यनाथसरकार बर्गादार-अधीश्वर देशी
					भारत 1157	0.1850	निजी	डांगा	कानीष चंद्र सरकार
					भारत 1158	0.2875	निजी	डाला	भूलेश चंद्र रॉय
					भारत 1159	0.1650	निजी	वास्तु	धानी राम देशी, अधीश्वर देशी
					भारत 1160	0.0800	निजी	डाला	धानी राम देशी, अधीश्वर देशी
					भारत 1161	0.7500	निजी	डांगा	अनीका बाला सरकार
					भारत 1162	0.0650	निजी	डांगा	इंदू भूषण चौधरी, कानीष सरकार, केकड़ रॉय, निरेश चंद्र सरकार, वाताशु देशी, बाबू चंद्र सरकार, रामसागर सरकार, श्याम लाल देशी, नूलानू चंद्र सरकार, निरेश सरकार बर्गादार-कुमन देशी, जुमन देशी, हुजन देशी, दुमन देशी
					भारत 1260	0.0025	निजी	डाला	भावक देशी
					भारत 1261	0.2550	निजी	डाला	धुलेश चंद्र रॉय, भूलू चंद्र सरकार
					भारत 1263	0.1450	निजी	डाला	फरमान अली
					भारत 1264	0.2750	निजी	डाला	जलेखा खातून, महीदर रहमान
					भारत 1265	0.1050	निजी	डाला	केकड़ रॉय
					भारत 1266	0.0600	निजी	डाला	ऊबेदर रहमान, महीदर रहमान
					भारत 1269	0.0050	निजी	डाला	खिराजूद्दीन मुल्ला, कुलेश चंद्र सरकार
					भारत 1270	0.2650	निजी	डांगा	अहेला खातून, पताली बीवी
					भारत 1271	0.1900	निजी	डाला	छाहूरा बेगम
					भारत 1272	0.2500	निजी	डाला	अकीमुद्दीन अहमद
					भारत 1273	0.1700	निजी	डाला	कंडूरा मुल्ला, कुरबान अली, घुट्टू मुल्ला, जनाब अली, जावेद अली, जोहाद अली, जियारुद्दीन अहमद, बातू मुल्ला, रमजान अली
					भारत 1275	0.0300	निजी	डाला	ऊँनू महाम्मद
					भारत 1371	0.0175	निजी	डाला	तूलीमनेशा, नजरुल इस्लाम
					भारत 1372	0.2600	निजी	डाला	गुफराद्दीन
					भारत 1373	0.1250	निजी	डाला	मयदन्नेशा, मुनीरा खातून, मेहरन्नेशा, मजीदर रहमान
					भारत 1374	0.1550	निजी	डाला	जमीरुद्दीन अहमद, नोटू मुल्ला, पचकुर मुल्ला, मयफूर रहमान, तैफूर रहमान
					भारत 1375	0.1000	निजी	डाला	अछिया खातून, हबीजूद्दीन अहमद
					भारत 1376	0.0100	निजी	डाला	नयमा खातून, सरीफुद्दीन
					भारत 1379	0.3700	निजी	डाला	भावक देशी
					भारत 1380	0.3350	निजी	डाला	नेगर सुल्ताना
					भारत 1391	0.0100	निजी	डाला	अली महाम्मद, भोटा महलात
					भारत 1392	0.1550	निजी	डाला	करीमन्नेशा, मझीला महाम्मद, सेकेरन्नेशा, पद्मा रानी मंडल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					भारत 1393	0.4100	निजी	डाला	शानू महाम्मद
					भारत 1394	0.3150	निजी	डाला	नुरुल इस्लाम
					भारत 1396	0.0025	निजी	डाला	अब्दुल माजिद. विधाजुद्दीन
					भारत 1397	0.5200	निजी	डाला	अशार अली. बहरुद्दीन अहमद. रायसुद्दीन अहमद. सहाबुद्दीन अहमद
					भारत 1398	0.0200	निजी	डाला	तसीरुद्दीन. तसलीमुद्दीन तेतली बेवा. खतिला खातून. खविरुद्दीन अहमद. रसनेयारा खातून. नजीमन्नेशा
					भारत 1401	0.0125	निजी	डाला	अकलू महाम्मद
					भारत 1428	0.1200	निजी	डाला	तसीरुद्दीन. तसलीमुद्दीन तेतली बेवा. खतिला खातून. खविरुद्दीन अहमद. नजीमन्नेशा
					भारत 1430	0.0025	निजी	डाला	रजीता दासी. ऊपेन देशी. सुपेन देशी. बिमला दासी. जगन्नाथ सरकार जीवन बसक. अधरा सरकार
					भारत 1431	0.1750	निजी	डाला	तरबुद्दीन बहरुद्दीन अहमद
					भारत 1432	0.1500	निजी	डाला	तरबुद्दीन बहरुद्दीन अहमद
					भारत 1433	0.1175	निजी	डाला	फयजा खातून. अब्दुल बसीद. हसरीन बीवी. हिनू मिया
					भारत 1887	0.0325	निजी	वास्तु	वाताशु देशी. हुलाशु देशी. सोमनाथ देशी बुद्ध बाला देशी
					भारत 1893	0.1450	निजी	डाला	भूलू चंद सरकार बगोदार. सुरेन देशी
					भारत 1908	0.0300	निजी	डाला	नयमा खातून. सरीफुद्दीन
		(2) कस्बा - 71		11.	भारत 2262	0.1425	निजी	पुकरपार	जामे-मस्जिद के लिए पधान नय कस्मानदी ग्राम पचायत
					भारत 2271	0.0100	निजी	डाला	नजरुल इस्लाम. मुख्तार हुसैन. समेदर रहमान. हजरत अली
					भारत 2272	0.2700	निजी	डाला	पंचकुर मुल्ला. दिलवरा बेगम
					भारत 2273	0.1800	निजी	डाला	कमलुद्दीन अहमद. सजरुद्दीन अहमद. मजीफर रहमान
					भारत 2274	0.0750	निजी	डाला	गबनूसरकार. महरा खातून
					भारत 2275	0.0125	निजी	डाला	इब्राहिम. याकूब अली. कदारी बीवी. खविरुद्दीन अहमद. तसलीमुद्दीन अहमद. तसरुद्दीन अहमद. तेतली बेवा. नजीमन्नेशा. नजीरुद्दीन अहमद
					भारत 2276	0.1450	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन. तोरा खातून नवीमन बीवी. फूल मुहम्मद. तफिलुद्दीन मुल्ला. मोमिना बीवी. अमीना खातून
					भारत 2277	0.0500	निजी	डाला	मोफिजुद्दीन
					भारत 2278	0.1800	निजी	डाला	खविरुद्दीन अहमद
					भारत 2279	0.2300	निजी	डाला	अब्दुल कादेर. खविरुद्दीन अहमद. खमीना खातून. नजीबुद्दीन. यसीन अली
					भारत 2280	0.2500	निजी	डाला	अशीमुद्दीन
					भारत 2281	0.2000	निजी	डाला	अशीमुद्दीन. यसीन अली
					भारत 2283	0.0900	निजी	डाला	अशीमुद्दीन. करुन्नेशा. तस्लीमा खातून. मोहसिन अली. अशदर रहमान
					भारत 2284	0.1300	निजी	डाला	अजीजुर रहमान. खजीरुद्दीन अहमद. तैजुद्दीन अहमद. फर्जुद्दीन अहमद. परेशा खातून. हमीमन्नेशा
					भारत 2287	0.0675	निजी	डाला	अछिया बेवा अनवरा खातून. अबुल हुसैन. अमीरुल इस्लाम. अलाऊद्दीन. अहमद हुसैन. आयशा बेवा. भातू महाम्मद
					भारत 2289	0.0150	निजी	डाला	आयशा खातून

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरएस 2310	0.0025	निजी	डाला	खलीलूर रहमान, महफूजर मनिउर रहमान, गुलाम रब्बामी, गुलाम रहमान, गुलाम रहीम
					आरएस 2404	0.2500	निजी	डाला	अनीसर रहमान, जुलुम नेगर
					आरएस 2405	0.1775	निजी	डाला	अकली खातून, अजुरा बेगम, कमलुद्दीन अहमद, गबनूसरकार, सजीरुद्दीन अहमद, मजीफर रहमान
					आरएस 2406	0.2800	निजी	डाला	अजीजुर रहमान, खजीरुद्दीन अहमद, तैजूद्दीन अहमद
					आरएस 2407	0.4400	निजी	डाला	अजीरुद्दीन, नूर हुसैन, नजमा खातून
					आरएस 2408	0.0350	निजी	डाला	गहरजन्नेशा बर्गादार, ताभाशत महकहीरा
					आरएस 2409	0.0450	निजी	डाला	अछिया बेवा, अनवरा खातून, अबुल हुसैन, अमीरुल इस्लाम, अलाऊद्दीन अहमद हुसैन, आयशा बेवा, भालू महम्मद
					आरएस 2410	0.1200	निजी	डाला	किताबुद्दीन मुल्ला
					आरएस 2411	0.1450	निजी	डाला	खतीना खातून, तशीरुद्दीन अहमद
					आरएस 2412	0.4000	निजी	डाला	प्रदीप कुमार राय बर्गादार, गुलाम रहीम
					आरएस 2413	0.0700	निजी	डाला	अशीमुद्दीन आहा अशटर रहमान
					आरएस 3053	0.0200	निजी	डाला	जमुद्दीन अहमद, मंगलू मिया
					आरएस 3054	0.1950	निजी	डाला	अशरफ अली
					आरएस 3055	0.4550	निजी	डाला	बसरू अली
					आरएस 3056	0.1200	निजी	डाला	बसरू अली
					आरएस 3057	0.3000	निजी	डाला	मजीबुर रहमान, मसीउर रहमान
					आरएस 3058	0.1200	निजी	डाला	रहीमा खातून
					आरएस 3059	0.0200	निजी	डाला	अजीजुद्दीन बर्गादार, नयेलुद्दीन
					आरएस 3060	0.4675	निजी	डाला	जमालुद्दीन मिया, हाफिज मोहम्मद यसीन अली
					आरएस 3080	0.0775	निजी	डाला	बजेन्द्र नाथ देवशर्मा
					आरएस 3081	0.1500	निजी	डाला	नफेलुद्दीन मुल्ला
					आरएस 3084	0.0350	निजी	डागा	खलीउर रहमान, महफूजर, मनिउर रहमान
					आरएस 3086	0.1600	निजी	डाला	बजेन्द्र नाथ देवशर्मा
					आरएस 3087	0.0750	निजी	डागा	कुआरू देवशर्मा, बजेन्द्र नाथ देवशर्मा
					आरएस 3088	0.5200	निजी	पुकर	प्रधान, अक्शा गाम पंचायत
					आरएस 3089	0.1675	निजी	डाला	बजेन्द्र नाथ देवशर्मा
					आरएस 3160	0.0775	निजी	डाला	तरबुद्दीन, बहरुद्दीन अहमद, जहानारा बेगम
					आरएस 3161	0.1200	निजी	डाला	नूरेशा बेगम
					आरएस 3162	0.2800	निजी	डागा	सलेहा खातून
					आरएस 3163	0.0150	निजी	डाला	नरेन्द्र नाथ विश्वास
					आरएस 3164	0.0550	निजी	डाला	अकली खातून, अजुरा बेगम, कमलुद्दीन अहमद, गबनू सरकार, सजीरुद्दीन अहमद, मजीफर रहमान
					आरएस 3165	0.0700	निजी	डाला	सुधीर कुमार विश्वास
					आरएस 3166	0.1150	निजी	डाला	जयनल अबेदीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आएन 3167	0.2600	निजी	डाला	नरेन्द्र नाथ विश्वास, हरीश चंद्र विश्वास, हर कुमार विश्वास
					आएन 3168	0.3700	निजी	डाला	इसराफिल हक, सेहरा बेगम
					आएन 3169	0.5300	निजी	डाला	शमसुद्दीन अहमद
					आएन 3170	0.0400	निजी	डाला	अतिमन्नेशा
					आएन 3172	0.2700	निजी	डाला	खलीलूर रहमान
					आएन 3174	0.2400	निजी	डाला	अबुल हुसैन, अहमद हुसैन
					आएन 3175	0.4000	निजी	डाला	नियामुद्दीन
					आएन 3179	0.0075	निजी	डाला	खलीलूर रहमान
					आएन 3206	0.0550	निजी	डाला	खलीलूर रहमान, महफूजर मनिउर रहमान
					आएन 3208	0.0025	निजी	डाला	ओहेदा खातून, कैमुल्ला मिया
					आएन 3234	0.1600	निजी	डाला	रहीना खातून
					आएन 3235	0.0200	निजी	डाला	ऐजान, उमीसा खातून, कहीरा बीबी, जमीरुद्दीन अहमद, बशीरुद्दीन, हाजी मुसीरुद्दीन अहमद, मंगलू मिया, जियारुद्दीन अहमद, नूर महम्मद
					आएन 3691	0.0450	निजी	डाला	फजुद्दीन मीर, कन्नफूरी बेवा, ब्रजेन्द्र नाथ देवशर्मा
					आएन 4843	0.1250	निजी	डाला	अनीसुर रहमान
			(3) तहसीपुर - 63	11, 127, 128	आएन 3439	0.0125	निजी	डाला	बजरुद्दीन महम्मद
					आएन 3440	0.1400	निजी	डाला	बजरुद्दीन महम्मद, समसुद्दीन अहमद
					आएन 3441	0.7000	निजी	डाला	अजीबूला सरकार
					आएन 3442	0.0675	निजी	डाला	अजीबूला सरकार
					आएन 3443	0.5300	निजी	डाला	अली महम्मद, जियारुद्दीन अहमद, नुरुल इस्लाम, सीफूरा बेवा रुमजनी खातून, राविया खातून
					आएन 3444	0.1150	निजी	डाला	रहमतुल्ला हक अख्तर भानू
					आएन 3446	0.2400	निजी	डाला	मीन मुल्लाह बर्गादार - अफीजुद्दीन
					आएन 3447	0.0425	निजी	डाला	शदीर महम्मद
					आएन 3451	0.1700	निजी	डाला	बजरुद्दीन महम्मद, समसुद्दीन अहमद
					आएन 3452	0.5700	निजी	डाला	अफसर मुल्ला, बजरुद्दीन महम्मद, मुख्तार हुसैन, मजहर अली हमीदर रहमान
					आएन 3453	0.2850	निजी	डाला	युनुस अली
					आएन 3455	0.2625	निजी	डाला	सजीरुद्दीन अहमद बर्गादार - नशीरुद्दीन
					आएन 3456	0.3300	निजी	डाला	जहरुन्नेशा बीबी मुजम्मल हुसैन बर्गादार - तशरुद्दीन
					आएन 3457	0.1100	निजी	डाला	अफसर मुल्ला हमीदर रहमान, मुजम्मल हुसैन
					आएन 3459	0.1500	निजी	डाला	खलीलूर रहमान, मसीउर रहमान, महफूजर रहमान
					आएन 3460	0.1000	निजी	डाला	मनीन्द्र नाथ अधिकारी
					आएन 3461	0.2750	निजी	डाला	पेदू बेवा, मशहलीमा बेगम, सजीरुद्दीन अहमद
					आएन 3462	0.1950	निजी	डाला	टोपू मुल्लाह, मशहलीमा बेगम, सजीरुद्दीन अहमद
					आएन 3463	0.4300	निजी	डाला	अमलुद्दीन मिया शाले महम्मद
					आएन 3464	0.3300	निजी	डाला	अमलुद्दीन मिया, कमलुद्दीन मिया, तसलीमुद्दीन, बजीरुद्दीन महम्मद, समसुद्दीन अहमद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरक्ष 3466	0.0100	निजी	डाला	बजीरुद्दीन महाम्मद. समसुद्दीन अहमद
					आरक्ष 3477	0.1300	निजी	डाला	अब्दुल अजीज मिया. नखीरा खातून. रोशनीवारा खातून. जायिदा खातून. बर्गादार - तुजम्मल हुसैन
					आरक्ष 3478	0.1500	निजी	डाला	गुलाम रब्बानी. गुलाम रहमान. अजहर अली,
					आरक्ष 3480	0.0100	निजी	डाला	तजीरुद्दीन मुलाह.
					आरक्ष 4243	0.0075	निजी	डाला	बिरेश्वर पाल. संरेश चंद्र पाल. मैनुद्दीन अहमद,
					आरक्ष 4244	0.1250	निजी	डाला	खमीरुद्दीन अहमद. भूलू मुल्ला. भूलू महाम्मद
					आरक्ष 4245	0.4100	निजी	डाला	सिराजुद्दीन अहमद. मेहराफ अली. हुसैन अली, हसीन अली
					आरक्ष 4246	0.0750	निजी	डाला	जमुना महतो. बर्गादार - तसर महाम्मद
					आरक्ष 4248	0.0450	निजी	रास्ता	कसूमनदी आंचल पंचायत
					आरक्ष 4249	0.0075	निजी	डांगा	फनिरुद्दीन अहमद. मोमिना खातून
					आरक्ष 4250	0.2250	निजी	डाला	फनिरुद्दीन अहमद.
					आरक्ष 4251	0.4850	निजी	डाला/वास्तु	अब्दुल नूर. अब्दुल बाखेर. अब्दुल गोफूर, नजीरुद्दीन
					आरक्ष 4252	0.1800	निजी	डाला	मशालुद्दीन. हकीमुद्दीन अहमद.
					आरक्ष 4255	0.1800	निजी	डाला	फनिरुद्दीन अहमद
					आरक्ष 4257	0.7500	निजी	डाला	फनिरुद्दीन अहमद. मुख्तार हुसैन
					आरक्ष 4258	0.0400	निजी	डाला	सकीला बेगम
					आरक्ष 4264	0.0350	निजी	डाला	जितेन मंडल. बाधार मंडल. विदर मंडल. सुधुर मंडल
					आरक्ष 4265	0.1800	निजी	डाला	समीजुद्दीन
					आरक्ष 4266	0.0800	निजी	डाला	शामीना खातून
					आरक्ष 4387	0.0475	निजी	डाला	कलीमन नेशा
					आरक्ष 4390	0.1800	निजी	डाला	जगदीश चंद्र चौधरी. धीरेन्द्र नाथ चौधरी.
					आरक्ष 4391	0.3450	निजी	डाला	तशलिमुद्दीन अहमद. मशीबुद्दीन अहमद
					आरक्ष 4392	0.3000	निजी	डाला	अरजहा खातून. ज्योत्सना खातून
					आरक्ष 4393	0.2400	निजी	डाला	अफजूद्दीन मुल्लाह. अशरफी बीबी. ईजा महाम्मद. इस्लामुद्दीन अहमद. कलीमुद्दीन. तसलीमुद्दीन अहमद
					आरक्ष 4394	0.1150	निजी	डाला	कलीमन नेशा. अल्ताफ हुसैन.
					आरक्ष 4402	0.5600	निजी	डाला	अधीर चंद्र पाल. जितेन्द्र नाथ पाल. मदन मोहन पाल. नमीरुद्दीन अहमद
					आरक्ष 4403	0.5200	निजी	डाला	सिराजुल इस्लाम. भूमन रशद
					आरक्ष 4404	0.0375	निजी	डाला	तसलीमुद्दीन अहमद. हमीदर हक
					आरक्ष 4406	0.5000	निजी	डाला	हरीपद साह
					आरक्ष 4421	0.0050	निजी	डाला	रमानीकांत प्रमाणिक बर्गादार - वाहिद अली
					आरक्ष 5026	0.4200	निजी	डाला	खविरुद्दीन मुल्लाह. समसुल आलम
					आरक्ष 5051	0.0700	निजी	डाला	अब्दुल लतीफ. अलाऊद्दीन. तसलीमुद्दीन अहमद. नूर जहां खातून. हकीमुद्दीन अहमद, हसीन अली.
					आरक्ष 5054	0.0850	निजी	डाला	मैफत अली. अमीरुल इस्लाम अफजल हुसैन
			(4) नुरुलिया कुटी अगापारा - 62	18	आरक्ष 80	0.0775	निजी	डाला	मोसू महाम्मद. अब्दुल बसीद
					आरक्ष 81	0.0575	निजी	डाला	रहमान अली. समसुल हक.
					आरक्ष 83	0.5900	निजी	डाला	अब्दुल बसीद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					अरब 84	0.4300	निजी	डाला	शालिहा खातून, रहमान अली, समसुल हक, हसीन अली, हसीन अली
					अरब 126	0.0025	निजी	डाला	मोहसिन अली
					अरब 127	0.3600	निजी	डाला	मोसू महाम्मद, मीर महाम्मद
					अरब 133	0.4800	निजी	डाला	अखीजुदीन अहमद मंगली खातून
					अरब 134	0.0800	निजी	डाला	रहमान अली
					अरब 605	0.2000	निजी	डाला	अशीमुदीन अहमद, मोहसिन अली, आनीशूर रहमान
					अरब 606	0.2150	निजी	डाला	उस्मान अली
			(5) कमरक - 125	19	एर.अर 1	0.0050	निजी	डाला	रहमान मुल्ला
					एर.अर 2	0.1300	निजी	डांगा	अशीमुदीन अहमद, सफूरा खातून, हफीजुदीन अहमद, रज्जाक अली, यसीन अली, अब्बास अली, रियाजुल हक, मिजानूर हक
					एर.अर 3	0.0350	निजी	डाला	अशीमुदीन अहमद, सफूरा खातून, हफीजुदीन अहमद, रज्जाक अली, यसीन अली, अब्बास अली, रियाजुल हक, मिजानूर हक
					एर.अर 5	0.1600	निजी	डाला	नाशू महाम्मद, अब्दुल बसीद, मीर महाम्मद, सहीदा खातून, सहीदा बेवा
					एर.अर 6	0.4825	निजी	डाला	अशीमुदीन अहमद, रहमान मुल्ला, सफूरा खातून, हफीजुदीन अहमद, अफीजुदीन
					एर.अर 7	0.0950	निजी	डाला	अशीमुदीन अहमद, हफीजुदीन अहमद, रजक अली, यसीन अली, अब्बास अली, रियाजुल हक, मिजानूर हक
					एर.अर 10	0.2200	निजी	डाला	अफजुदीन
					एर.अर 11	0.6300	निजी	डाला	अफजुदीन
					एर.अर 12	0.2650	निजी	डाला	अशीमुदीन अहमद, फसीऊदीन अहमद
					एर.अर 14	0.6500	निजी	डांगा	अजीजर रहमान, जहरुदीन अहमद, अशरफ अली, बर्गादार - थालीमुल्लाह, थानी मुल्लाह
					एर.अर 16	0.2850	निजी	डाला	अजीजर रहमान, जहरुदीन अहमद, बहरुदीन मुल्लाह, युनुस अली
					एर.अर 417	0.0250	निजी	पुकर	अशीमुदीन अहमद, अब्दर रहमान, आशिया खातून, अजीजर रहमान, अशीमुदीन, अफजुदीन अहमद, यूसीश अली, जहरुदीन अहमद, दोटा मुल्लाह, तरबुदीन अहमद, फसीऊदीन अहमद, बंगरा मुल्लाह, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, जबीदर रहमान, अतीबर रहमान, मोफिजुदीन, मशूडा खातून, रफीऊदीन सरकार, सकीना खातून, हकीमुदीन अहमद, हस्मू तारा
					एर.अर 418	0.0900	निजी	वास्तु	कामरुक प्री-प्राइमरी स्कूल
					एर.अर 419	0.5400	निजी	डाला	शहेरा बीवी मोजीरा खातून इमाजुदीन अहमद, फजुदीन अहमद
					एर.अर 420	0.4800	निजी	डाला	दमीनुल हक, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, जबीदर रहमान, एतीबर रहमान, मजीबुर रहमान
					एर.अर 422	0.0450	निजी	डाला	अफजान अली, जमीला खातून, मोहसिन अली, मार्फत अली, हमीदर रहमान, सफूरा बेवा, समसुदीन जावेदर रहमान, अजीजर रहमान, ममताज बेगम
					एर.अर 423	0.0650	निजी	वास्तु	कामरुक प्री-प्राइमरी स्कूल
					एर.अर 424	0.0400	निजी	वास्तु	कामरुक प्री-प्राइमरी स्कूल, बहरुदीन (नटारु)
					एर.अर 425	0.0050	निजी	वास्तु	कामरुक प्री-प्राइमरी स्कूल
					एर.अर 427	0.0025	निजी	कछला	दमीनुल हक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एव.अ. 429	0.1500	निजी	दोबा	हमीदर रहमान सैदर रहमान, जवेदर रहमान, एतीबर रहमान
					एव.अ. 430	0.0500	निजी	वास्तु	कामरुक प्री-प्राइमरी स्कूल हमीदर रहमान, सैदर रहमान, जावेदर रहमान एतीबर रहमान
					एव.अ. 431	0.1000	निजी	वास्तु	अब्दुल हक, अब्दुल हिघ मुल्लाह, कामरुक प्री-प्राइमरी स्कूल, करामत अली अब्दुल बशीर मुल्लाह
					एव.अ. 432	0.0850	निजी	डाला	मोमिना खातून, सकीना खातून
					एव.अ. 433	0.2200	निजी	डांगा	दमीनुल हक, हमीदर रहमान सैदर रहमान, जबीदर रहमान, एतीबर रहमान, महसेन अली, माफत अली, बगीदार - महाम्मद मुल्लाह
					एव.अ. 457	0.2550	निजी	डाला	मैजुद्दीन अहमद, सहाबुद्दीन, फैजुद्दीन अहमद, अमीजुद्दीन अहमद, जरीफा बेगम, हशीन अली, एहसान अली
					एव.अ. 459	0.3700	निजी	डाला	रेजिया खातून, मुजफ्फर हुसैन, खमीरुल इस्लाम
					एव.अ. 460	0.5150	निजी	डाला	मोमिना खातून, अब्दुल रहमान, सकीना खातून
					एव.अ. 461	0.0400	निजी	डांगा	मोमिना खातून, अब्दुल रहमान, सकीना खातून
					एव.अ. 462	0.0900	निजी	भिट्टा	मोमिना खातून, अब्दुल रहमान, सकीना खातून
					एव.अ. 463	0.0650	निजी	भिट्टा	मोमिना खातून, अब्दुल रहमान, सकीना खातून
					एव.अ. 468	0.3250	निजी	वास्तु	अरसुद्दीन अहमद, कलीम नेशा, तरमुद्दीन, दमीनुल हक, मोमिना खातून, अब्दुल रहमान, सकीना खातून
					एव.अ. 495	0.0100	निजी	कछला	अजीजर रहमान, दोबूरुद्दीन अहमद
					एव.अ. 496	0.0300	निजी	कछला	अजीजर रहमान, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, जबीदर रहमान, एतीबर रहमान, माजिदर रहमान
					एव.अ. 497	0.3300	निजी	डाला	अशीरुद्दीन अहमद, मुकीना खातून
					एव.अ. 509	0.1025	निजी	कछला	अशीरुद्दीन अहमद, वाजुल हक, फसीऊद्दीन अहमद, माजिदा खातून
					एव.अ. 510	0.6200	निजी	डाला	अजीजर रहमान, जहरुद्दीन अहमद
					एव.अ. 511	0.0725	निजी	डाला	बंगरा मुल्लाह, मोफिजुद्दीन
					एव.अ. 513	0.0975	निजी	डाला	अजीजर रहमान, जहरुद्दीन अहमद
					एव.अ. 514	0.1100	निजी	डाला	अजीजर रहमान, मोहसिन अली
					एव.अ. 515	0.0750	निजी	डाला	बबलू मिया, मलिका खातून
					एव.अ. 516	0.1700	निजी	डाला	हमीदर रहमान, सैदर रहमान, जवेदर रहमान, एतीबर रहमान
					एव.अ. 517	1.4100	निजी	डाला	अजीजर रहमान, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, अजीम खातून, जवेदर रहमान, अमीजुद्दीन अहमद, अजीमा खातून, अरसद अली
					एव.अ. 518	0.0300	निजी	डाला	अजीजर रहमान, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, अजीमा खातून, जवेदर रहमान, अमीजुद्दीन अहमद
					एव.अ. 519	0.1700	निजी	डाला	अजीजर रहमान, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, अजीमा खातून, जवेदर रहमान, अमीजुद्दीन अहमद
					एव.अ. 520	0.2300	निजी	डाला	अजीजर रहमान, हमीदर रहमान, सैदर रहमान, अजीमा खातून, जवेदर रहमान
					एव.अ. 521	0.0700	निजी	डाला	अजीजर रहमान, मोहसिन अली
					एव.अ. 522	0.0600	निजी	डाला	जहरुद्दीन अहमद
					एव.अ. 523	0.0225	निजी	कछला	सिराजुल इस्लाम
					एव.अ. 581	0.0375	निजी	डाला	तरमुद्दीन मुल्लाह, आरामुद्दीन अहमद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एच.आर. 582	0.2100	निजी	डासा	दमीनुल हक.
					एच.आर. 583	0.2325	निजी	डासा	अब्दुल रहमान. अरसद अली
					एच.आर. 584	0.2050	निजी	डासा	अजीजर रहमान.
					एच.आर. 1401	0.0050	निजी	डासा	ईजमुद्दीन अहमद
					एच.आर. 1620	0.0900	निजी	डासा	तरमुद्दीन मुल्लाह. आरामुद्दीन अहमद.
					एच.आर. 1001	2.5600	निजी	डासा	अकबर अली. नमीरुद्दीन अहमद. हमीदर रहमान. सफीकल इस्लाम. शलेमन अली.
					एच.आर. 1002	1.7350	निजी	डासा	तफीजुद्दीन अहमद. मफिजुद्दीन सरकार. माशीलुद्दीन सरकार. महिमुद्दीन सरकार. हकीमुद्दीन अहमद. हफीजुद्दीन अहमद. सलेमान अली.
					एच.आर. 1003	0.2200	निजी	डासा	मैजुद्दीन अहमद. महताबुद्दीन. मारुफा खातून. अब्दुल अली. खसर नेहर.
					एच.आर. 1004	1.1500	निजी	डासा	अफीजा खातून. तोशू महाम्मद. बबलू मिया. मैजुद्दीन अहमद. महताबुद्दीन. सैदर रहमान. जहीदर रहमान.
					एच.आर. 1005	0.2150	निजी	डासा	तमीजुद्दीन अहमद. मोफिजुद्दीन सरकार. माशीलुद्दीन सरकार. महाराणी खातून. महिमुद्दीन सरकार. हकीमुद्दीन अहमद. हफीजुद्दीन अहमद. रज्जाफ हुसैन. रेजील करीम. बर्गादार - नशीरुद्दीन नशीरुद्दीन
					एच.आर. 1032	0.5700	निजी	डासा	वाजुल हक
					एच.आर. 1033	0.3200	निजी	डासा	तसीरुद्दीन अहमद. राधिया खातून. सरीफा खातून
					एच.आर. 1034	1.2600	निजी	डासा	बबलू मिया
					एच.आर. 1036	0.3400	निजी	डासा	कीनू महाम्मद. जसमुद्दीन अहमद. मजीबर रहमान.
					एच.आर. 1037	0.3600	निजी	डासा	बबलू मिया
					एच.आर. 1038	0.3200	निजी	डासा	जसमुद्दीन अहमद. मजीबर रहमान. मोतीबर रहमान
					एच.आर. 1039	0.0100	निजी	डासा	अमीजुद्दीन अहमद. वाजुल हक. कीनू महाम्मद. जसीमुद्दीन अहमद. फसीऊद्दीन अहमद. मजीबर रहमान. खातिबुद्दीन अहमद. अमीजुद्दीन अहमद. अजीजर रहमान. मजीबर रहमान
					एच.आर. 1042	0.7000	निजी	डासा	अशरफ अली. मकशद अली. ममताज अली. मोहसिन अली. रहमतुल्ला अहमद. मोहम्मद हुसैन. बर्गादार - बह्रुद्दीन
					एच.आर. 1043	0.6000	निजी	डासा	कीनू महाम्मद. जसमुद्दीन अहमद. मजीबर रहमान.
					एच.आर. 1044	0.8600	निजी	डासा	अशीमुद्दीन अहमद. वाजुल हक. फसीऊद्दीन अहमद.
					एच.आर. 1045	0.1950	निजी	डासा	असदुल अशरफी. रविउल अशरफी. अनरुल अशरफी. असकरुल अशरफी
					एच.आर. 1057	0.1550	निजी	डासा	हियालू महाम्मद
					एच.आर. 1058	0.0250	निजी	डासा	नुरुल इस्लाम. मतीजा खातून. सुखीमन नेशा
					एच.आर. 1059	1.1200	निजी	डासा	पोना बीवी. फूल महाम्मद. भूटा मुल्लाह. खारखाती बीवी. सुरजामुद मुल्लाह.
					एच.आर. 1060	0.8600	निजी	डासा	अफूरा बेवा. ईमाजुद्दीन अहमद. तमीजुद्दीन अहमद. हमीदर रहमान.
					एच.आर. 1061	0.6800	निजी	डासा	अफूरा बेवा. ईमाजुद्दीन अहमद. तमीजुद्दीन अहमद.
					एच.आर. 1062	3.3400	निजी	डासा	महिऊद्दीन अहमद. नामुल हक.
					एच.आर. 1063	0.7800	निजी	डासा	मनवी खातून. रहमान अली. असदुल अशरफी. रविउल अशरफी. अनरुल अशरफी. असकरुल अशरफी
					एच.आर. 1065	1.4300	निजी	डासा	हमीदा बेवा. वहीदर रहमान
					एच.आर. 1066	0.4650	निजी	डासा	फैजल अहमद.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एकड़	1093	0.1200	निजी	डाला	लालभानू खातून, मिनरुल इस्लाम बर्गादार - जानी महाम्मद
					एकड़	1095	0.0600	निजी	डाला	अलीमुद्दीन अहमद, जूलियस अली, तशीमुद्दीन अहमद, लफतार रहमान
					एकड़	1099	0.1150	निजी	डाला	गलीजा बेवा, समसुल मिया
					एकड़	1100	0.9800	निजी	डाला	रफीऊद्दीन, जहोरा खातून
					एकड़	1101	0.7900	निजी	डाला	रफीऊद्दीन
					एकड़	1102	1.0700	निजी	डाला	शेख भलू महाम्मद, जाकिर हुसैन, जहीदुल हुसैन, जियारुल हुसैन, जाफर हुसैन.
					एकड़	1103	0.6400	निजी	डाला	ऐनुद्दीन, माओखेरा बेवा, रहमान अली, नूर महाम्मद, दमीमुल्लाह हक
					एकड़	1104	0.2900	निजी	डाला	कानफूरा मुल्लाह.
					एकड़	1105	0.2900	निजी	डाला	रफीऊद्दीन, जहोरा खातून
					एकड़	1106	0.2500	निजी	डाला	गुलाम हुसैन
					एकड़	1107	1.1400	निजी	डाला	अलीमुद्दीन अहमद, जूलियस अली, तशीमुद्दीन अहमद, गुलाम हुसैन
					एकड़	1111	0.0175	निजी	डाला	महताबुद्दीन
					एकड़	1112	0.0525	निजी	डाला	हमीदा बेवा.
					एकड़	1113	0.4300	निजी	डाला	ममताज बेगम, सेमुद्दीन अहमद.
					एकड़	1114	1.4000	निजी	डाला	फैजूर रहमान, फारुजा बेगम, अहीदर रहमान, हमीदर रहमान, हबीबुर रहमान, जमाल हुसैन, ज्योत्सनारा बेगम
					एकड़	1115	0.0300	निजी	डाला	इच्छाहर अली, रियाजुल इस्लाम, हमीदा बेवा,
					एकड़	1116	0.2500	निजी	डाला	अजीजुल इस्लाम इच्छा हक अली, सिराजुल इस्लाम
					एकड़	1117	0.1600	निजी	डाला	फैजुद्दीन अहमद, अजीरुद्दीन अहमद.
					एकड़	1118	0.1375	निजी	डाला	सेमलाविर आरजौल इस्लाम
					एकड़	1119	0.1450	निजी	डाला	अजीजुल इस्लाम, सिराजुल इस्लाम, महाम्मद फिरदौस
					एकड़	1123	0.0375	निजी	डाला	अकजान हलीम, हफीजुल रहमान
					एकड़	1187	0.1200	निजी	डाला	सरीफुल इस्लाम, मजहर हुसैन, अजहर इस्लाम,
					एकड़	1199	0.0350	निजी	डाला	यूनिस अली.
					एकड़	1202	0.1400	निजी	डाला	अफजल हुसैन, माफत अली, अमीरुल इस्लाम,
					एकड़	1453	0.1800	निजी	डाला	मनवा खातून, रहमान अली
					एकड़	1455	0.4700	निजी	डाला	आशिया खातून.
					एकड़	1459	0.2000	निजी	डाला	हमीदर रहमान, सैदर रहमान, जवेदर रहमान, एतीबर रहमान.
					एकड़	1629	0.3200	निजी	डाला	एनुद्दीन, मोखरा बेवा, रहमान अली, नूर महाम्मद, दमीमुल्लाह हक
					एकड़	1631	0.5800	निजी	डाला	फैजूर रहमान, फारुजा बेगम, अहीदर रहमान, हमीदर रहमान, हबीबुर रहमान, जमाल हुसैन, ज्योत्सनारा बेगम
					एकड़	1632	0.9000	निजी	डाला	मस्तक हुसैन, महाम्मद मूसा, मसुदा बेगम
			(6) इनाहमपुर - 136	51	एकड़	383	0.3925	निजी	डाला	मितु मुल्लाह, हिजामुद्दीन अहमद, बर्गादार, समीरुद्दीन
					एकड़	385	0.0250	निजी	डाला	अंकुरा बेवा, तोफिजा रहमान, नसीरा खातून, मोमिऊद्दीन
					एकड़	386	0.7500	निजी	डाला	फसीऊद्दीन अहमद, हिजामुद्दीन अहमद,
					एकड़	387	0.1600	निजी	डाला	कलीमल बीवी, जवेदा बेवा, जविकुद्दीन, नजीरुद्दीन अहमद, मजीरुद्दीन, नशीरुद्दीन अहमद, जमीरुद्दीन अहमद, महिबुर रहमान, महेजा खातून.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एकड़	388	0.0600	निजी	डाला	रहीमुद्दीन मुल्लाह,
					एकड़	389	0.2100	निजी	डांगा	मितु मुल्लाह, बर्गादार - समीरुद्दीन
					एकड़	390	0.6000	निजी	डाला	रहीमुद्दीन मुल्लाह, सहीदर रहमान, सैफर रहमान, ऐजुद्दीन अहमद,
					एकड़	391	0.2800	निजी	डाला	मुखीमन बेवा, मुख्तार हुसैन,
					एकड़	392	0.9100	निजी	डाला	हिजामुद्दीन अहमद,
					एकड़	393	0.1650	निजी	डाला	रहीमुद्दीन मुल्लाह, खारुल इस्लाम, मुख्तार हुसैन
					एकड़	443	0.3600	निजी	डाला	मुख्तार हुसैन,
					एकड़	458	0.2200	निजी	डाला	मितु मुल्लाह
		(3) कालिकमोड़	(1) बरहडागा - 135	50	एकड़	123	0.3200	निजी	डाला	जमशेद अली,
					एकड़	124	0.0400	निजी	डाला	कलीमुद्दीन, जमीरुद्दीन, बजीरुद्दीन, समीरुद्दीन
					एकड़	131	0.1100	निजी	डांगा	नाजरीन बेवा, बर्गादार - पोल्दू महाम्मद,
					एकड़	132	0.3300	निजी	डांगा	जहांगीर आलम
					एकड़	133	0.1300	निजी	डांगा	एहसान अली, इदरीस अली, युनूस अली,
					एकड़	134	0.1550	निजी	डांगा	नुरुद्दीन, सत्तार शेख
					एकड़	135	0.4550	निजी	डांगा	युनूस अली,
					एकड़	136	0.2950	निजी	डांगा	महबुर रहमान,
					एकड़	137	0.2300	निजी	डांगा	युनूस अली,
					एकड़	138	0.2450	निजी	डांगा	रहीमुद्दीन, सिराजुल हक, हाजीजर रहमान,
					एकड़	140	0.0800	निजी	डांगा	युनूस अली,
					एकड़	142	0.4600	निजी	डांगा	तहमीरुद्दीन, मुख्तार हुसैन
					एकड़	146	0.2500	निजी	डांगा	हिजामुद्दीन
					एकड़	147	0.0150	निजी	डांगा	हिजामुद्दीन
					एकड़	150	0.8100	निजी	डाला	नीतू सरकार,
					एकड़	187	0.8225	निजी	डाला	एहसान अली, युनूस अली, महारानी खातून, बशीरा खातून, मन्सूरा खातून, फिरुजा खातून, अक्लीमा खातून,
					एकड़	188	0.1800	निजी	डांगा	नजुमुल्ला
					एकड़	189	0.1900	निजी	डांगा	एहसान अली, इदरीस अली, युनूस अली,
					एकड़	190	0.0825	निजी	डांगा	अबुल मिया, रफीरुद्दीन, सैकुद्दीन,
					एकड़	191	0.0800	निजी	डांगा	अबुल मिया, रफीरुद्दीन, सैकुद्दीन,
					एकड़	192	0.0800	निजी	डांगा	नजुमुल्ला
					एकड़	193	0.0800	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन
					एकड़	194	0.3250	निजी	डांगा	एहसान अली, इदरीस अली, युनूस अली,
					एकड़	204	0.2000	निजी	डांगा	अजीजर रहमान, आयशा खातून, कलीमुद्दीन, गियासुद्दीन, जमीरुद्दीन, बजीरुद्दीन, रियाजुद्दीन, समीरुद्दीन, सिराजुद्दीन,
					एकड़	245	0.2300	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन
					एकड़	246	0.1700	निजी	डांगा	अबुल जलील, सिराजुद्दीन
					एकड़	249	0.4100	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन मोहसिन अली,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					अरफ	598	0.0800	निजी	डांगा	खमीरुद्दीन अहमद, जमीरुद्दीन अहमद,
					अरफ	637	0.1350	निजी	डाला	तशीमुद्दीन अहमद, तजीरुद्दीन अहमद, जवेदा खातून, मफीजा खातून
					अरफ	638	0.1675	निजी	वास्तु	अमीरुद्दीन सरकार, अबुल हुसैन साहराज अली, सैफुद्दीन अहमद
					अरफ	639	0.0700	निजी	भिटा	अमीरुद्दीन सरकार, अबुल हुसैन साहराज अली, समीरुद्दीन, रहीमुद्दीन अहमद, नीतू सरकार
					अरफ	640	0.5750	निजी	डाला	युनूस अली, तैबुद्दीन अहमद, मसमद साहिबा भानू
					अरफ	641	0.1800	निजी	डाला	तजीरुद्दीन अहमद, सरीरुद्दीन अहमद, साहराज अली, सैफुद्दीन अहमद, मोहाबूर रहमान, मुस्तफा जामन अली
					अरफ	733	0.5600	निजी	डाला	खमीरुद्दीन अहमद
					अरफ	734	0.6175	निजी	डाला	खमीरुद्दीन अहमद, जमीरुद्दीन अहमद, नकीरुद्दीन
					अरफ	735	0.0175	निजी	डाला	खमीरुद्दीन अहमद, जमीरुद्दीन अहमद,
					अरफ	736	0.4400	निजी	डाला	अशीमुद्दीन सरकार
					अरफ	737	0.2250	निजी	डाला	तैबुद्दीन अहमद, सरीरुद्दीन अहमद, मुस्तफा जामन अली
					अरफ	741	0.0075	निजी	डाला	हशरुद्दीन सरकार, नजीबुर रहमान, रहीमा खातून, रेणका प्रवीण
					अरफ	743	0.1200	निजी	डाला	अमीरुद्दीन, तोफूरन बेवा
					अरफ	746	0.1850	निजी	डाला	महबूर रहमान, मुस्तफा जामन अली
					अरफ	747	1.1450	निजी	डाला	ऐयाबुद्दीन अहमद, सरीरुद्दीन अहमद, महबूर रहमान, मुस्तफा जामन अली
					अरफ	748	0.3200	निजी	डाला	सैफुद्दीन अहमद, समीरुद्दीन अहमद,
					अरफ	749	0.2600	निजी	डाला	तैबुद्दीन अहमद, सरीरुद्दीन अहमद, महिबूर रहमान, मुस्तफा जामन अली
					एकअर	256	0.5000	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, कलामुद्दीन, गयासुद्दीन, जमीरुद्दीन, बजीरुद्दीन, रहीमा खातून, रियाजुद्दीन, समीरुद्दीन, पारुल अख्तर भानू,
					एकअर	257	0.4200	निजी	डांगा	सुखमन नेशा, तमीना खातून
					एकअर	258	0.0375	निजी	डांगा	नजमुल्ला
					एकअर	282	0.1750	निजी	डांगा	कलीमुद्दीन, जमीरुद्दीन, बजीरुद्दीन, समीरुद्दीन, नीतू सरकार, रहीमा खातून
					एकअर	283	0.1450	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन
					एकअर	284	0.0400	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, रहीमा खातून
					एकअर	286	0.0450	निजी	डांगा	रहीमुद्दीन, नमीरुद्दीन, तफीजार हुसैन, मरियम नेशा, खातून, राहन भानू, मलिको
					एकअर	287	0.0675	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, रहीमा खातून
					एकअर	289	0.0400	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकड़ 290	0.0600	निजी	डांगा	कफिलुद्दीन, कलीमुद्दीन खातिजा खातून, गयासुद्दीन, जमीरुद्दीन बजीरुद्दीन, रियाजुद्दीन, समीना बेवा, समीरुद्दीन, सलीमा बेवा, सिराजुद्दीन, हमीरन नेशा, हमीदा बेवा
					एकड़ 291	0.1300	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, दविरुद्दीन, समीरुद्दीन, समसुद्दीन
					एकड़ 292	0.0200	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन
					एकड़ 293	0.0150	निजी	डांगा	अशीमुद्दीन अहमद, समसुद्दीन, बर्गादार - मझिरुद्दीन
					एकड़ 517	0.0600	निजी	डांगा	मोफिजुद्दीन, तुछलेम अली, मुस्लिम अली
					एकड़ 521	0.0075	निजी	डांगा	मोतियार रहमान
					एकड़ 522	0.0575	निजी	डांगा	रहीमुद्दीन
					एकड़ 523	0.5700	निजी	डांगा	कलीमुद्दीन, आलमनौर कबीर, महम्मद फिरदौस अली
					एकड़ 524	0.6050	निजी	डांगा	रहीमुद्दीन
					एकड़ 525	0.3700	निजी	डांगा	तहमीरुद्दीन
					एकड़ 526	0.3125	निजी	डांगा	सुखमन बेवा
					एकड़ 527	0.0125	निजी	डांगा	मफिजुद्दीन सरकार
					एकड़ 955	0.0100	निजी	रास्ता	कालिका मोड आचल पंचायत
					एकड़ 1008	0.6700	निजी	डांगा	हिजामुद्दीन
					एकड़ 1035	0.0650	निजी	डाला	इमाजुद्दीन, तशीमुद्दीन महम्मद, तजीरुद्दीन अहमद, जमाल हुसैन, खातिर महम्मद, आतेरमहम्मद, बर्गादार - जबरुद्दीन, दोगरुद्दीन
					एकड़ 1036	0.3800	निजी	डाला	तशीमुद्दीन महम्मद, तजीरुद्दीन अहमद, जमाल हुसैन, खातिर महम्मद, आतेर महम्मद
		(2) एकड़पारा - 129		53, 54	एकड़ 592	0.0225	निजी	डाला	सीफुद्दीन अहमद बर्गादार - पील्डू महम्मद
					एकड़ 593	0.1050	निजी	डाला	तैबुद्दीन सरकार
					एकड़ 594	0.0800	निजी	डाला	नजरुल इस्लाम, बर्गादार - पील्डू महम्मद
					एकड़ 595	0.1200	निजी	डाला	वाजिद अली
					एकड़ 596	0.0400	निजी	डांगा	अबुल हुसैन, साहराज अली
					एकड़ 597	0.0200	निजी	भिटा	वाजिद अली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(3) पाप्ताहर भक्तिपुर - 141	49	परजम 5	0.0850	निजी	डांगा	अजीजर रहमान, अब्दुल रहमान, कनकोरा महाम्मद, कलीमुद्दीन महाम्मद, मुकशेद अली, मजीबुर रहमान,
					परजम 6	0.0900	निजी	डांगा	कलीमुद्दीन अहमद,
					परजम 7	0.0900	निजी	डांगा	कलीमुद्दीन अहमद,
					परजम 8	0.0550	निजी	डांगा	कलीमुद्दीन अहमद,
					परजम 9	0.1050	निजी	डांगा	मफिजुद्दीन
					परजम 10	0.1875	निजी	डांगा	माहिदा खातून
					परजम 11	0.6400	निजी	डांगा	सबरुद्दीन, हमीद अली
					परजम 12	0.0100	निजी	डांगा	जोरडिधि हाई स्कूल बर्गादार - शम्भु नाथ विश्वास, साधन घोष
					परजम 13	0.2600	निजी	डांगा	हसीदा बीवी
					परजम 22	0.7850	निजी	डांगा	ऐनल हक, अकबर अली, युसुफ अली, ईदहार अली, जयनल अबेदीन, मौजिरुद्दीन, हसीदा बीवी
					परजम 169	0.2800	निजी	डांगा	नित्यानंद साह, युसुफ अली, अशरफ अली, बर्गादार - खजीर अली.
					परजम 170	0.6200	निजी	डांगा	तैमूर अली, युसुफ अली, महीरुद्दीन अहमद, तफीजल हुसैन
					परजम 171	0.0225	निजी	डांगा	खूनैरिन बेवा, सोहरा खातून.
					परजम 172	0.0300	निजी	डांगा	मजीदा बीवी, हसीना बेवा
					परजम 173	0.5400	निजी	डांगा	अविरुद्दीन मुल्लाह, गयासुद्दीन रफीऊद्दीन, लुकमान मुल्लाह
					परजम 211	0.3050	निजी	डांगा	लुकमान मुल्लाह
					परजम 212	0.2450	निजी	डांगा	निलय कुमार कुइ, शानजय कुमार कुइ बर्गादार - शम्भु नाथ पाल
					परजम 213	0.0250	निजी	डांगा	श्यामल कुमार साह बर्गादार - हफीजुर रहमान
					परजम 214	0.2800	निजी	डांगा	जोरडिधि हाई स्कूल बर्गादार - शम्भु नाथ विश्वास, साधन घोष
					परजम 215	0.0400	निजी	डांगा	श्यामल कुमार साह बर्गादार - हफीजुर रहमान
					परजम 216	0.0500	निजी	डांगा	जोरडिधि हाई स्कूल बर्गादार - शम्भु नाथ विश्वास, साधन घोष
					परजम 217	0.0350	निजी	डांगा	जाह्रा बेगम, मैनूद्दीन अहमद
					परजम 218	0.0325	निजी	डांगा	जोरडिधि हाई स्कूल बर्गादार - शम्भु नाथ विश्वास, साधन घोष
					परजम 528	0.1400	निजी	डांगा	मलयइदु बसक बर्गादार - सैफुद्दीन
					परजम 529	0.2950	निजी	डांगा	खमीरुद्दीन, छबीलुद्दीन
					परजम 530	0.0600	निजी	डांगा	खमीरुद्दीन
					परजम 537	0.0875	निजी	डांगा	गयासुद्दीन, रफीऊद्दीन
			(4) अमलाहर - 142	44	परजम 23	0.0900	निजी	अला	बदलू मुल्लाह
					परजम 26	0.0425	निजी	डांगा	नुरुद्दीन,
					परजम 27	0.0550	निजी	डांगा	निजामुद्दीन
					परजम 28	0.1150	निजी	डांगा	सुखरा भुइया
					परजम 29	0.0150	निजी	डांगा	मपिजुद्दीन अहमद
					परजम 30	0.0900	निजी	अला	बिजुन बिहारी कुइ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				एकड़	31	0.1400	निजी	डाला	दामिनीबाला बसक, बिजुन बिहारी कुड़ू
				एकड़	32	0.0100	निजी	डाला	दामिनीबाला बसक, बर्गादार - बशरुद्दीन
				एकड़	37	0.9250	निजी	डाला	अशीमुद्दीन अहमद, बर्गादार - अब्दुल समीर
				एकड़	41	0.2750	निजी	डाला	बशरुद्दीन अहमद
				एकड़	42	0.9900	निजी	डाला	सुरतान मीशा, जनाब समसुद्दीन अहमद, हस्नेबारा बेगम
				एकड़	68	0.1300	निजी	डाला	दूना भुजिया,
				एकड़	69	0.1500	निजी	डाला	मफिजुद्दीन अहमद
				एकड़	70	0.1350	निजी	डाला	बशरुद्दीन अहमद
				एकड़	71	0.1400	निजी	डाला	बिसारुद्दीन
				एकड़	72	0.1100	निजी	डाला	मैनुद्दीन
				एकड़	75	0.2550	निजी	डाला	छैनु मुल्लाह, मफिजुद्दीन अहमद
				एकड़	76	0.1900	निजी	डाला	जोसिमुद्दीन मुल्लाह, मजीरुद्दीन बर्गादार - मशीर मुल्लाह
				एकड़	77	0.1525	निजी	डाला	खयाजुद्दीन, तमीजुद्दीन, हाजी भुड़ू महाम्मद, मैनुद्दीन, हेमरुद्दीन अहमद, कासिम अली,
				एकड़	81	0.0025	निजी	डांगा	जोसिमुद्दीन मुल्लाह, बुसीरन बेवा
				एकड़	82	0.4600	निजी	डांगा	अफीजा खातून, भुड़ू महाम्मद
				एकड़	88	0.2800	निजी	डाला	अब्दुल मसीर, मकसेद अली, सरीफुल इस्लाम, पाजीरुल इस्लाम, ईनामुल इस्लाम, नसीरा बेवा, बासइरा बेवा
				एकड़	90	0.4200	निजी	डांगा	खुशीदा रहमान, सैफर रहमान, मजीदर रहमान, समसन निहार
				एकड़	92	0.2500	निजी	डांगा	जोसिमुद्दीन मुल्लाह, मजीरुद्दीन
				एकड़	95	0.3000	निजी	पुकरपार	अनिमा रानी कुड़ू, नीला कुड़ू, बिजुन बिहारी कुड़ू, संजय कुड़ू, भूला भुजियार, मजनु भुजियार, रामेश्वर भुजियार
				एकड़	117	0.1250	निजी	डांगा	खातिजा बीवी, फूलमुनि बीवी
				एकड़	123	0.0300	निजी	डांगा	अफीजा खातून, पूसीदार, रहमान सैफल रहमान, मजीदर रहमान, समसन निहार
				एकड़	125	0.4250	निजी	डांगा	खयाजुद्दीन, तमीजुद्दीन, मैनुद्दीन, सजीबुद्दीन अहमद, हेमरुद्दीन अहमद
				एकड़	126	0.2100	निजी	डांगा	खयाजुद्दीन, तमीजुद्दीन, मैनुद्दीन, हसीमा खातून, गुमशेद अली, मजीदर रहमान, मजीदर रहमान
				एकड़	139	0.3250	निजी	डांगा	खयाजुद्दीन, तमीजुद्दीन, हाजी भुड़ू महाम्मद, मैनुद्दीन, सजीबुद्दीन अहमद, हेमरुद्दीन अहमद
				एकड़	140	0.1400	निजी	डाला	पूसीदार रहमान, सैफल रहमान, मजीदर रहमान, समसन नेहर, हेमरुद्दीन अहमद
				एकड़	142	0.0650	निजी	डांगा	खयाजुद्दीन, तमीजुद्दीन, मैनुद्दीन
				एकड़	143	0.0500	निजी	डाला	हेमरुद्दीन
				एकड़	144	0.0900	निजी	डाला	खयाजुद्दीन, तमीजुद्दीन, हाजीभुड़ू महाम्मद, मैनुद्दीन, सजीबुद्दीन अहमद, हेमरुद्दीन अहमद,
				एकड़	145	0.1200	निजी	डाला	सजीबुद्दीन अहमद
				एकड़	146	0.1800	निजी	डाला	सबरुद्दीन
				एकड़	899	0.4900	निजी	डाला	जयनुद्दीन अहमद, जनाब समसुद्दीन अहमद, जिकिरिया मिया, सोहरव अली बर्गादार - बालि मडल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					ए.अ.अ. 901	0.3200	निजी	डाला	धोगू मुल्लाह,
					ए.अ.अ. 1065	0.2950	निजी	डाला	याकूब हक, रविउल हक
					ए.अ.अ. 1067	0.1600	निजी	डोंगा	हेमरुद्दीन अहमद
					ए.अ.अ. 1137	0.3700	निजी	डोंगा	एनुद्दीन अहमद, यजुद्दीन अहमद, तफीजुद्दीन मीयजुद्दीन, फजुद्दीन
					ए.अ.अ. 1138	0.0500	निजी	डाला	श्री कोकिल भुइजा
		(4) बजाल्लवधु	(1) महुयाम - 211	47	ए.अ.अ. 1001	0.1400	निजी	डाला	गोपाल घोष, ज्योत्सना रानी घोष, दुखी रानी घोष, वनी रानी घोष, बासुदेव घोष, शिल्पी रानी घोष, मंगलू मिया, जयनुद्दीन अहमद, जुहुरुद्दीन अहमद अब् तहीर मिया,
					ए.अ.अ. 1002	0.2700	निजी	डाला	मन्सूर अली,
					ए.अ.अ. 1003	0.3600	निजी	डाला	दखानाथ बर्मन, जादव चंद्र घोष
					ए.अ.अ. 1005	0.1350	निजी	डाला	कलमन बीवी, खिमान बीवी, झोरू मुल्लाह, निफान बीवी
					ए.अ.अ. 1007	0.1875	निजी	डाला	नृपेन्द्र चंद्र सरकार, रवीन्द्र नाथ साह, बासुदेव सील, अनय चंद्र घोष
					ए.अ.अ. 1008	0.4300	निजी	डाला	खगेश चंद्र घोष, गोविंद चंद्र घोष, गोपाल घोष, नरेश चंद्र घोष, बेलूलाल घोष, मन्डू घोष, शांति कुमार घोष, बादल चंद्र घोष
					ए.अ.अ. 1009	0.3400	निजी	डाला	अमृत्य रत्न घोष इद्रमति घोष, दिगम्बर पोली, राजेश्वर पोली
					ए.अ.अ. 1011	0.0700	निजी	डाला	दिगम्बर पोली, राजेश्वर पोली, शम्भू नाथ घोष, अमृत्य रत्न घोष
					ए.अ.अ. 1013	0.5450	निजी	डाला	अपाल चंद्र सरकार, गोपाल चंद्र सरकार, दुलाल चंद्र सरकार, फाटिक चंद्र सरकार, रमेश घोष, सुनील चंद्र सरकार.
					ए.अ.अ. 1019	0.2250	निजी	डाला	तिलकई मर्मू
					ए.अ.अ. 1020	0.1250	निजी	डाला	गुशीर तुइ, जादव चंद्र तुइ
					ए.अ.अ. 1021	0.4200	निजी	डाला	दखानाथ बर्मन, जादव चंद्र घोष
					ए.अ.अ. 1069	0.0700	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ बागची, फनीन्द्र नाथ बागची, मनीन्द्र बागची, वीरेन्द्र बागची, रवीन्द्र नाथ बागची बर्गादार - बजेल हसदा
					ए.अ.अ. 1070	0.3500	निजी	डाला	फकीनर घोष, सुधीर घोष.
					ए.अ.अ. 1071	0.5500	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ बागची वीरेन्द्र बागची, बर्गादार - बजेल हसदा
					ए.अ.अ. 1072	0.3400	निजी	डाला	अमृत्य रत्न घोष, कला चंद्र घोष, निरुद्धा बर्मनी, मनीन्द्र घोष, हरधन घोष, लखी रानी घोष, मन्डू घोष, बादल चंद्र घोष
					ए.अ.अ. 1073	0.0050	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ बागची, वीरेन्द्र बागची, बर्गादार - बजेल हसदा
					ए.अ.अ. 1077	0.4100	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ बागची, फनीन्द्र नाथ बागची, वीरेन्द्र बागची, रवीन्द्र नाथ बागची, इति गोस्वामी
					ए.अ.अ. 1081	0.0050	निजी	डाला	नीलमुनि रे, मिदान रे चंचला रानी घोष,
					ए.अ.अ. 1082	0.0325	निजी	डाला	कल्याणी देवी, बर्गादार - बालि मंडल
					ए.अ.अ. 1083	0.5700	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ बागची, वीरेन्द्र बागची
					ए.अ.अ. 1084	0.6000	निजी	डाला	अर्चना रानी चौधरी, धीरेन्द्र नाथ चौधरी, मनीन्द्र कुमार घोष, सजीव कुमार घोष, सुनील कुमार घोष, सपन कुमार घोष,
					ए.अ.अ. 1085	0.0500	निजी	डाला	नीलमणि रे, मिदान रे
					ए.अ.अ. 1086	0.2950	निजी	डाला	आलोक चंद्र रे, सास्ति चरण घोष,
					ए.अ.अ. 1087	0.0625	निजी	भिटा	आलोक चंद्र रे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एकड़	1088	0.1500	निजी	कछला	सूखू चंद्र रे
					एकड़	1089	0.0225	निजी	डाला	आलोक चंद्र रे
					एकड़	1090	0.4350	निजी	डाला	सूखू बाला रे
					एकड़	1091	0.1200	निजी	भिटा	नीलमुनि रे, मिदान रे.
					एकड़	1097	0.0200	निजी	पुकर	आलोक चंद्र रे, उदय बाला रे, नरेन्द्र रे, बसंत रे, भेड़ू रे, राधा बाला रे, सादीबाला रे, हरेन्द्र रे, इति घोष, संतोष घोष
					एकड़	1098	0.1100	निजी	भिटा	निरुद्धा बर्मनी,
					एकड़	1099	0.1400	निजी	वास्तु	आशुतोष घोष
					एकड़	1100	0.1300	निजी	डोंगा	आशुतोष घोष
					एकड़	1101	0.0250	निजी	डोंगा	आशुतोष घोष
					एकड़	1102	0.0550	निजी	भिटा	कनई लाल घोष, परिमल मंडल श्यामल मंडल, इति घोष
					एकड़	1103	0.4250	निजी	डाला	परिमल मंडल, श्यामल मंडल इति घोष
					एकड़	1104	0.3100	निजी	डाला	जोगीश चंद्र बागची बर्गादार - लखन हेमरान
					एकड़	1487	0.2500	निजी	डाला	भानू रानी घोष
					एकड़	1488	0.0325	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ बागची, धीरेन्द्र बागची बर्गादार - छोटू सुरेन
					एकड़	1489	0.6800	निजी	डाला	इब्राहिम मिया, दुलाराम चौधरी, हरेन्द्र चौधरी
					एकड़	1665	0.0525	निजी	डोंगा	एकेश्वर घोष, शामीना खातून झीरू मुल्लाह, फूलमजि बेवा,
					एकड़	1666	0.0300	निजी	डोंगा	निरुद्ध चंद्र साह
					एकड़	1667	0.0325	निजी	डोंगा	महकदीन सरकार.
					एकड़	1668	0.3500	निजी	डोंगा	अजीत कुमार साह
					एकड़	1671	0.0525	निजी	डोंगा	नरेश घोष, रमेश घोष, संतोष घोष
					एकड़	1672	0.1450	निजी	डाला	संतोष रे
					एकड़	1673	0.9800	निजी	डाला	नरेश घोष, मधुसूदन साह, रमेश घोष, हितलर मित्रा, आशुतोष मित्रा, संतोष कुमार घोष, हरन बाला घोष, सकुबाला घोष, परीतोष सरकार, दिनेश दास, विश्वनाथ सरकार
					एकड़	1677	1.0550	निजी	डाला	अमर चंद्र साह, गजेन्द्र साह, मधुसूदन साह मनीन्द्र साह
					एकड़	1679	0.0675	निजी	डाला	भोला नाथ मुखोपाध्याय बर्गादार - भावेश घोष
					एकड़	1681	0.1450	निजी	डाला	नूनीगोपाल सान्याल सुधागशु सान्याल, बर्गादार - परीतोष घोष
					एकड़	1682	0.0700	निजी	डाला	दयामयी दासी, जगबंधू घोष, आनाथ बंधू घोष, देशबंधू घोष
					एकड़	1752	0.1200	निजी	वास्तु	अजीत कुमार साह, अनिल कुमार साह, गिरेन्द्र साह, धीरेन्द्र नाथ साह
					एकड़	1753	0.0700	निजी	डोंगा	कमल मंडल, अमल मंडल, रंजीत मंडल, संजीत मंडल, तृप्ति रानी मंडल, भूक्ति रानी मंडल, प्रभा रानी मंडल, दीप्ति रानी भौमिक,
					एकड़	1754	0.0200	निजी	डोंगा	कमल मंडल, अमल मंडल, रंजीत मंडल, संजीत मंडल, तृप्ति रानी मंडल, भूक्ति रानी मंडल, प्रभा रानी मंडल, दीप्ति रानी भौमिक,
					एकड़	1755	0.1000	निजी	भिटा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल
					एकड़	1756	0.0925	निजी	पुकरपार	अजीत कुमार साह, अनिल कुमार साह, गिरेन्द्र साह, धीरेन्द्र नाथ साह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				एनआर	1758	0.1200	निजी	पुंर	अजीत कुमार साह, अनिल कुमार साह, गिरेन्द्र साह, धीरेन्द्र नाथ साह, नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल, विमान मंडल, बोकल मंडल, विद्युत मंडल
				एनआर	1763	0.0400	निजी	भिता	सुशमुल्लाह
				एनआर	1764	0.1200	निजी	डांगा	नूनीगोपाल घोष, सानी राम घोष
				एनआर	1765	0.0600	निजी	वास्तु	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल
				एनआर	1766	0.0700	निजी	पुंरपार	अजीत कुमार साह, अनिल कुमार साह, गिरेन्द्र साह, धीरेन्द्र नाथ साह, नारायण घोष
				एनआर	1767	0.1000	निजी	वास्तु	सुधीर मंडल
				एनआर	1768	0.1700	निजी	वास्तु	अजीत कुमार साह, अनिल कुमार साह, गिरेन्द्र साह, धीरेन्द्र नाथ साह,
				एनआर	1772	0.0600	निजी	भिता	एकेश्वर घोष, विकास चंद्र मंडल
				एनआर	1773	0.0800	निजी	पुंरपार	भोला नाथ मंडल, सुशमुल्लाह
				एनआर	1774	0.2400	निजी	पुंर	फैजुद्दीन अहमद, सैदर रहमान, सुशमुल्लाह
				एनआर	1775	0.0675	निजी	वास्तु	फैजुद्दीन अहमद, सैदर रहमान, सुशमुल्लाह, दिनेश दास
				एनआर	1776	0.0450	निजी	वास्तु	फैजुद्दीन अहमद, सुशमुल्लाह, दिनेश दास
				एनआर	1785	0.0350	निजी	वास्तु	भोला नाथ मंडल
				एनआर	1786	0.1300	निजी	वास्तु	अरुण मंडल, अमल मंडल, रजीत मंडल, संजीत मंडल, तृप्ति रानी मंडल, भूक्ति रानी मंडल, प्रभा रानी मंडल, दीप्ति रानी भौमिक, श्यामल मंडल, परिमल मंडल, धीरेन्द्र नाथ चौधरी, भोला नाथ मंडल
				एनआर	1788	0.0800	निजी	भिता	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
				एनआर	1789	0.1000	निजी	पुंरपार	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
				एनआर	1790	0.1100	निजी	पुंर	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
				एनआर	1791	0.0550	निजी	पुंरपार	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
				एनआर	1793	0.1300	निजी	वास्तु	दिजेन दास, प्रदीप दास, बृजेन दास, सोफीजा खातून, दीप्ति रानी भौमिक
				एनआर	1794	0.0500	निजी	पुंर	दीप्ति रानी भौमिक
				एनआर	1842	0.3700	निजी	डाला	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल, रिक्ता मंडल, सुमन बर्मन, लखन बर्मन, चम्पा बर्मन
				एनआर	1845	0.0125	निजी	डांगा	भोला नाथ मंडल
				एनआर	1846	0.2625	निजी	डाला	भोला नाथ मंडल
				एनआर	1847	1.0200	निजी	डाला	भोला नाथ मंडल, विमान मंडल, बोकल मंडल, विद्युत मंडल, माला सरकार, सिद्धार्थ सरकार, राणा सरकार
				एनआर	1848	0.0900	निजी	डांगा	परिमल मंडल, श्यामल मंडल
				एनआर	1849	0.0300	निजी	डांगा	गोपाल घोष, नारायण घोष, बासुदेव घोष, विमल मंडल, भोला नाथ मंडल, रत्न घोष, राधे श्याम घोष, सुधीर मंडल, सुबल घोष, सुमन बर्मन, लखन बर्मन, चम्पा बर्मन, दीप्ति रानी भौमिक
				एनआर	1851	0.0700	निजी	डांगा	दीप्ति रानी भौमिक
				एनआर	1852	0.1600	निजी	डांगा	परिमल मंडल, श्यामल मंडल, दीप्ति रानी भौमिक
				एनआर	1853	0.0400	निजी	डांगा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एकड़	1854	0.0900	निजी	डांगा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
					एकड़	1855	0.1600	निजी	डांगा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
					एकड़	1856	0.0825	निजी	डांगा	अमल मंडल, रंजीत मंडल, सजीत मंडल, तृप्ति रानी मंडल, भक्ति तानी मंडल, प्रभा रानी मंडल, दीप्ति रानी भौमिक, नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल
					एकड़	1891	0.0125	निजी	डांगा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल मंडल, सुधीर मंडल,
					एकड़	1943	0.0400	निजी	रास्ता	02 नं बृजबल्लवपुर आंचल चायत
					एकड़	2231	0.0200	निजी	डांगा	महरूदीन
					एकड़	2276	0.0950	निजी	भिटा	Bअसीरुदीन सरकार, भोला नाथ मंडल, महीदर रहमान, मोमिना खतून
					एकड़	2278	0.1600	निजी	वास्तु	अरुण मंडल, अमल मंडल, रंजीत मंडल, संजीत मंडल, तृप्ति रानी मंडल, भक्ति रानी मंडल, पर्व रानी मंडल, दीप्ति रानी भौमिक, सामल मंडल, परिमल मंडल धीरेन्द्र नाथ, चौधरी, नगेन चंद्र मंडल, विमल चंद्र मंडल, सुधीर चंद्र मंडल
		(2) बंगौरि - 209		42	एकड़	345	1.0800	निजी	डांगा	कलीमुद्दीन सरकार, कथली बीवी, गणेश चंद्र मंडल, जमातुल्ला मिया, जितेन मंडल, निपेन्द्र नाथ मंडल, विपिन चंद्र मंडल, माझीतुल्ला मिया, लखीकांत मंडल, सैलेन्द्र कुमार देशमुख, मीना सिंह, जयंत महतो
					एकड़	346	0.1600	निजी	डांगा	सैलेन्द्र कुमार देशमुख, सुवत चक्रवर्ती,
					एकड़	347	0.9050	निजी	डांगा	बहरूदीन मुल्लाह, रहीमुद्दीन मिया, जयंत महतो
					एकड़	351	0.0325	निजी	डांगा	नजीबुद्दीन, जमातुद्दीन, अमलुद्दीन, सनबूद्दीन,
					एकड़	352	0.0500	निजी	डांगा	अनंत सरकार, सुरेन्द्र नाथ सरकार, हेमंत कुमार सरकार
					एकड़	353	0.1050	निजी	डांगा	गणेश चंद्र मंडल,
					एकड़	357	0.2600	निजी	डांगा	अजीत कुमार साह, अजीत सिंह, अक्षय कुमार सिंह, नीतीश चंद्र साह, निर्मल चंद्र साह, भवानी प्रसाद सिंह, शिव कुमार सिंह, क्षितिज चंद्र साह
					एकड़	358	0.2700	निजी	डांगा	महेश चंद्र घोष
					एकड़	361	0.3675	निजी	डांगा	अजीत कुमार साह, अजीत सिंह, अक्षय कुमार सिंह, नीतीश चंद्र साह, निर्मल चंद्र साह, भवानी प्रसाद सिंह, शिव कुमार सिंह, क्षितिज चंद्र साह
					एकड़	364	0.4000	निजी	डांगा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल चंद्र मंडल, अनय मंडल
					एकड़	365	0.2400	निजी	डांगा	अजीत कुमार साह, नीतीश चंद्र साह, निर्मल चंद्र साह, क्षितिज चंद्र साह, सुवत चक्रवर्ती
					एकड़	366	0.0325	निजी	डांगा	अनंत सरकार, गोविंद चंद्र मंडल, सुरेन्द्र नाथ सरकार, हेमंत कुमार सरकार
					एकड़	367	0.1600	निजी	डांगा	नगेन्द्र नाथ मंडल, विमल चंद्र मंडल, अनय मंडल,
					एकड़	377	0.1400	निजी	डांगा	असीरुदीन मिया
					एकड़	378	0.0350	निजी	डांगा	जमातुल्ला सरकार, माझीतुल्ला सरकार
					एकड़	528	0.0650	निजी	डांगा	सुवत चक्रवर्ती
					एकड़	553	0.2475	निजी	वास्तु	अजीत सिंह, अक्षय कुमार सिंह, नसीरुद्दीन, शिव कुमार सिंह, असिया बीवी, सहरुद्दीन सरकार,
					एकड़	554	0.2175	निजी	डांगा	रफीरुद्दीन मिया
					एकड़	555	0.2300	निजी	डांगा	बिसारुद्दीन मुल्लाह
					एकड़	559	0.0250	निजी	भिटा	गोपीनाथ सरकार, दिलीप सरकार, दीपक सरकार
					एकड़	560	0.0700	निजी	भिटा	जोसिरुद्दीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					एच.आर.	561	0.1200	निजी	भिटा	अजीत सिंह, अक्षय कुमार सिंह, जोसिरुद्दीन अहमद, भवानी प्रसाद सिंह, शिव कुमार सिंह
					एच.आर.	562	0.0125	निजी	भिटा	जोसिरुद्दीन
					एच.आर.	563	0.0225	निजी	भिटा	बिसारुद्दीन मुल्लाह
					एच.आर.	564	0.0175	निजी	भिटा	जोसिरुद्दीन
					एच.आर.	681	0.1250	निजी	डांगा	सलेन्द कुमार देशमुख
			(3) चांदमुख - 208	35. 38 40	एच.आर.	379	0.0100	निजी	डाला	जहानगारा बेगम, बजीरुद्दीन अहमद, अन्नाउल अली, मोहम्मद मिजानूर अली, अनवीरा खानून
					एच.आर.	380	0.5000	निजी	डाला	अजगर अली, तमीजुद्दीन मिया, रहमतुल्ला मिया, सखऊद्दीन मिया, रहीन भानू, परमार्थ नाथ राँय
					एच.आर.	383	0.2300	निजी	डांगा	तिनकोरी बेवा, मतिमन्नेशा
					एच.आर.	424	0.5000	निजी	डाला	फरीरुद्दीन अहमद, फैजूर रहमान मिया
					एच.आर.	425	0.0625	निजी	डाला	तसलुमुद्दीन सरकार
					एच.आर.	430	0.0025	निजी	डाला	ईजारुद्दीन मिया
					एच.आर.	431	0.0400	निजी	डाला	अजीजर रहमान, अब्दुल कादिर, मजीदर रहमान, मुकरेन हुसैन, हमीदर रहमान, हजीरा बीवी, मुसरफ हुसैन
					एच.आर.	438	0.1400	निजी	डाला	बसीरुद्दीन मिया, मझारुल हक, ममीनुद्दीन अहमद
					एच.आर.	439	0.8050	निजी	डाला	नसीरुद्दीन अहमद, नजरुल इस्लाम, मुसम्मत हसीना खानून, ममीनुद्दीन अहमद, ममीनुद्दीन मिया, रियाजुद्दीन मिया
					एच.आर.	440	0.1800	निजी	डाला	रविऊन बेगम
					एच.आर.	447	0.6400	निजी	डाला	अजीजर रहमान सलीमा खानून, तस्लीमुद्दीन अहमद, रकीबुद्दीन अहमद, कोहिनूर बीवी, सिद्दिका बीवी
					एच.आर.	455	0.4400	निजी	डाला	विभूति भूषण सरकार, वैद्यनाथ सरकार, मुकलेसर रहमान, ऊबेदर रहमान, मरजीना बेगम, सरफराज नियाज, समसुद्दीन अहमद
					एच.आर.	456	0.4700	निजी	डाला	वजुदुल्ला मिया, तशीमुद्दीन अहमद, गोल अरजान, जबीदर रहमान, एतेउर रहमान, पूसीदार रहमान, अहमद हिष, अहमद बारि, जावेदर रहमान, ममताजुद्दीन अहमद, अजीजर रहमान, अबेदर रहमान
					एच.आर.	457	0.9000	निजी	डाला	तसलुमुद्दीन अहमद, मीनुद्दीन अहमद, अनीसर रहमान, मन्सूर अली अब्दुल मन्नान, मनवी खानून
					एच.आर.	467	0.3100	निजी	डाला	अमीरुद्दीन मिया, बसीरुद्दीन मिया, अब्दुल रहीम मिया, माजीदा खानून, मुसरफ हुसैन, जहर बेगम
					एच.आर.	468	0.2000	निजी	डाला	मीनुद्दीन अहमद, तिनकोरी बेवा, फैजल रहमान मिया, रियाजुद्दीन अहमद, ममीनुद्दीन अहमद
					एच.आर.	469	0.6400	निजी	डाला	फजीरन बीवी, मुकरीम हुसैन, मुसम्मद फेजा बीवी, नजरुल इस्लाम, ममीनुद्दीन अहमद, सैफर रहमान, सैफर रहमान
					एच.आर.	490	0.3400	निजी	डाला	वाहिद खानून, तसलीमुद्दीन सरकार, बर्गादार, तसलीमुद्दीन अहमद
					एच.आर.	491	0.2400	निजी	डाला	फैजुद्दीन अहमद, फैजूर रहमान मिया
					एच.आर.	492	0.3050	निजी	डाला	तिनकोरी बेवा
					एच.आर.	493	0.0450	निजी	डाला	निखिल चंद्र सरकार, झूठिका राँय (बैरागी)
					एच.आर.	530	0.0025	निजी	डाला	चंचल कुमार सरकार, अब्दुल जलील मिया
					एच.आर.	531	0.0125	निजी	डाला	महीदर रहमान
					एच.आर.	532	0.2550	निजी	डाला	तिनकोरी बेवा, मतिमन्नेशा, निखिल चंद्र सरकार, झूठिका राँय (बैरागी)
					एच.आर.	533	0.2900	निजी	डाला	सप्रिया इस्लाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एच.आर. 534	0.0175	निजी	डाला	अबेदुर रहमान
					एच.आर. 535	0.2450	निजी	डाला	फसीऊद्दीन अहमद, फैजूर रहमान मिया
					एच.आर. 536	0.2500	निजी	डाला	फसीऊद्दीन अहमद, फैजूर रहमान मिया
					एच.आर. 537	0.3800	निजी	डाला	अजगर अली, तमीजुद्दीन मिया, रहमत तुल्ला मिया, शकमुद्दीन मिया, परमाथ नाथ राय
					एच.आर. 561	0.2850	निजी	डाला	दिनेश महतो, नुदुराम महतो, बाबुराम महतो, मनोरजन महतो, रघुनाथ महतो, सेहरा महतो
					एच.आर. 562	0.1350	निजी	डाला	जिबूया महतो, दिनेश महतो, सेहरा महतो, फेलू महतो
					एच.आर. 563	0.1175	निजी	डाला	कांचीराम महतो, नुदुराम महतो, बाबुराम महतो, फनीराम महतो
					एच.आर. 564	0.3400	निजी	डाला	अनवरा खातून, नसीरा बीवी, रकीबुद्दीन अहमद, नजरूल इस्लाम
					एच.आर. 565	0.1300	निजी	डाला	दिनेश महतो, सेहरा महतो
					एच.आर. 566	0.0200	निजी	डाला	दिनेश महतो, सेहरा महतो
					एच.आर. 567	0.0500	निजी	डाला	कांचीराम महतो, नुदुराम महतो, बाबुराम महतो, फनीराम महतो
					एच.आर. 568	0.0200	निजी	डाला	रकीऊद्दीन अहमद, हजीरा बीवी
					एच.आर. 569	0.2075	निजी	डाला	कांचीराम महतो, लूरा महतो, नुदुराम महतो, बाबुराम महतो, विन्ना महतो, फनीराम महतो, महिन्द्र महतो, महेश्वर महतो
					एच.आर. 570	0.3050	निजी	डाला	जिबूया महतो
					एच.आर. 571	0.3500	निजी	डाला	गोलनूर बीवी
					एच.आर. 574	0.0275	निजी	डाला	महिन्द्र महतो, महेश्वर महतो
					एच.आर. 575	0.3400	निजी	डाला	माधोआ महतो
					एच.आर. 576	0.4550	निजी	डाला	धानीराम महतो, फनीराम महतो, सदरुद्दीन अहमद
					एच.आर. 577	0.4575	निजी	डाला	जाहेदा बीवी, रफीऊद्दीन मुल्ला, हफीजा बेवा
					एच.आर. 578	0.0275	निजी	डांगा	अतूल चंद्र महतो, जाहेदा बीवी, मुजीतिल अली, मोमिना खातून, सदरुद्दीन अहमद, समीरुद्दीन अहमद, समसुद्दीन अहमद, सहाबुद्दीन अहमद, सुरेन्द्र नाथ महतो, हफीजा बेवा
					एच.आर. 584	0.3900	निजी	डाला	रकीऊद्दीन अहमद, हजीरा बीवी
					एच.आर. 585	0.2800	निजी	डाला	अमीजुद्दीन अहमद, बबलू दास
					एच.आर. 586	0.4100	निजी	डाला	नियासिरा बीवी
					एच.आर. 587	0.1400	निजी	डाला	नियासिरा बीवी, शिववत मंडल
					एच.आर. 588	0.0750	निजी	डाला	नियासिरा बीवी
					एच.आर. 590	0.0200	निजी	डाला	बिसारादीन मुल्ला
					एच.आर. 591	0.3600	निजी	पुकुरपार	बिसारादीन मुल्ला
					एच.आर. 592	0.1525	निजी	पुकुर	बिसारादीन मुल्ला
					एच.आर. 593	0.7700	निजी	डाला	धीरेन्द्र नाथ मंडल, कालिका रानी मंडल, भालू रानी मंडल
					एच.आर. 991	0.1900	निजी	डाला	गुलाम मुस्तफा, मुकरेम हुसैन
					एच.आर. 1020	0.1825	निजी	डाला	फैजूर रहमान, मिया, मोतीउर रहमान
					एच.आर. 1021	0.2275	निजी	डाला	नानी गोपाल मंडल, परेश चंद्र मंडल, रियाजुल इस्लाम
		(4) कृष्णवति - 207		37, 39	एच.आर. 113	0.4700	निजी	डाला	मुहय चंद्र दास
					एच.आर. 115	0.0025	निजी	डाला	सुवत दास, सुमन दास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एन.आर. 116	0.4000	निजी	डाला	समसुद्दीन अहमद, शालिमा खानून (बीवी), तफीजार रहमान, रशीदा बेगम
					एन.आर. 118	0.1300	निजी	डाला	सोमेश दास, सब्र महाम्मद सरकार, समसुद्दीन अहमद
					एन.आर. 126	0.5250	निजी	डाला	सोमेश दास
					एन.आर. 127	0.0425	निजी	डाला	रवीन्द्र दास, सोमेश दास, रंजीत बर्मन
					एन.आर. 128	0.1450	निजी	डाला	रवीन्द्र दास, रंजीत बर्मन
					एन.आर. 129	0.0700	निजी	डाला	सोमेश दास, सुरेश दास
					एन.आर. 130	0.0050	निजी	डाला	रवीन्द्र दास, जयश्री दास
					एन.आर. 131	0.3300	निजी	डाला	रवीन्द्र दास, जयश्री दास
					एन.आर. 132	0.3650	निजी	डाला	रवीन्द्र दास, सोमेश, जयश्री दास
					एन.आर. 133	0.1975	निजी	डाला	जयश्री दास
					एन.आर. 134	0.1800	निजी	डाला	जयश्री दास
					एन.आर. 141	0.6400	निजी	डाला	उत्तम सरकार, अशीष सरकार, सुषमा सरकार, मफीजा बेवा, साहिद महाम्मद, समसुद्दीन अहमद, मविऊद्दीन अहमद
					एन.आर. 143	0.5350	निजी	डाला	निकुज बिहारी दास, उत्तम सरकार, अशीष सरकार, सुषमा सरकार, बजीरुद्दीन मिया, मफीजा बेवा, लुफतार रहमान, समसुद्दीन मिया, अहेला बीवी, खातिजा बीवी, हजीरा बीवी, रेजिया बीवी, गौड़ दास, गीता दास, गौरी दास, वेदना दास, नित्य चंद्र घोष, प्रवीर शील, गोपाल चंद्र दास
					एन.आर. 144	0.2500	निजी	डाला	अमृता मोहंता, नुकज बिहारी दास, साहिब महाम्मद, समसुद्दीन अहमद
					एन.आर. 145	0.1350	निजी	डाला	नुकज बिहारी दास, उत्तम सरकार, अशीष सरकार, सुषमा सरकार, साहिब महाम्मद, समसुद्दीन अहमद, निर्वाण बर्मन
					एन.आर. 475	0.1400	निजी	डाला	कनई दास, निशीकांत मोहंता, महामायादत्ता, सरोजिनी बाला देवी, निवेदिता दास(मंडल), अपर्णा माजूमदार
					एन.आर. 476	0.3800	निजी	डाला	अनिल कान्ति देव, कनई दास, देवेन्द्र दास, धीरेन्द्र दास, पर्वेश कमीनी दास, भूपेन्द्र दास, अपर्णा माजूमदार
					एन.आर. 478	0.5350	निजी	डाला	देवेन्द्र दास, धीरेन्द्र दास, भूपेन्द्र दास, विमल दास, जितेन दास, तप दास, लक्ष्मी रानी मोहंता, विप्लव कुमार दास, शम्भू मर्मू
					एन.आर. 496	0.3475	निजी	डाला	रवीन्द्र दास
					एन.आर. 497	0.0900	निजी	डाला	नकफुरा बर्मन
					एन.आर. 584	0.3500	निजी	डाला	निशीकांत मोहंता, बजेन्द्र देवशर्मा
					एन.आर. 585	0.0300	निजी	डाला	देवेन्द्र दास, विश्वनाथ दास, रामगोविंद दास, लक्ष्मण दास, सावित्री दास, तृप्ति दास
					एन.आर. 586	0.0200	निजी	डाला	रवीन्द्र दास
					एन.आर. 602	0.2600	निजी	डाला	उत्तम सरकार, अशीष सरकार, सुषमा सरकार
					एन.आर. 603	0.1300	निजी	डाला	साहिब महाम्मद
			11) शिवपुर	442-501	एन.आर. 38	0.0500	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 4 शिवपुर ग्राम पंचायत
			11) नारायणपुर - 205		एन.आर. 64	0.2950	निजी	डाला	खुरन दासी, मृत्युंजय साह, निर्मल बर्मन, स्वप्न कुमार मंडल, विलाश चंद्र, रॉय, गौतम मंडल, उत्तम मंडल, कुसुम बाला गोस्वामी, अभिनंदम दास, वतशीष साह, उैना रानी दास, विश्वनाथ चंद्र, रॉय, गौतम माजूमदार, गोरेन्द्र, माजूमदार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एव.आ. 65	0.3050	निजी	वास्तु	खुरन दासी, मृत्युजय साह, जय मोहता, स्वप्न कुमार मंडल, गौतम मंडल, उत्तम मंडल, अरिंदम मंडल, व्रतअशीष साह, गौतम माजुमदार, गोरेन्द्र माजुमदार
					एव.आ. 72	0.6800	निजी	डाला	दिनेश नारायण पाल, सहीदर रहमान, रेखारानी दास, कल्याण कुमार दास, कुतल दास
					एव.आ. 73	0.0300	निजी	डाला	ज्योतिष चंद्र मोहता, लालू मर्मू, रविन हेम्ब्राम, जित्रान्द्र हेम्ब्राम, व्रत हेम्ब्राम
					एव.आ. 74	0.2400	निजी	डाला	खुरन दासी
					एव.आ. 75	0.5800	निजी	डाला	उजाला चक्रवर्ती, वनेश्वर महतो, मनोरंजन सरकार, निरंजन सरकार, राह हेम्ब्राम, गदाधर मदी, रविन मर्मू, उत्तम पाल, सनखा सुभा सरकार, बगोदार, दलाल दास
					एव.आ. 78	0.0575	निजी	डाला	संतोष कुमार दास
					एव.आ. 98	0.0100	निजी	डाला	वनीमाधव शील, रेखा रानी दास, निरंजन सरकार
					एव.आ. 99	0.2000	निजी	डाला	वनीमाधव शील, सुनील हेम्ब्राम
					एव.आ. 100	0.2000	निजी	डाला	किनी बिब
					एव.आ. 101	0.3100	निजी	डाला	वनीमाधव शील, सुनील हेम्ब्राम, सानीराम सुरेन, रविन सियूरन, मंगल सुरेन
					एव.आ. 104	0.2600	निजी	डाला	किनी बिब
					एव.आ. 105	0.7350	निजी	डाला	प्रेमहरी देवशर्मा, मुकुल चंद्र प्रमाणिक
					एव.आ. 111	0.3625	निजी	डाला	प्रेमहरी देवशर्मा
					एव.आ. 112	0.1200	निजी	डाला	खातिर महाम्मद
					एव.आ. 113	0.0550	निजी	डाला	सुनील कांति दास
					एव.आ. 117	0.3650	निजी	डांगा	सुनील कांति दास, शुक्ल भृंगर
					एव.आ. 118	0.1200	निजी	डाला	गुलशनआरा बेगम, दालशा बीवी, नूरसिना बेगम, ममलाज बेगम, रुकसाना बेगम, रशनेयारा बेगम, लुतिफा बेवरा, सेहरा बेवा, सहरीजल इस्लाम, सैफर रहमान
					एव.आ. 122	0.0050	निजी	डाला	रजनी कांत शील, बालाराम चंद्र बर्मन
					एव.आ. 123	0.6950	निजी	डाला	अनवरा बेगम, गोलीजा खातून, गोमरुदीन सरकार, सफरू बेवा, हसीनेयारा खातून, हफीजुद्दीन सरकार, प्रदीप कुमार बर्मन, बालाराम चंद्र बर्मन, देवाश चंद्र शील, राजू चंद्र शील
					एव.आ. 124	0.2250	निजी	डाला	धन महाम्मद
					एव.आ. 134	0.0075	निजी	डाला	वनीमाधव शील
					एव.आ. 337	0.0025	निजी	डाला	इमामन बीवी, काजीदा बीवी, फुलू रानी सरकार
					एव.आ. 338	0.1400	निजी	डाला	इमामन बीवी, भुदिमन नेशा, सैदर रहमान
					एव.आ. 339	0.6850	निजी	डाला	सैफर रहमान, लागीना बीवी, राजिन शेख
					एव.आ. 344	0.0100	निजी	डाला	किनी सरकार, सुबोध सरकार, प्रदीप सरकार, मिथुन सरकार
					एव.आ. 345	0.5000	निजी	डाला	अमीना बीवी, आशिया बेवा, नूरजहां खातून
					एव.आ. 346	0.2250	निजी	डाला	अमीना बीवी, जयनल अब्दीन, नरेन्द्र नाथ महतो, मर्तजा अली
					एव.आ. 350	0.0025	निजी	डाला	धन महाम्मद
					एव.आ. 355	0.3025	निजी	डाला	अब्दुल रहीम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एन.आर. 356	0.6000	निजी	डाला	आशिया खातून, अमीरुद्दीन खातून, फैजुद्दीन सरकार, पियारुद्दीन सरकार, आलिया खातून, रकिया खातून, बाशादा खातून, धन महाम्मद
					एन.आर. 357	0.2300	निजी	डांगा	ताशादक मिया, भान महाम्मद
					एन.आर. 449	0.0150	निजी	डांगा	भुगरा सुरेन, दुखू सुरेन
		(2) SAKRAIL - 204		140	एन.आर. 238	0.2850	निजी	डांगा	विनय मंडल, अमल चंद्र मंडल, विमल मंडल
					एन.आर. 239	0.8000	निजी	पुकर	सुबोध चंद्र सरकार
					एन.आर. 241	0.2600	निजी	डांगा	सैफर सरकार, सिराजुल रहमान, लतीफा बेवा, गुलशनआरा बेगम, सहर भानू, रूपलाल बेगम, ममताज बेगम, रुसलार बेगम, संजीत सरकार, विनय मंडल, अमल चंद्र मंडल, विमल मंडल, भुरेन्द्र नाथ सरकार
					एन.आर. 243	0.5400	निजी	डाला	तहरू मंडल, बिंदी मंडल, नकुल सरकार, बाबुल सरकार, भुरेन्द्र नाथ सरकार
					एन.आर. 249	0.0700	निजी	डाला	मिजादा खातून, नकुल सरकार, बाबुल सरकार
					एन.आर. 250	0.0025	निजी	डाला	सैफर मिया, सुप्रभात सरकार
					एन.आर. 251	0.1275	निजी	डाला	दशेरद्दीन, दशेर महाम्मद, सैफर रहमान
					एन.आर. 252	0.1250	निजी	डाला	विश्वनाथ प्रमाणिक
					एन.आर. 253	0.5200	निजी	डाला	नरुल इस्लाम, ताशादक हसन, बाशीरा खातून, विश्वनाथ प्रमाणिक, तरानी कांत पाल
					एन.आर. 254	0.0400	निजी	डाला	खातिर महाम्मद
					एन.आर. 256	0.4400	निजी	डाला	उमिला बीवी, विकास चंद्र सरकार
					एन.आर. 257	0.1900	निजी	डाला	काजीरन बीवी, दलीजा बेवा
					एन.आर. 258	0.4650	निजी	डाला	लतीफा बेवा, नकुल सरकार, बाबुल सरकार
					एन.आर. 259	0.1050	निजी	डाला	पूरन चंद्र महतो
					एन.आर. 260	0.1250	निजी	डाला	पूरन चंद्र महतो
					एन.आर. 261	0.0150	निजी	डाला	निर्मल कुमार सरकार, हरीमति पाल
					एन.आर. 262	0.0150	निजी	डाला	दलीजा बेवा
		(3) बुशीपुर-253		133, 134, 136, 142, 214, 245	एन.आर. 11	0.4850	निजी	डाला	प्रणय महतो, पूरन चंद्र महतो, मटरा महतो, लघलू महतो
					एन.आर. 15	0.0100	निजी	डाला	कास्तू मंडल, गुदिया मंडल, फनीन्द्र मंडल, मनीन्द्र मंडल
					एन.आर. 17	0.2350	निजी	डाला	झुनिया महतो देवेन्द्र महतो, दुखनी महतो, सुनाका महतो
					एन.आर. 18	0.4700	निजी	डाला	झुनिया महतो देवेन्द्र महतो, दुखनी महतो, फलन देशी, सुनाका महतो, दिनेश हलदर, जोगीन्द्र हलदर
					एन.आर. 19	0.2900	निजी	डाला	जीवन चंद्र देशी
					एन.आर. 21	0.2850	निजी	डाला	तूफानू प्रधान
					एन.आर. 22	0.0200	निजी	डाला	देवेन्द्र नाथ महतो, सुनेका महतो, झूमा महतो, दरखाना
					एन.आर. 23	0.0025	निजी	डाला	ललिता देवशर्मा, बंकिम चंद्र सरकार
					एन.आर. 24	0.7300	निजी	डाला	जादू गोपाल सरकार, रघु नाथ सरकार, हलधर देशी, उत्पल सरकार, बादल सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					परजकर	27	0.5800	निजी	डाला	लघलू महतो, सलेहा खातून, हमीदा खातून
					परजकर	29	0.0200	निजी	डाला	खोका देशी, लाघालू महतो, संतोष देशी, नकुल चंद्र सिंह, पतानू देवशर्मा
					परजकर	31	0.0450	निजी	डाला	कामाख्या चरण दास, काली पद दास, गुरंग चरण दास, तारा पद दास, नित्य चंद्र दास, निमई चरण दास, भुवनेश्वर दास बर्गादार-ऊना सरकार, सुरेश चंद्र सरकार, सास्थी चरण सरकार, पायलट सरकार, दाधी सरकार, नैना सरकार
			(4) बरेल - 255	44, 219	भारत	15	0.2600	निजी	भिटा	पूरन महतो
					भारत	16	0.5100	निजी	भिटा	ज्योतिष चंद्र दास, मायारानी दास, रणजीत कुमार दास, रवीन्द्र नाथ मंडल
					भारत	17	0.0350	निजी	भिटा	उमा सरकार, शांति सरकार
					भारत	19	0.0800	निजी	भिटा	भगवत सरकार, जोगीन्द्र नाथ सरकार, गांधी सरकार, दौलती बाला सरकार
					भारत	20	0.1050	निजी	भिटा	केत्तार पाहन
					भारत	21	0.0300	निजी	भिटा	अजीत कुमार दास
					भारत	22	0.0750	निजी	डंगगा	नरेन्द्र नाथ महतो
					भारत	39	0.0150	निजी	डंगगा	रवीन्द्र नाथ मंडल
					भारत	40	0.0100	निजी	डंगगा	रवीन्द्र नाथ मंडल
					भारत	41	0.0500	निजी	डंगगा	रवीन्द्र नाथ मंडल
					भारत	42	0.0700	निजी	डंगगा	मिनाती रानी मंडल
					भारत	43	0.0500	निजी	डंगगा	मिनाती रानी मंडल
					भारत	44	0.0700	निजी	डंगगा	प्रभु सरकार, वीरेन सरकार, हरेन सरकार, बेगुन सरकार, फलानी देशी, मीजा बाला देशी, पूती बाला देशी
					भारत	45	0.0550	निजी	डंगगा	छवि चौधरी, आधव चंद्र सरकार
					भारत	47	0.0200	निजी	डंगगा	सजय कुमार मंडल, नरेश चंद्र मंडल, उत्तम कुमार मंडल
					भारत	49	0.5400	निजी	भिटा	कुलीन सरकार, सुरेश सरकार, पदमा बाला सरकार
					भारत	77	0.0650	निजी	रास्ता	प्रधान, नं. 4 शिवपुर ग्राम पंचायत
					भारत	81	0.0400	निजी	भिटा	उपूबाला दासी, निपुर दासी, सपू दासी, मायारानी दास, विमल मंडल, गजेन्द्र नाथ मंडल
					भारत	82	0.0650	निजी	रास्ता	प्रधान, नं. 4 शिवपुर ग्राम पंचायत
					भारत	84	0.0050	निजी	भिटा	पर्व सरकार, वीरेन सरकार, हरेन सरकार
					भारत	85	0.5200	निजी	भिटा	उपूबाला दासी, निपुर दासी, पर्व सरकार वीरेन सरकार, जुगुबाला सरकार, हरेन सरकार
					भारत	91	0.0125	निजी	भिटा	पर्व सरकार, वीरेन सरकार, हरेन सरकार
					भारत	228	0.1150	निजी	भिटा	भूपाल देशी
					भारत	229	0.0800	निजी	भिटा	गमेन चंद्र सरकार, समेन चंद्र सरकार
					भारत	230	0.0100	निजी	भिटा	सुलेखा दास
					भारत	231	0.4300	निजी	भिटा	उलानी बाला दासी
					भारत	232	0.3400	निजी	डाला	छवि चौधरी
					भारत	233	0.2050	निजी	डाला	मोती लाल देवशर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					अपारक 234	0.1825	निजी	भिटा	मोती लाल देवशर्मा
					अपारक 595	0.0300	निजी	डांगा	रविलाल देशी
					अपारक 596	0.0600	निजी	डांगा	ज्योतिष चंद्र दास. देवेन्द्र नाथ मंडल. हरेन्द्र नाथ मंडल. प्रतिमा सरकार
					अपारक 606	0.1300	निजी	भिटा	मायारानी दास
			(5) बुनियादपुर - 263	42. 134. 312. 516	अपारक 294	0.0100	निजी	रास्ता	नं.4. शिव पुर आंचल पंचायत
					अपारक 402	0.0400	निजी	डाला	दुलाल मंडल. प्रमिला प्रधान
					अपारक 403	1.1700	निजी	डाला	महिऊदीन सरकार. बगीदार - समय मर्म लुथारु मर्म
					अपारक 404	0.1250	निजी	डाला	पूर्णमा प्रधान. सुजीत मंडल
					अपारक 405	0.8300	निजी	डाला	वीरेन्द्र नाथ सरकार. शम्भू देशी. रंजीत महंती. गोकुल महंती. सुभाशी महंती
					अपारक 406	0.1050	निजी	डाला	हरेन्द्र देशी
					अपारक 408	0.0500	निजी	डाला	मनीन्द्र नाथ प्रधान. शिरीश चंद्र मंडल.
					अपारक 410	0.0075	निजी	डाला	भूपाल चंद्र सरकार. विमल सरकार. अमल सरकार. पीसा रानी सरकार.
					अपारक 412	0.2050	निजी	डाला	रंजीत महंती. गोकुल महंती. सुभाशी महंती.
					अपारक 413	0.1500	निजी	डाला	दुलाल पाल.
					अपारक 414	0.4100	निजी	डाला	गोपेश सरकार. सुधीर मंडल. क्षितिज चंद्र मंडल
					अपारक 415	0.0125	निजी	डाला	ज्योतिष चंद्र दास. रंजीत दास. क्षितिज चंद्र मंडल
					अपारक 417	1.0000	निजी	डाला	विभूति भूषण तकदार. वंदना तकदार. सुभेन्द्र तकदार. पूर्णेन्द्र तकदार. कृष्णेन्द्र तकदार.
					अपारक 418	0.0300	निजी	डाला	मोतीलाल दास.
					अपारक 419	0.3700	निजी	डाला	मुनील चंद्र सरकार. सुरेश चंद्र सरकार. सुशील चंद्र सरकार
					अपारक 420	0.4200	निजी	डाला	गुटलू देशी. सुबल चंद्र सरकार. सरीप देशी. अरुण सरकार
					अपारक 470	0.5400	निजी	डाला	सुबल चंद्र सरकार. सुधीर कुमार सरकार. तुलसी मंडल.
					अपारक 471	0.5150	निजी	डाला	जनक महंती. रघुनाथ महंती
					अपारक 472	0.1250	निजी	भिटा	वीरेन्द्र नाथ मंडल. श्यामल चंद्र सरकार. हरेन्द्र नाथ मंडल
					अपारक 474	0.0200	निजी	भिटा	कमल चंद्र सरकार.
					अपारक 475	0.0650	निजी	भिटा	वीरेन्द्र नाथ मंडल. श्यामल चंद्र सरकार. हरेन्द्र नाथ मंडल.
					अपारक 476	0.0800	निजी	भिटा	कमल चंद्र सरकार.
		(6) महाबरी	(11) छिदिरपुर - 202	393	अपारक 357	0.0600	निजी	रास्ता	प्रधान नं 5 महाबाडि ग्राम पंचायत
					अपारक 957	0.2200	निजी	डाला	छेना सरकार सुरेश चंद्र सरकार पायलट सरकार दाधी सरकार
					अपारक 959	0.4800	निजी	डाला	पूरन महंती
					अपारक 961	0.5500	निजी	डाला	भूपेन्द्र नाथ सरकार हरीश चंद्र हलदर बांसुदेव हलदर. जयदेव हलदर. निखिल चंद्र हलदर. अनुकूल चंद्र हलदर. नारायण चंद्र हलदर. नरेन महंती
					अपारक 962	0.3100	निजी	डाला	पलाश सरकार रिपन सरकार
					अपारक 970	0.3000	निजी	डाला	खोका मंडल दुर्जन मंडल. जिनेस कुमार सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरएस 971	0.4100	निजी	डाला	सत्य देवशर्मा, सलेन्द्र नाथ सरकार, अहेन्द्र नाथ सरकार, विपुल चंद्र सरकार
					आरएस 975	0.5100	निजी	डाला	कास्तू देशी, गदिया मंडल, फनी मंडल, पायलट सरकार, मणि मंडल
					आरएस 976	0.2800	निजी	डाला	खोका मंडल, दुर्जन मंडल, सकरीति सरकार
					आरएस 981	0.2950	निजी	डाला	खोका मंडल, दुर्जन मंडल, निर्मल कुमार सरकार
					आरएस 982	0.2950	निजी	डाला	सुशेन देवशर्मा, दलेन चंद्र देवशर्मा, कल्पि देवशर्मा
					आरएस 983	0.0900	निजी	डाला	आनंद देशी
					आरएस 984	0.0775	निजी	डाला	आनंद देशी
					आरएस 985	0.4300	निजी	डाला	जनदू बाला सरकार, पतानू देशी, लतलू महतो
					आरएस 987	0.1750	निजी	डाला	पतानू देशी, भद्रा देशी, सुनील सरकार, भक्त लाल सरकार, गणेश सरकार, कंचन सरकार
					आरएस 988	0.2300	निजी	डाला	नामल देशी
					आरएस 989	0.0650	निजी	डाला	जीवन देशी
					आरएस 1106	0.0300	निजी	डाला	नामल देशी
		(2) रहौमपुर - 201		244	आरएस 196	0.0050	निजी	वास्तु	बहुर देवशर्मा, दिनेश देवशर्मा
					आरएस 197	0.0275	निजी	वास्तु	बहुर देवशर्मा, दिनेश देवशर्मा
					आरएस 198	0.3250	निजी	भिट्टा	आनंद सरकार
					आरएस 199	0.0100	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 5 महाबाडि ग्राम पंचायत
					आरएस 200	0.1100	निजी	रास्ता	प्रधान नं. 5 महाबाडि ग्राम पंचायत
					आरएस 201	0.0600	निजी	भिट्टा	क्षितिज चंद्र मंडल
					आरएस 202	0.0300	निजी	भिट्टा	नामल देशी
					आरएस 203	0.0350	निजी	भिट्टा	डांगी देवशर्मा, क्षितिज चंद्र मंडल
					आरएस 206	0.0650	निजी	वास्तु	डांगी देवशर्मा, क्षितिज चंद्र मंडल
					आरएस 207	0.2700	निजी	वास्तु	जीवन देवशर्मा
					आरएस 224	0.0225	निजी	डांगी	जीवन देवशर्मा, नामल देवशर्मा
					आरएस 225	0.1200	निजी	पुकुर	भूपेन देशी
					आरएस 226	0.3950	निजी	डांगी	भूपेन देशी
					आरएस 227	0.2700	निजी	डांगी	मनीन्द्र चंद्र मोहता, सुधीर कुमार मंडल, तरानी सरकार, अधिक सरकार
					आरएस 312	0.0100	निजी	डांगी	पतानू सरकार, भदरू देशी, सुनील सरकार, भक्त लाल सरकार, गणेश सरकार, कंचन सरकार
					आरएस 313	0.0025	निजी	भिट्टा	रघुनाथ सरकार
					आरएस 314	0.4600	निजी	डांगी	छेन देशी, दधी सरकार, पायलट सरकार, सुरेश चंद्र सरकार, बिचारी बाला सरकार, अपू सरकार, मौसमी सरकार, तनुश्री सरकार
					आरएस 315	0.3200	निजी	डांगी	अक्षय महतो, शिव महतो
					आरएस 317	0.2500	निजी	भिट्टा	नामल देशी
					आरएस 318	0.1700	निजी	डांगी	पूरन देवशर्मा, कृष्ण चंद्र महतो
					आरएस 319	0.2150	निजी	डांगी	जीवन देवशर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					आरएस 320	0.0175	निजी	भिता	भूपेन देशी
					आरएस 337	0.7400	निजी	डांगा	मनीन्द्र चंद्र मोहता, सुधीर कुमार मंडल तरानी सरकार, अधिक सरकार
					आरएस 338	0.2100	निजी	डांगा	मनीन्द्र चंद्र मोहता, सुधीर कुमार मंडल, तरानी सरकार, अधिक सरकार
					आरएस 354	0.1600	निजी	वास्तु	पचकतू सरकार
					आरएस 356	0.1300	निजी	वास्तु	आनंद सरकार
					आरएस 357	0.1850	निजी	वास्तु	आनंद सरकार
					आरएस 360	0.5700	निजी	भिता	आनंद सरकार, बहुर देवशर्मा, दिनेश देवशर्मा
					आरएस 377	0.3600	निजी	भिता	फिरू शील
					आरएस 378	0.2675	निजी	भिता	काश्तू देशी
					आरएस 379	0.0500	निजी	भिता	काश्तू देशी, दुल्पी देशी, जलेन देशी, सुशेन देशी
					आरएस 381	0.0450	निजी	भिता	दुल्पी दासी, जलेन देशी, सुशेन देशी
					आरएस 382	0.0100	निजी	भिता	दुल्पी दासी, जलेन देशी, सुशेन देशी
					आरएस 387	0.0200	निजी	भिता	काश्तू देशी बर्गादार-तहारू देशी
					आरएस 388	0.0200	निजी	भिता	अलई दासी, केवल देवशर्मा, बालि दासी
					आरएस 389	0.3300	निजी	भिता	दुल्पी दासी, जलेन देशी, सुशेन देशी
					आरएस 390	0.0500	निजी	भिता	दुल्पी दासी, तहरु देवशर्मा
					आरएस 404	0.0600	निजी	दोबा	भूपेन देशी
					आरएस 413	0.0600	निजी	वास्तु	बहुर देवशर्मा, तहरु देवशर्मा
					आरएस 426	0.0900	निजी	वास्तु	गोपी नाथ मंडल
		(3) सालम-200		441	एन.आर. 853	0.0025	निजी	डांगा	किरण बाला दास, किशोर मोहन दास, ज्योतिष चंद्र दास, देवेन्द्र नाथ दास, भूपेन्द्र नाथ मंडल, महेन्द्र नाथ दास, मायारानी दास, माधुरी दास, सुभाष माजूमदार, अमल चंद्र सरकार, चंद्र नाथ सरकार
					एन.आर. 854	0.3000	निजी	डाला	किरण बाला दास, किशोर मोहन दास, देवेन्द्र नाथ दास, महेन्द्र नाथ दास, मायारानी दास, माधुरी दास, ज्योतिष चंद्र दास, शम्भू देशी, सुभाष माजूमदार
					एन.आर. 855	0.2500	निजी	डाला	खडगेश्वर मंडल, महेन्द्र नाथ साह
					एन.आर. 856	0.2550	निजी	डाला	नारायण चंद्र मंडल
					एन.आर. 858	0.5400	निजी	डाला	भगवत चंद्र सरकार, जोगीन्द्र नाथ सरकार
					एन.आर. 859	0.0050	निजी	डाला	सरादू प्रधान
					एन.आर. 860	0.2000	निजी	डाला	सरादू प्रधान, अमल चंद्र सरकार, विमल चंद्र सरकार
					एन.आर. 862	0.0950	निजी	रास्ता	प्रधान, नं. 5 महाबाडि ग्राम पंचायत
					एन.आर. 864	0.0050	निजी	भिता	विप्लव कुमार मंडल, दुलाल मंडल, परिमल मंडल, विपुल मंडल, सुचित्रा मंडल
					एन.आर. 865	0.9500	निजी	डाला	अभय चरण मंडल, नारायण चंद्र मंडल, विप्लव कुमार मंडल, दुलाल मंडल, परिमल मंडल, विपुल मंडल, सुचित्रा मंडल
					एन.आर. 866	0.0800	निजी	डाला	भूपाल चंद्र सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					एकड़ 878	0.2000	निजी	वास्तु	नयन सरकार, गीता सरकार, रेणुका मंडल, अनिमा रानी चौधरी, किशोर मोहन दास, ज्योतिष चंद्र दास, देवेन्द्र नाथ मंडल, प्रताप चंद्र तकदार, विभूति भूषण तकदार, सुधीर मंडल, पीयूष कान्ति दास,
					एकड़ 882	0.0800	निजी	भिता	अभय चरण मंडल,
					एकड़ 883	0.1200	निजी	डंगा	सुधीर मंडल
					एकड़ 884	0.0200	निजी	डंगा	भूपेन्द्र नाथ मंडल, राजकुमार मंडल, लल्लन हलदर, वीरेन हलदर, भूट्ट हलदर,
					एकड़ 894	0.1600	निजी	वास्तु	सिरीश चंद्र मंडल, विप्लव कुमार मंडल, इरा सरकार, सपन सरकार, संजीव सरकार, तपश सरकार, गीतम कर्माकर
					एकड़ 897	0.0400	निजी	वास्तु	विप्लव कुमार मंडल, सिरीश चंद्र मंडल, इरा सरकार, सपन सरकार, संजीव सरकार, तपश सरकार, बलबली दास,
					एकड़ 898	0.3100	निजी	वास्तु	गजेन्द्र नाथ मंडल, दीपू मंडल(दास), जाली राजबंशी
					एकड़ 899	0.1050	निजी	भिता	गजेन्द्र नाथ मंडल,
					एकड़ 900	0.0600	निजी	वास्तु	अनिल चंद्र मंडल, दुलाल चंद्र मंडल, विप्लव कुमार मंडल,
					एकड़ 901	0.0100	निजी	वास्तु	अनिल चंद्र मंडल, सतीश कुमार मंडल, संजीव मंडल
					एकड़ 905	0.0275	निजी	वास्तु	सुधीर मंडल, चित्तरंजन मंडल, नित्य चंद्र मंडल
					एकड़ 938	0.0100	निजी	रास्ता	नं. 5 महाबाडि आंचल पचायत
					एकड़ 1126	0.0300	निजी	भिता	क्षितिज चंद्र महतो
					एकड़ 1127	0.0500	निजी	डाला	राजकुमार मंडल, वीरेन हलदर, भूट्ट हलदर,
					एकड़ 1178	0.0050	निजी	वास्तु	अनिमा रानी चौधरी, देवेन्द्र नाथ मंडल, आश्लोष मंडल

[फा. सं. 2010/डब्ल्यू-1/एनएफ/स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट पार्ट]

विनय सिंह, कार्यपालक निदेशक(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2012

S.O. 1975(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in Ministry of Railways, (Railway Board), number S.O. 324(E), dated the 23rd February, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 24th February, 2012 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to said notification for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Buniadpur - Kaliaganj (New Line) in the State of West Bengal;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local news papers, namely, Times of India (English Edition), dated the 17th March, 2012 and Ananda Bazar Patrika (Bengali Edition), dated 19th March, 2012 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, 826 (Eight hundred twenty six) numbers of objection have been received and same have been considered and disallowed by the competent authority:

And, whereas, in pursuance of sub-section(1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose:

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule, annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structures, for the Special Railway Project, namely, Kaliaganj - Buniadpur (New Line) in the State of West Bengal.

Serial Number	Name of the District	Name of the Gram Panchayat	Name of Mouza with Jurisdiction List Number	Survey Number	Plot Number	Area (in Acres)	Type of Land	Nature of Land	Name of Owner as per Record
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Uttar Dinagpur	(1) DHANKAIL	(1) DHANKAIL - 84	6693	LR 1079	0.1300	Private	Vita	GOBINDA ROY, AKEL BALA ROY, NONI GOPAL ROY, NAGENDRA NATH ROY, PINGALKALA DAS, PRAMILA BALA ROY, PHANI GOPAL ROY, BHARATI BALA ROY, URMILA BALA ROY, LALIT BALA ROY
					LR 1081	0.3900	Private	Danga	GOBINDA ROY
					LR 1082	0.4750	Private	Danga	GOBINDA ROY, INDRA KUMAR SAHA
					LR 1083	0.1950	Private	Danga	KAMALA BALA DAS
					LR 1087	0.4100	Private	Danga	SUNIL KUMAR KUNDU, KANAILAL BAZAZ BARGADAR- SADHUA KHATWAL
					LR 1090	0.1000	Private	Vita	AKEL BAKA ROY, URMILA BALA ROY, BOBINDA ROY, NANI GOPAL ROY, NAGENDRA NATH ROY, PINGALKALA DAS, PRAMILA BALA ROY, PHANI GOPAL ROY, BHARATI BALA ROY, LALIT BALA ROY
					LR 1092	0.0400	Private	Bastu	KUMAREDRA LAL NAG, CHAMPA GHATOWAL, BASANTI RANI NAG, HATI GHATOWAL
					LR 1093	0.0200	Private	Vita	CHAMPA KHATDWAL, MURALI KHATOWALNI, HILO GHATOWALNI
					LR 1094	0.0200	Private	Doba	CHAMPA KHATOWAL, MURALI KHATOWALNI, HILO GHATOWALNI
					LR 1124	0.4500	Private	Dala	MANOJ BAZAZ, RABINDRA NATH BARMAN, SUBIR BARMAN, CHAITU DEB SHARMA BARGADAR- SUKHDEB GHATOWAL
					LR 1134	0.0100	Private	Dala	HARADHAN SARKAR
					LR 1135	0.2850	Private	Dala	AKEL BAKA ROY, URMILA BALA ROY, PINGALKALA DAS, PRAMILA BALA ROY, PHANI GOPAL ROY, BHARATI BALA ROY, LALIT BALA ROY, CHITRA ROY
					LR 1136	0.3350	Private	Dala	PULIN SARKAR
					LR 1137	1.1200	Private	Dala	MAMTA OADWANI, CHANDNA ROY, SUSANTA ROY, CHATRA ROY, TUSTA RANI DHAR, MANINDRA CHANDRA DHAR BARGADAR- OHARANI ROY
LR 1142	0.1700	Private	Dala	SUSANTA ROY BARGADAR- NILKANTA BARMAN					
LR 1143	1.2900	Private	Dala	RENUKA ROY, GOPI NATH BARMAN, GAURANGA BARMAN, JITENDRA NATH SARKAR, SADHAN CHANORA SARKAR, BISWANATH BARMAN					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									BARGADAR- PARESH DEBSHARMA, SADARU BARMANI, SAJRU BARMAN
					LR 1146	0.0400	Private	Dala	KATARU SARKAR
					LR 1149	0.0175	Private	Dala	JITENDRA SARKAR
					LR 1150	0.4400	Private	Dala	GABAI CHANDRA BARMAN
					LR 1151	0.2150	Private	Dala	SAPEN SARKAR
					LR 1179	0.4450	Private	Dala	SUKMOHAN BARMAN, DINESH BARMAN, DHULEN ROY, ADAR BARMAN, BABUN BARMAN
					LR 1180	0.4100	Private	Dala	ADAR BARMAN, MANO BARMANI
					LR 1182	0.3100	Private	Dala	SUMITRA KUNDU BARGADAR- SUDHAR BARMAN
					LR 1183	0.2600	Private	Dala	BIRENDRA NATH ROY, PRAFFLU DEBSHARMA, HARIPADA DEBSHARMA, NISHIKANTA DEBSHARMA, KAILASH DEBSHARMA, KANDELU DEBSHARMA
					LR 1184	0.2400	Private	Dala	BINOD BALA SAHA BARGADAR- MAHENDRA ROY
					LR 1188	0.7675	Private	Dala	CHANDRAKANTA SARKAR
					LR 1191	0.3700	Private	Dala	DHIMAN ROY, BISWANATH ROY, NIKANDRA DEBSHARMA
					LR 1192	0.5100	Private	Dala	PREMADA ROY, SUMITA ROY, PRIYANATH ROY, BIREN ROY, BISWANATH ROY, DURGESH CHANDRA SAHA BARGARAR- MAHENDRA BARMAN
					LR 1353	0.0150	Private	Dala	TARINI ROY, HARASUNDAR ROY
					LR 1354	0.0300	Private	Dala	NAKUL CHANDRA ROY, SUDHANSHU CHANDRA ROY, SUDHIR CHANDRA ROY
					LR 1355	0.0200	Private	Vita	BINAY ROY
					LR 1365	0.0150	Private	Danga	RATAN KUMAR KUNDU
					LR 1366	0.1850	Private	Pukur	RATAN KUMAR KUNDU
					LR 1367	0.5200	Private	Vita	RATAN KUMAR KUNDU
					LR 1368	0.1200	Private	Dala	RATAN KUMAR KUNDU, SAKAL CHANDRA ROY
					LR 1369	0.0900	Private	Nayanjali	UTTAR DINAJPUR ZILLA PARISHAD
					LR 1370	0.0750	Private	Sarak	UTTAR DINAJPUR ZILLA PARISHAD
					LR 1371	0.0600	Private	Nayanjali	UTTAR DINAJPUR ZILLA PARISHAD
					LR 1374	0.9500	Private	Dala	UPENDRA PRADHAN, KALO MANI BARMANI, CHANDE BARMANI SUKMOHAN BARMAN
					LR 1393	0.1000	Private	Dala	JAMILA BARMAN
					LR 1400	0.0300	Private	Bastu	CHAMPA KHATOWAL, MURALI KHATOWALNI, HILO GHATOWALNI
					LR 1401	0.0325	Private	Bastu	TUKRI KHATWOL, DURGA KHATWOL, BHAKTI KHATWOL, HARISH KHATWOL
					LR 1402	0.0550	Private	Bastu	CHAMPA KHATOWAL, MURALI KHATOWALNI, HILO GHATOWALNI
					LR 1403	0.0200	Private	Bastu	CHAMPA KHATOWAL, MURALI KHATOWALNI, HILO GHATOWALNI
					LR 1404	0.0450	Private	Bastu	CHAMPA KHATOWAL, MURALI KHATOWALNI, HILO GHATOWALNI
					LR 1418	0.0525	Private	Dala	RATAN KUMAR KUNDU
					LR 1419	0.3700	Private	Dala	RATAN KUMAR KUNDU, SAKAL CHANDRA ROY
					LR 1421	0.2950	Private	Dala	MEMAKA BALA SARKAR
					LR 1422	0.2150	Private	Dala	MAMTA RANI SARKAR
					LR 1423	0.0400	Private	Dala	NABEL CHANDRA SARKAR
					LR 1424	0.0750	Private	Dala	MAHIKANTA ROY, HALA DHAR ROY
					LR 1425	0.2100	Private	Dala	PRANABANANDA SAHA, UTTAM BARMAN, ABDUL SAMAD, GDLAM MARTUJA
					LR 1426	0.2800	Private	Dala	PRABAD CHOWDHURY, SAMAL CHOWDHURY, SUNIL CHOWDHURY SUBODH CHOWDHURY BARGADAR- BINAY KUMAR ROY
					LR 1428	0.0050	Private	Dala	NABEL CHANDRA SARKAR, PULIN CHANDRA SARKAR, MAHENDRA NATH ROY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 1440	0.0300	Private	Dala	MALATI BARMANI
					LR 1452	0.1300	Private	Dala	KATARU SARKAR
					LR 1455	0.3300	Private	Dala	BHODANG DESHI
					LR 1456	0.1550	Private	Dala	NIKANDRA DEBSHARMA
					LR 1461	0.1400	Private	Dala	MAHENDRANATH ROY
					LR 1463	0.3950	Private	Dala	BASHANTI RANI NAG
					LR 1464	0.5700	Private	Dala	PHANI BHUSHAN ROY, SUNIL CHANDRA ROY, BASHANTI RANI NAG
					LR 1465	0.1950	Private	Dala	NARANDA NATH BARMAN, BHUPENDRA NATH BARMAN, SAMESH CHANDRA BARMAN, NARAYAN BARMAN
					LR 1466	0.1350	Private	Dala	BASHANTI RANI NAG
					LR 1467	0.2600	Private	Dala	BASHANTI RANI NAG, NARANDRA NATH BARMAN
					LR 1501	0.0100	Private	Dala	GOKUL CHANDRA DEY, MIRANAL KANTI SAHA, BRAJENDRA KUMAR SAHA, ABHA SAHA BARGADAR, UPENDRA LAL BARMAN
					LR 1502	0.2200	Private	Dala	SUBODH BARMAN, SUBENDRA BARMAN
					LR 1503	0.0200	Private	Dala	UPENDRA PRADHAN, KALO MANI BARMANI
					LR 1535	0.0500	Private	Dala	MADHO LAL BAZAZ BARGADAR-- MOHAN DEBSHARMA
			(2) MADHYADURGAPUR - 83	6694	LR 17	0.0250	Private	Nayanjali	UTTAR DINAJPUR ZILLA PARISHAD
					LR 18	0.0850	Private	Dala	RANU BARMAN, AMIRUDDIN MUHAMMAD, SUKMOHAN BARMAN
					LR 19	0.4950	Private	Danga	TARINI ROY
					LR 25	0.3650	Private	Danga	MALATI BARMANI
					LR 27	0.0500	Private	Doba	MUTHU RANI BARMANI, POSHAKI BARMANI, SORAN BARMAN
					LR 28	0.0600	Private	Doba	BHOLA ROY, MAHIKANTA ROY, HALADHAR ROY
					LR 29	0.3250	Private	Danga	MUTHU RANI BARMANI, POSHAKI BARMANI, SORAN BARMAN
					LR 30	0.0050	Private	Danga	TARANI PRASHAD ROY
					LR 31	0.0300	Private	Danga	TARANI ROY
					LR 43	0.0250	Private	Danga	BUDHI BALA SHIL, MANSHARI SHIL
					LR 44	0.0400	Private	Danga	NISHIKANTA SHIL, BINOD DEBSHARMA, BHATO BALA SASHI, SAHACHAND SHIL, SATANU SHIL, UMEN SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL
					LR 45	0.3300	Private	Danga	SAHACHAND SHIL
					LR 46	0.3100	Private	Vita	DINESH CHANDRA GHOSH BARGADAR - KANU CHANDRA SHIL
					LR 47	0.4200	Private	Dala	ADAR BARMAN, MOHI KANTA ROY, SURAN BARMANI
					LR 89	0.0350	Private	Rasta	NO- 2 DHANKIL GRAM PANCHAYET
					LR 148	0.3050	Private	Dala	NARESH ROY, PARESH BARMAN, RUPA NANDA BARMAN
					LR 166	0.8800	Private	Dala	SAMURIDDIN AHAMED, RAJANI SHIL, SAN MOHAMMED
					LR 167	0.1800	Private	Dala	BINOD DEBSHARMA, BHATO BEWA
					LR 168	0.1600	Private	Dala	BINOD DEBSHARMA, BHATO BEWA
					LR 169	0.5600	Private	Dala	SATANU SHIL, BANU CHANDRA SHIL, MANGLU CHANDRA SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL
					LR 173	0.2500	Private	Danga	NISHIKANTA SHIL, SAHACHAND SHIL, SATANU SHIL, UMEN SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL
					LR 191	0.2000	Private	Dala	BUDHI BALA SHIL, MANSHARI SHIL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 192	0.7600	Private	Dala	NISHIKANTA SHIL, SAHACHAND SHIL, SATANU SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL BARGADAR- MAHENDRA NATH SHIL
					LR 193	0.0200	Private	Vita	RAJANI SHIL
					LR 194	0.3800	Private	Vita	RAJANI SHIL, SUNIL CHANDRA SARKAR
					LR 195	0.0050	Private	Dala	RAJANI SHIL
					LR 205	0.0600	Private	Vita	BUDHI BALA SHIL, MANSHARI SHIL, SUNIL CHANDRA SARKAR
					LR 206	0.0500	Private	Bastu	BUDHI BALA SHIL, MANSHARI SHIL, SUNIL CHANDRA SARKAR
					LR 207	0.1200	Private	Doba	NISHIKANTA SHIL, SANATAN SHIL, SAHACHAND SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL
					LR 208	0.0500	Private	Vita	NISHIKANTA SHIL, SANATAN SHIL, SAHACHAND SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL BARGADAR- DALU BARMAN
					LR 209	0.1500	Private	Vita	BUDHI BALA SHIL, MANSHARI SHIL, MAHENDRA SHIL
					LR 210	0.1350	Private	Bastu	SAHACHAND SHIL, GOPAL SHAIL
					LR 211	0.0700	Private	Bastu	NISHIKANTA SHIL, SANATAN SHIL, SAHACHAND SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL *
					LR 212	0.0800	Private	Bastu	SAHACHAND SHIL, GOPAL SHAIL
					LR 213	0.0450	Private	Vita	JHARI DAS, MAHENDRA SHIL
					LR 218	0.0700	Private	Rasta	NO- 2 DHANKIL GRAM PANCHAYET
					LR 709	0.3400	Private	Danga	ACHHARI BEWA, BHOTO BALA DAS
					LR 760	0.5000	Private	Dala	YADEV CHANDRA DAS, KSHETISH CHANDRA DAS BARGADAR- KALUA BARMAN
					LR 763	0.0400	Private	Danga	JAGAT MOHAN ROY
					LR 765	0.2500	Private	Vita	NINDA BALA, BIJAY-BARMAN, MIHAR BARMAN, SHIVAJI BARMAN, GOPAL SHIL
					LR 928	0.0600	Private	Dala	NISHIKANTA SHIL, SANATAN SHIL, SAHACHAND SHIL, KUSHAL SHIL, GOPAL SHIL
		(3) GANESBATI - 87		6837	LR 50	0.2300	Private	Danga	KALUA BARMAN, UMESH BARMAN
					LR 51	0.4300	Private	Danga	DINESH CHANDRA GHOSH
					LR 52	0.1700	Private	Vita	INDRAJIT CHAKRABATY, NEPAL CHAKRABATY, KANA CHATRAJEE (CHAKRABATY), NARAN BARMAN
					LR 53	0.3300	Private	Bastu	SAMARU BARMAN, INDRAJIT CHAKRABATY
					LR 55	0.0150	Private	Danga	MOHAN CHANDRA ROY, TARA PADA BARMAN
					LR 56	0.0250	Private	Dala	SUKUTA BARMANI
					LR 58	0.0700	Private	Danga	HARALAL SHIL
					LR 61	0.0350	Private	Dala	UMESH BARMAN, SUDHAN BARMANI, KALU BARMAN, JHANJHANI BARMAN, DINESH CHANDRA BARMAN
					LR 62	0.2650	Private	Dala	BANU BARMANI, MANO BARMANI, SUDHAN BARMAN, SUDHIR BARMAN, PARTHA BHOWMICK, FUTUNGI BARMAN
					LR 64	0.1900	Private	Dala	BUDHAN CHANDRA BARMAN, UDHEN BARMAN, SADRU BARMAN, KALU BARMAN
					LR 65	0.2950	Private	Dala	SARALA RANI BARMANI
					LR 70	0.2350	Private	Danga	BUDHAN CHANDRA BARMAN, UDIEN BARMAN, SADRU BARMAN, KALU BARMAN
					LR 73	0.3800	Private	Dala	BATASHU BARMAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 74	0.2650	Private	Dala	SAMAR CHANDRA DUTTA
					LR 76	0.0300	Private	Dala	AMIN CHANDRA BARMAN
					LR 80	0.0900	Private	Dala	KIRAN BARMANI, PARESH BARMAN, ATIN BARMAN
					LR 83	0.1050	Private	Dala	KATU BARMAN
					LR 84	0.1500	Private	Dala	KARMA BARMAN
					LR 88	0.4750	Private	Dala	BUDHAN CHANDRA BARMAN, UDHEN BARMAN, SADRU BARMAN, ABI BARMAN
					LR 89	0.0600	Private	Danga	BALIKA BARMANI, BIMALA BARMANI, BUDHAN CHANDRA BARMAN, BHOLA NATH BARMAN, SADAN BARMANI, SURAN BARMAN, GAYASWARI BARMANI, NEDEM CHANDRA MANDAL
					LR 97	0.2350	Private	Bastu	JYASHOMATI DAS
					LR 98	0.2550	Private	Vita	UPEN BARMAN, SHEBA DAS BARMAN, UTTAM KUMAR BHUTRA, GOPI NATH BARMAN, TEMNI BARMANI, THAKUR DAS BARMAN, NAREN BARMAN, NINAMA BARMANI
					LR 99	0.0950	Private	Vita	BAJARU BARMAN, SUDHAMDI BARMAN, KALO MONI BARMAN, FALU BARMAN
					LR 163	0.1300	Private	Vita	BHABEN BARMAN, UMEN BARMAN, KRISHNA ROY, AKHARU BARMAN, DEKHAN BARMANI
					LR 164	0.1700	Private	Vita	BHABEN BARMAN, UMEN BARMAN, KRISHNA ROY, AKHARU BARMAN, DEKHAN BARMANI
					LR 165	0.2750	Private	Danga	UPEN BARMAN, SHEBA DAS BARMAN, SWARANA BARMAN, GOPI NATH BARMAN, TEMNI BARMANI, THAKUR DAS BARMAN, NAREN BARMAN, NINAMA BARMANI
					LR 166	0.0300	Private	Dala	ANIL CHANDRA ROY, SUNIL CHANDRA ROY
					LR 167	0.0100	Private	Dala	MAHIMA RANI BARMANI
					LR 168	0.1800	Private	Dala	ANIL KUMAR ROY
					LR 169	0.3150	Private	Dala	SEBADAS BARMAN, GDPI NATH BARMAN, THAKUR DAS BARMAN, NAREN BARMAN
					LR 181	0.3250	Private	Dala	RATI KANTA BARMAN, SILOBALA BARMANI, KSHETISH BARMAN, NINDO BALA BARMANI
					LR 182	0.2000	Private	Dala	RATI KANTA BARMAN, KSHETISH BARMAN
					LR 183	0.2600	Private	Dala	RATI KANTA BARMAN, SILOBALA BARMANI, KSHETISH BARMAN, NINDO BALA BARMANI
					LR 184	0.3100	Private	Dala	DANDI RAM BARMAN
					LR 186	0.2150	Private	Dala	SURENDRA NATH ROY
					LR 187	0.2400	Private	Dala	BHABANG BARMAN
					LR 188	0.0350	Private	Dala	RAMESH BARMAN
					LR 190	0.0050	Private	Vita	BIJALI RANI ROYCHOWDHURY BARGADAR- BHABENDA NATH ROY
					LR 191	0.0800	Private	Vita	BIJALI RANI ROYCHOWDHURY BARGADAR- BHABENDA NATH ROY
					LR 192	0.2500	Private	Vita	BIJALI RANI ROYCHOWDHURY BARGADAR- BHABENDA NATH ROY
					LR 197	0.0500	Private	Dala	UMESH BARMAN, KALU BARMAN
					LR 198	0.0350	Private	Dala	SASHTHI BALA ROY
					LR 199	0.0300	Private	Dala	LALITA BARMAN
					LR 229	0.0500	Private	Rasta	NO- 2 DHANKIL GRAM PANCHAYET

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 427	0.1250	Private	Vita	SANTOSH KUMAR BARMAN BARGADAR- SWARNA BARMAN
			(4) NASIRHAT - 95	6838	LR 577	0.0050	Private	Danga	KAMAL KUMAR ROY, NARENDRANATH ROY, SUBHASH CHANDRA ROY, NIYAMI DEVI
					LR 579	0.2300	Private	Danga	DOLGOBINDA BARMAN, DIGENDRA BARMAN, BANAMALI ROY, BRAGENDRA BARMAN, BHABASH BARMAN, SANAY BARMAN, GANDHA BARMANI, JAMI BARMAN
					LR 582	0.2850	Private	Bastu	DINESH RAY, BRAJENDRA BARMAN, BHABENDRA ROY, BHABASH BARMAN, UPENDRA NATH ROY, SUSHEN ROY, GANDHA BARMANI
					LR 583	0.3650	Private	Bastu	BHILURAM ROY, DINESH ROY, BHABANDRA ROY, UPENDRA NATH ROY, SUSHEN ROY, KURANA BAKA DEVI
					LR 584	0.1900	Private	Bastu	DINESH RAY, BHABENDRA ROY, UPENDRA NATH ROY, SUSHEN ROY
					LR 589	0.6200	Private	Danga	DULAL SARKAR, RAMESH CHANDRA SARKAR, KHEDURAM DEBSHARMAN
					LR 590	0.0650	Private	Danga	DUKHA SARKAR
					LR 591	0.3600	Private	Danga	RAMESH ROY, JAGAMOHAN BARMAN
					LR 592	0.7350	Private	Danga	NIMAI CHANDRA SARKAR, LAL MOHAN SARKAR, HINTA DEVI, DHALEN SARKAR, BAENDRA SARKAR, LAKHI KANTA SARKAR, SUSHILA DEVI, KALUA PRADHAN BARGADAR- AJYA DEBSHARMA
					LR 593	0.0300	Private	Danga	HEM CHANDRA DEBSHARMA, RABEN SARKAR, BINOD SARKAR
					LR 611	0.3350	Private	Dala	HEM CHANDRA DEBSHARMA, PARTHO SARKAR, RABEN SARKAR, BINOD SARKAR
					LR 612	0.4650	Private	Danga	LAL MOHAN SARKAR, HEM CHANDRA DEBSHARMA
					LR 613	0.3000	Private	Danga	DAMAN DEBSHARMA, NILA BEVI
					LR 614	0.1450	Private	Danga	KHARGA DEBSHARMA
					LR 615	0.1050	Private	Danga	LAL MOHAN SARKAR
					LR 616	1.0400	Private	Danga	TARANI PRADHAN, NIMAI CHANDRA SARKAR, LAL MOHAN SARKAR, DHALEN SARKAR, BAENDRA SARKAR, LAKHI KANTA SARKAR, SUSHILA DEVI, KALUA PRADHAN BARGADAR - AJYA DEBSHARMA
					LR 753	0.0650	Private	Danga	NABA DEBSHARMA, GABAI DEBSHARMA
					LR 798	0.8500	Private	Danga	MAIMA HANI DEVI
					LR 454	0.0350	Private	Dala	SAIBU DEBSHARMA
					LR 455	0.3800	Private	Dala	DULAL SARKAR, RAMESH CHANDRA SARKAR, KHEDURAM DEBSHARMAN
					LR 456	0.1600	Private	Dala	UPENDRA NATH SARKAR
					LR 457	0.1500	Private	Dala	DEBAN SARKAR, CHITRA RANI SARKAR
					LR 458	0.3700	Private	Dala	PULIN SARKAR
					LR 460	0.0700	Private	Dala	POSA DEBSHARMA, MATO DEVI
					LR 461	0.2450	Private	Dala	DAMAN DEBSHARMA, PRANABA NANDA SAHA, SATYACHARAN DEBSHARMA
					LR 462	0.0500	Private	Dala	LAL MOHAN SARKAR
					LR 463	0.3600	Private	Dala	KHARGA DEBSHARMA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 464	0.3500	Private	Dala	BARIN DEBSHARMA, SARAT CHANDRA DEBSHARMA, HEM CHANDRA DEBSHARMA
					LR 619	0.4850	Private	Dala	BALIKA DEVI, BHAGENDRA SARKAR, HAREN DEBSHARMA
					LR 620	1.2700	Private	Dala	PRAFFLU SARKAR, SATYA RANJAN SARKAR, SIBISH SWR SARKAR, RABEN SARKAR, BINOD SARKAR, GIRISH CHANDRA SARKAR, BARGADAR- JIBAN DEBSHARMA, DINESH CHANDRA DEBSHARMA, MITHUN SARKAR
					LR 738	0.2750	Private	Dala	NINAI CHANDRA SARKAR, DHALEN SARKAR, BALENDRA SARKAR, LAKHI KANTA SRARKAR, SUSHILA DEVI BARGADAR- AJYA DEBSHARMA
					LR 740	0.3800	Private	Dala	TARANI PRADHAN
					LR 743	0.2750	Private	Dala	DEBENDRA DEBSHARMA, BHADUI DEBSHARMA, SATYA CHARAN DEBSHARMA, SAPAL DEBSHARMA, PARESH DEBSHARMA
					LR 789	0.0100	Private	Dala	SURYAKANTA DEBSHARMA
					LR 848	0.2250	Private	Dala	DINESH DEBSHARMA, PURNA CHANDRA RDY
					LR 861	0.0950	Private	Dala	GIRISH CHANDRA SARKAR, BARGADAR- CHHATRA MOHAN SARKAR, MAHESH CHANDRA SARKAR, BHADRA CHANDRA SARKAR
	(2) BOCHADANGA	(1) ATGHARA - 94	6833	LR 611	0.0350	Private	Rasta	NO- 1 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET	
LR 631				0.2350	Private	Danga	KHARGA DEBSHARMA, ASHA NANDA DEBSHARMA, KHAKTU DEBSHARMA, JALI DEBSHARMA, DEBENDRA DEBSHARMA		
LR 632				0.2200	Private	Danga	KHARGA DEBSHARMA, ASHA NANDA DEBSHARMA, KHAKTU DEBSHARMA, JALI DEBSHARMA, DEBENDRA DEBSHARMA		
LR 633				0.1600	Private	Danga	NIKHIL SARKAR, BHABESH CHANDRA SARKAR		
LR 634				0.0900	Private	Danga	KHARGA DEBSHARMA, ASHA NANDA DEBSHARMA, KHAKTU DEBSHARMA, JALI DEBSHARMA, DEBENDRA DEBSHARMA		
LR 635				0.3550	Private	Danga	DHENDRA NATH SARKAR, AKALU DEBSHARMA		
LR 636				0.3350	Private	Danga	KHARGA DEBSHARMA, ASHA NANDA DEBSHARMA, KHAKTU DEBSHARMA, JALI DEBSHARMA, DEBENDRA DEBSHARMA		
LR 637				0.1800	Private	Danga	THEPSU MALAKAR, RATI KANTA MALAKAR		
LR 638				0.1300	Private	Danga	MAHENDRA KUMAR SARKAR		
LR 639				0.0800	Private	Danga	THEPSU MALAKAR, DHERANDRA NATH SARKAR, RATI KANTA MALAKAR, RANU BAKA MALAKAR		
LR 640				0.0750	Private	Dala	CHANCHAL SARKAR, BHUSHAN CHANDRA SARKAR, BHUPENDRA NATH SARKAR, SASHI MOHAN SARKAR		
LR 641				0.0500	Private	Dala	KSHIROD DEBSHARMA		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 643	0.1650	Private	Dala	NAYAN DEBSHARMA, NISHI KANTA SARKAR, PAKESH CHANDRA SARKAR, BIRENDRA NATH SARKAR, HAGRU SARKAR, HEMENTA DEBSHARMA
					LR 646	0.1000	Private	Dala	MALINA SARKAR, TULA DASI, NISHI KANTA SARKAR, DHERANDRA NATH SARKAR, SURENDRA NATH SARKAR, BISWANATH SARKA
					LR 647	0.0650	Private	Dala	BIPAD PRADHAN, MANMOHAN SARKAR, RADHA KANTA SARKAR
					LR 879	0.1600	Private	Rasta	NO-4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					LR 1015	0.2700	Private	Dala	DHIRANDRA NATH SARKAR, KHARGA DEBSHARMA, ASHA NANDA DEBSHARMA, KHAKTU DEBSHARMA, JALI DEBSHARMA, DEBENDRA DEB SHARMA
					LR 1017	0.1000	Private	Danga	NIKHIL SARKAR, BHABESH CHANDRA SARKAR
					RS 256	0.0200	Private	Dala	PRAFULLU SARKAR, RADHA KANTA SARKAR, PARTOSH CHANDRA SARKAR, ASHUTOSH SARKAR, HAGURI BAKA SARKA
					RS 257	0.5750	Private	Dala	BADLAU DEBSHARMA, MAHENDRA KUMAR SARKAR, SATYANANDRA NATH ROY
					RS 258	0.7900	Private	Dala	PUNAG CHANDRA SARKAR, KSHIR MOHAN DEBSHARMA, SASHI MOHAN DEBSHARMA, SATYENDRA NATH ROY
					RS 261	0.0100	Private	Dala	KHARGA DESI
					RS 262	0.1950	Private	Danga	KHARGA DESI
					RS 263	0.5000	Private	Dala	NABA DHAR SARKAR
					RS 277	0.5450	Private	Dala	DHANANJAI DAS, NAJATI RANI SARKAR
					RS 279	0.5150	Private	Dala	CHHIREKET DEBSHARMA, SEBENANDRA NATH DEBSHARMA, DURGA DEBSHARMA, PABEN DEBSHARMA, BABU LAL DESI, HARI MOHAN SARKAR
					RS 299	0.3300	Private	Dala	ABHAI ROY, MADAN ROY, RASHA MOHAN ROY
					RS 309	0.0200	Private	Danga	MAHALU ROY
					RS 301	0.2800	Private	Dala	MAHENANDRA KUMAR SARKAR
					RS 302	0.4150	Private	Dala	UPENDRA NATH MALAKAR
					RS 303	0.0100	Private	Dala	MANOMOCHAN SARKAR
					RS 304	0.1200	Private	Dala	RASHA MOHAN ROY
					RS 305	0.0400	Private	Dala	MANOMOCHAN SARKAR
					RS 306	0.2400	Private	Dala	ABHAI ROY, MADAN ROY, RASHA MOHAN ROY
					RS 315	0.0950	Private	Dala	MALINA SARKAR, TULA DASI, NISHI KANTA SARKAR, DHERANDRA NATH SARKAR, SURENDRA NATH SARKAR, BISWANATH SARKA
					RS 316	0.6600	Private	Dala	GEGANENDRA NATH SARKAR, THEPSU MALAKAR, BASHTU MALAKAR, SUNU MALAKAR
					RS 317	0.6650	Private	Dala	ADYA ROY, CHURAMANI DEVI, HARENANDRA NATH MANDAL, PHULESARY DEVI, SUMITA BALA DEVI, SAMILA BALA DEVI, TULAN BALA DESI, GHOTIKA ROY, HAKTI ROY, KHEGANDRA ROY, SAGENDRA ROY, DHUKARI BALA ROY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 318	0.0450	Private	Dala	SUKIL SARKAR, UKIL SARKAR BARGADAR, BHERAN ROY, BERAN ROY
					RS 333	0.4750	Private	Dala	MALINA SARKAR, TULA DAS
					RS 334	0.0850	Private	Dala	BIHARAN BARMAN, RANAJIT BARMAN, LAKSHMAN BARMAN, DIPU DEBSHARMA
					RS 335	0.1900	Private	Danga	CHANDRAKANTA SARKAR
					RS 336	0.1250	Private	Danga	KHEGENDRA NATH ROY
					RS 337	0.5950	Private	Pukur	DIUKARI BALA ROY, SAGENDRA NATH ROY, KHEGANDRA NATH ROY
					RS 338	0.1550	Private	Danga	DIUKARI BALA ROY, SAGENDRA ROY, KHEGANDRA ROY
					RS 344	0.5000	Private	Dala	PRASNNA KUMAR SARKAR, BHUBAN CHANDRA SARKAR, BIMAL CHANDRA SARKAR
					RS 345	0.5300	Private	Dala	NISHI KANTA SARKAR
					RS 364	0.4800	Private	Bastu	DEBENDRA NATH SARKAR, NABIN ROY, MAHADEV SARKAR, BASU ROY, SUPA BEWA, DHULEN ROY, SUSHILA SARKAR
					RS 365	0.4550	Private	Vita	NAYAN RANJAN DAS, ANIL RANJAN DAS, MANORANKAN DAS, SUBHASH RANJAN DAS BARGADAR, THANU BARMAN, BHANU CHANDRA BARMAN, SUSHEN BARMAN, ANNU BARMAN
					RS 366	0.0600	Private	Vita	BASHU ROY
					RS 368	0.1350	Private	Vita	PACHKATU SARKAR, BIMAL BARMAN, JYOTSNA BARMAN
					RS 370	0.3400	Private	Bastu	UPEN BARMAN, HARABHAN BARMAN
					RS 371	0.3750	Private	Dala	TAFENDRA NATH SARKAR, TARAN BARMAN, DHUPENDRA SARKAR, RABENDRA SARKAR, UPEN BARMAN, HARADHAN BARMAN, KHAGEN ROY
					RS 373	0.0500	Private	Rasta	NO. 4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					RS 397	0.0300	Private	Vita	DEBANDRA NATH SARKAR, NABIN ROY, MAHADEV SARKAR, MANORANJAN DAS, NAYANRANJAN DAS, SUBHASH RANJAN DAS, ANIL DAS, ANNAPURNA DAS BARGADAR, HARADHAN BARMAN, TARAN BARMAN
					RS 399	0.3700	Private	Danga	CHAITAN SARKAR, NERANDRA NATH SARKAR, MOHAN CHANDRA SARKAR, RAMANI DESI, SARBANANDA SARKAR
					RS 400	0.2950	Private	Danga	GANESH CHANDRA SARKAR, NERANDRA NATH SARKAR, AAGYA DASI, MOHAN CHANDAR SARKAR
					RS 401	0.3300	Private	Danga	DEBANDRA NATH SARKAR, CHAITANNA SARKAR, SARBANANDA SARKAR, PRAMANANDA SARKAR, BHANU MANI SARKAR, MAHADEB SARKAR
					RS 402	0.1050	Private	Danga	SUPA MANI DEBI
					RS 403	0.1850	Private	Danga	DEBANDRA NATH SARKAR, CHAITANNA SARKAR, SARBANANDA SARKAR, PRAMANANDA SARKAR, BHANU MANI SARKAR, MAHADEB SARKAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 404	0 0450	Private	Rasta	NO-4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					RS 405	0 1100	Private	Danga	DEBANDRA NATH SARKAR, CHAITANNA SARKAR, SARBANANDA SARKAR, PRAMANANDA SARKAR, BHANU MANI SARKAR, MAHADEB SARKAR
					RS 406	0 1150	Private	Danga	DEBANDRA NATH SARKAR, CHAITANNA SARKAR, SARBANANDA SARKAR, PRAMANANDA SARKAR, BHANU MANI SARKAR
					RS 434	0 4400	Private	Danga	MEGHAL BARMAN, KOKIL BARMAN
					RS 435	0 2800	Private	Danga	MEGHAL BARMAN, UASU BARMAN, SAFISH BARMAN
					RS 439	0 4150	Private	Danga	PRAMANANDA SARKAR, BIMAL KUMAR SARKAR, SANTOSH KUMAR SARKAR, TAPOSH SARKAR, AMULYA SARKAR, SHYAMAL SARKAR, SUKHEN SARKAR
					RS 440	0 2450	Private	Danga	DEBANDRA NATH SARKAR, CHAITANNA SARKAR, SARBANANDA SARKAR, PRAMANANDA SARKAR, BHANU MANI SARKAR, MAHADEB SARKAR
					RS 560	0 5700	Private	Dala	DEBANDRA NATH SARKAR, CHAITANNA SARKAR, SARBANANDA SARKAR, PRAMANANDA SARKAR, BHANU MANI SARKAR, MAHADEB SARKAR
					RS 563	0 4800	Private	Dala	GOPAL CHANDRA SARKAR, CHITRA GUPTA SARKAR, JITENDRA NATH SARKAR, NISHI KANTA SARKAR, SUDHAGSU SARKAR, SATYENDRA NATH SARKAR, DEBANTA SARKAR, BHABANANDA SARKAR, HARI NDRA NATH SARKAR, BAL ANDRA NATH SARKAR
					RS 564	0 0050	Private	Dala	ABIDHAN BARMAN, SHIRU ROY, MANORANJAN DAS, NAYAN RANJAN DAS, SUBHASHI RANJAN DAS, ANH DAS, ANNAPURNA DAS, BARGADAR- BHANU BARMAN, SUSHEN BARMAN, THANU BARMAN, MITHU BARMAN
					RS 586	0 0200	Private	Rasta	NO-4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					RS 1056	0 0400	Private	Bastu	BASHU ROY
					RS 1058	0 1700	Private	Bastu	SWARANOHAN BARMAN, SARADA BARMAN
					RS 1061	0 1150	Private	Bastu	BHARAN BARMAN, RANJIT BARMAN, LAKSHMAN BARMAN
					RS 1064	0 0260	Private	Vita	NABIN ROY, MANORANJAN DAS, NAYAN RANJAN DAS, SUBHASHI RANJAN DAS, ANH DAS, ANNAPURNA DAS
					RS 1065	0 1600	Private	Vita	SUPO BEWA, DHULPN ROY, SUSHILA SARKAR
			(2) BOCHADANGA	6862	LR 59	0 0600	Private	Rasta	NO-4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					LR 158	0 0800	Private	Dala	SATAN DEBSHARMA
					LR 159	0 0250	Private	Dala	PULIN DEBSHARMA, BHABEN DEBSHARMA, TAPAN CHANDRA SARKAR, ARUN CHANDRA SARKAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 160	0.0300	Private	Dala	ANESH SARKAR, HARENDRA NATH SARKAR, LAL MOHAN @ (AKALU BARMAN)
					LR 161	1.1600	Private	Dala	PRAN SARKAR, BADALU ROY, SRI NATH ROY, SUDHIR CHANDRA SARKAR, DHULIN ROY, ANIL ROY, DEKHAN BALA ROY, TUNI ROY,
					LR 162	0.1050	Private	Dala	PRAMATHA BARMAN, ANESH DEBSHARMA, KHANESH DEBSHARMA, TARU BALA DEBSHARMA, KOKIL BARMAN, GANESH CHANDRA BARMAN
					LR 168	0.0150	Private	Dala	MELA BAR ROY
					LR 169	0.0450	Private	Dala	NIRMAL CHANDRA BARMAN, ABADHIN BARMAN, GANESH CHANDRA BARMAN
					LR 171	0.5550	Private	Dala	ANIT DEBSHARMA, KOKIL BARMAN, KHEGANDRA BARMAN, ATUL DEBSHARMA, GANESH CHANDRA BARMAN
					LR 208	0.1300	Private	Vita	NINDALU BARMAN, HARENDRA ROY, DHULIN ROY, ANIL ROY, DEKHAN BALA ROY, TUNI ROY
					LR 209	0.6000	Private	Pukur	DHALIN BARMAN, ANIL BARMAN, NINDALU BARMAN, BADHALU RAY, SRI NATH ROY, HARENDRA ROY, DEKHAN BALA ROY
					LR 210	0.4200	Private	Vita	DHALIN BARMAN, NINDALU BARMAN, BHAI BARMAN, BADALU ROY
					LR 260	0.5500	Private	Dala	DUFURU BARMAN, DEVANANDA BARMAN, NAGEN BARMAN
					LR 261	0.0900	Private	Dala	PRAFULL KUMAR SARKAR, SAKAL CHANDRA SARKAR, SEBA NANDA SARKAR, TITHATRA NATH DEBSHARMA, JALADHAR DEBSHARMA
					LR 262	0.6400	Private	Dala	NINDALU BARMAN, NEHA BARMAN, PRENDRA ROY, HARENDRA ROY
					LR 263	0.3750	Private	Vita	NINDALU BARMAN, BADALU ROY, SRI NATH ROY, HARENDRA ROY, DHULIN ROY, ANIL ROY, DEKHAN BALA ROY, TUNI ROY
					LR 202	0.1200	Private	Vita	PULIN BARMAN
					LR 254	0.1400	Private	Danga	DUFURU BARMAN, NAGEN BARMAN
					LR 255	0.1300	Private	Danga	BISNU PADA SINGHA
					LR 257	0.5400	Private	Danga	BISNU PADA SINGHA
					LR 277	0.0150	Private	Vita	DUFURU BARMAN, DEVANANDA BARMAN, NAGEN BARMAN, MAHILA BALA DEVI, AHILA BALA DEVI
					LR 278	0.1500	Private	Bastu	DAITYA BARMAN, PRAMATHA BARMAN, BINAY BARMAN, MEGHU BARMAN, JAMANI BARMAN, KHAGENDRA BARMAN, KHEJUR BARMAN
					LR 279	0.0750	Private	Bastu	DAITYA BARMAN, PRAMATHA BARMAN, BINAY BARMAN, MEGHU BARMAN, JAMANI BARMAN, KHAGENDRA BARMAN, KHEJUR BARMAN
					LR 280	0.1950	Private	Vita	RUPCHAND PRASAD BARGADAR, PRAMATHA ROY
					LR 282	0.5200	Private	Vita	MUKUL BARMAN, BIJAY BARMAN BARGADAR, AMRITA BARMAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 283	0.0100	Private	Bastu	ANANDA BARMAN
					LR 285	0.0450	Private	Rasta	NO- 4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					LR 441	0.1550	Private	Vita	BAHAL BARMAN
					LR 442	0.3700	Private	Vita	THALI BARMAN
					LR 443	0.5300	Private	Vita	ABADHIN DEBSHARMA, KHEGANDRA NATH DEBSHARMA, CHHATRA NATH DEBSHARMA, SUREN DEBSHARMA, KUMARESH DEBSHARMA, GRISH DEBSHARMA, ANJALI DEBSHARMA, KALPANA DEBSHARMA
					LR 444	0.4950	Private	Danga	SAMIL BARMAN
					LR 445	1.0950	Private	Dala	BAHAL BARMAN, BHANDAL BARMAN
					LR 446	0.1500	Private	Dala	PASI ROY, DRIP ROY
					LR 447	0.1400	Private	Dala	PASI ROY, DRIP ROY
					LR 448	0.3100	Private	Dala	PASI ROY, DRIP ROY
					LR 449	0.6000	Private	Dula	BIHADANG CHANDRA ROY, LALMOHAN @ (AKALU BARMAN), KHEJUR BARMAN
					LR 450	0.2100	Private	Dala	SAMIL BARMAN, LALMOHAN ALIAS AKALU BARMAN
					LR 458	0.0800	Private	Dala	THALI BARMAN
					LR 459	0.4850	Private	Vita	SAMIL BARMAN, MUKUL BARMAN, BIJAY BARMAN
					LR 460	0.0650	Private	Vita	JABU BARMAN
					LR 672	0.4550	Private	Danga	ALMOHAN @ (AKALU BARMAN) DIPTI RANI BARMAN, APAT BARMAN
					LR 719	0.0650	Private	Danga	BYOM BARMAN, SIRIN BARMAN
					LR 726	0.0900	Private	Bastu	MUKUL BARMAN, BIJAY BARMAN BINO BALA BARMAN
			(D) DAKSHINKRISHNAPUR- 113	6864	LR 3	0.1350	Private	Danga	MASIRUDDIN AHMED, MAHATABUDDIN SARKAR
					LR 7	0.6800	Private	Danga	NALI BARMAN, BHUPEN BARMAN, HARAN BARMAN, GOLI BARMAN, GOPEN BARMAN
					LR 17	2.2050	Private	Danga	KARTIK CHANDRA BARMAN, GOLI BARMAN, GOPEN BARMAN, NOLI BARMAN, NILANI BEWA, BHUPEN BARMAN, HAREN BARMAN
					LR 18	0.6400	Private	Danga	NURUL ISLAM, ASIRUDDI SARKAR, RAISHA KHATUN
					LR 27	0.1600	Private	Danga	MASIRUDDIN AHMED, MAHATABUDDIN SARKAR
					LR 28	1.3600	Private	Danga	MASIRUDDIN AHMED, MAHATABUDDIN SARKAR, BABLU BARMAN, PRANANATH BARMAN
					LR 95	0.3200	Private	Danga	NALI BARMAN, NILANI BEWA, BHUPEN BARMAN, HARAN BARMAN, GOLI BARMAN, GOPEN BARMAN
					LR 97	0.9050	Private	Vita	FELIMANNECHHA
					LR 98	0.7400	Private	Vita	BHUPEN BARMAN, HAREN BARMAN, GOPEN BARMAN
					LR 99	0.8000	Private	Bastu/Danga	AGYANATH BARMAN, GOLI BARMAN, GOPEN BARMAN, NALI BARMAN, BHUPEN BARMAN, SAYAN BARMAN, HAREN BARMAN, JHARU BARMAN, BABLU BARMAN, PRANANATH BARMAN, DULAN (GOLI) BARMAN, BHUSHEN BARMAN, GAJEN BARMAN, PRADIP BARMAN, RURCHAND BARMAN
					LR 111	0.3450	Private	Vita	NEDHO BALA BARMAN, BASUDEV BARMAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 113	0 6000	Private	Vita	DALU BARMAN, TAJIMANNESSA, DHAMALU BARMAN, NALI BARMAN, NEDHO BALA BARMANI, BHUPEN BARMAN, MASIRUDDIN AHMED, BASUDEB BARMAN, MAHATAB UDDIN SARKAR, HAREN BARMAN, GOLI BARMAN, GOPEN BARMAN
					LR 114	0 8850	Private	Vita	MD. ISMAIL AZAD
					LR 116	0 0250	Private	Danga	MD. ISMAIL AZAD
					LR 117	0 8800	Private	Vita	TAJIMANNESSA
					LR 118	0 4850	Private	Vita	MASIRUDDIN AHMED, MAHATAB UDDIN SARKAR
					LR 119	0 1100	Private	Danga	AGYANATH BARMAN
					LR 151	0 0400	Private	Danga	BABULAL BARMAN
					LR 152	0 7800	Private	Danga	ANANDA MOHAN BARMAN, AMINCHANDRA BARMAN, DHATANI KANTA BARMAN, DINADAYAL BARMAN, BABULAL BARMAN, JITEN BARMAN, ASHARU BARMAN, ULIKA BARMAN, BABULAL BARMAN
					LR 153	0 6400	Private	Dala	ANANDA MOHAN BARMAN, AMINCHANDRA BARMAN, DHARANI KANTA BARMAN, DINADAYAL BARMAN, BABULAL BARMAN, JITEN BARMAN
					LR 154	0 0650	Private	Dala	ANANTARAM BARMAN, DADHI RAM SARKAR, MAJHDUR RAHAMAN, HAMIDUL RAHAMAN, MUKULESWAR RAHMAN, MUKTAR HOSSAIN
					LR 159	0 0350	Private	Dala	ASIRUDDIN, ABDUL SOVAN
					LR 739	0 3300	Private	Dala	MD ISMAIL AZAD
					LR 770	0 1050	Private	Rasta	NO-4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
			(4) DAKSHIN BHAGAN CHITRA 122	6801	LR 327	0 1550	Private	Itkhola	MOHASIN ALI, HIRENDRA NATH GHOSE, GYASUDDIN, JAHUR ALI
					LR 330	0 7450	Private	Itkhola	TAGAR BARMAN
					LR 331	0 9750	Private	Itkhola	HIRENDRA NATH GHOSH
					LR 334	0 4450	Private	Itkhola	PRATAP PRAMANIK, BINOD PRAMANIK, BHABANI PRAMANIK, PHONIBHUSHAN PRAMANIK, BASHU MAJI PRAMANIK
			(5) EASTPUR-135		RS 344	0 1250	Private	Rasta	NO-4 BOCHADANGA GRAM PANCHAYET
					RS 391	0 2950	Private	Danga	BHUTIA BARMAN, DEBASHIS GHOSH
					RS 392	0 1500	Private	Danga	DHULAN BARMAN
					RS 395	0 1500	Private	Doba	BHUTIA BARMAN
					RS 394	0 3550	Private	Itkhola	HIRENDRA NATH GHOSH, DEBASHIS GHOSH
					RS 395	0 0050	Private	Itkhola	SUKDEB SINGH
					RS 396	0 1450	Private	Itkhola	HIRENDRA NATH GHOSH, DEBASHIS GHOSH
					RS 397	0 1400	Private	Itkhola	BHUTIA BARMAN, DEBASHIS GHOSH
					RS 398	0 0350	Private	Danga	DHULAN BARMAN
					RS 406	0 2800	Private	Doba	HIRENDRA NATH GHOSH, SEKENDRA NATH SARKAR, HARI DAS SARKAR
					RS 472	0 5400	Private	Basto	DHULAN BARMAN
					RS 475	0 6700	Private	Vita	JYOGENDRA BARMAN
					RS 476	0 3300	Private	Basto	DHANDAPUL SARKAR, NAKARU SARKAR
					RS 487	0 7200	Private	Basto	GHUTYU ROJY BARMAN, BHABANANDA BARMAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 488	0.3650	Private	Danga	JYOGENDRA BARMAN
					RS 489	0.0300	Private	Danga	JYOGENDRA BARMAN
					RS 491	0.6400	Private	Danga	RABI ROY, MALKA BARMAN, SAFALI BARMAN, KALABATI BARMANI, KUMARESH BARMAN
					RS 492	0.2400	Private	Danga	MALKA BARMANI, SAFALI BARMANI, KALABATI BARMANI
					RS 503	0.4900	Private	Bastu	DEBANDRANA TH SARKAR, NABENDRA CHANDRA BARMAN, BHUPAL CHANDRA MONDAL, HARENDRA BARMAN, HALFALI BARMAN
					RS 504	0.1500	Private	Hastu	PANCHANAN BARMAN
					RS 505	0.0300	Private	Danga	UPENDRA BARMAN
					RS 506	0.2900	Private	Danga	SHANTI BARMAN
					RS 508	0.1800	Private	Danga	AJIT BARMAN, SUSHEN BARMAN, MANTU BARMAN
					RS 509	0.4200	Private	Danga	SUSHEN BARMAN, MANTU BARMAN
					RS 532	0.0250	Private	Vita	AJIT BARMAN, NANDA BARMAN, BHABESH CHANDRA BARMAN, SADIHN BARMAN
					RS 533	0.3350	Private	Danga	SURAJ KANTA SARKAR, SURENDRA NATH SARKAR
					RS 534	0.0850	Private	Dala	DEBENDRA NATH SARKAR, NABENDRA CHANDRA BARMAN, HARENDRA BARMAN
					RS 535	0.0050	Private	Dala	CHAYTANYA
					RS 536	0.8700	Private	Dala	GALCHAND SARKAR, CHITRA MOHAN ROY, MANINDRA ROY, LAKSHMI KANTA BARMAN, SINGHASHAN BARMAN, HARAGOBINDA BARMAN
					RS 537	0.2600	Private	Dala	DEBENDRA NATH SARKAR, NABENDRA CHANDRA BARMAN, HARENDRA BARMAN
					RS 538	0.3800	Private	Dala	TUKURU DEBSHARMA, DEBENDRANATH SARKAR, BARGADAR, SARESH CHANDRA SARKAR
					RS 539	0.0050	Private	Danga	DEBENDRA NATH SARKAR, NABENDRA CHANDRA BARMAN, BHUPAL CHANDRA MONDAL, HARENDRA BARMAN
					RS 559	0.0800	Private	Danga	NAKARU SARKAR, JYOGENDRA BARMAN
					RS 576	0.1600	Private	Pukur	DHULAN BARMAN
					RS 1793	0.6100	Private	Dala	KHAGENDRA NATH SARKAR, DOI, GOBINDA SARKAR, NASKAR SARKAR, AKUL SARKAR, BIJAY SARKAR, SATISH CHANDRA SARKAR
					RS 1794	0.1550	Private	Dala	JYOGENDRA NATH SARKAR
					RS 1796	0.0500	Private	Vita	MANARANJAN SARKAR, RAMANI KANTA SARKAR
					RS 1797	0.2200	Private	Dala	MANARANJAN SARKAR, RAMANI KANTA SARKAR
					RS 1798	0.3850	Private	Dala	PATHA DEBSHARMA, BIJAY SARKAR, SATISH CHANDRA SARKAR, KUNERASH SARKAR
					RS 1802	0.0650	Private	Dala	MANARANJAN SARKAR, RAMANI KANTA SARKAR
					RS 2449	0.2400	Private	Dala	AJAY KUMAR SARKAR
					RS 2450	0.0800	Private	Dala	JITENDRA NATH SARKAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(6) GOGRA - 111	6858-6859	LR 375	0.4950	Private	Data	MOHINI MOHAN SARKAR, RAMANIKANTA SARKAR, NANDALAL BARMAN, ASHOK BARMAN, BABULAL BARMAN, CHUNILAL ROY, BRINDA RANI ROY
					LR 380	0.6000	Private	Danga	TASHIL CHANDRA SARKAR, RAMESWAR SARKAR, HARI CHARAN SARKAR, KANCHAN SARKAR, JANAK SARKAR, TASRI BALA DEVI, ALARAM SARKAR
					LR 381	0.2050	Private	Danga	TULARAM SARKAR, TULSI SARKAR, BAJARU DEBSHARMA, BILASHU SARKAR, SHIBURAM SARKAR, RAMESWAR SARKAR, HARICHARAN SARKAR, KANCHAN SARKAR, JANAK SARKAR, TASRI BALA DEVI
					LR 382	0.3700	Private	Danga	MOHANI MOHAN SARKAR, SANTOSH KUMAR SARKAR
					LR 593	0.1250	Private	Data	TASHIL CHANDRA SARKAR, RAMESWAR SARKAR, HARI CHARAN SARKAR, KANCHAN SARKAR, JANAK SARKAR, TASRI BALA DEVI, NANDALAL BARMAN, ASHOK BARMAN, BABULAL BARMAN, ALARAM SARKAR
					LR 594	0.3900	Private	Data	SANTOSH KUMAR SARKAR, NANDALAL BARMAN, ASHOK BARMAN, BABULAL BARMAN
					LR 595	0.3850	Private	Data	DEBANDRA SARKAR, CHETAN SARKAR, SANTA SARKAR
					LR 596	0.3200	Private	Data	MOHINI MOHAN SARKAR, SANTOSH KUMAR SARKAR
					LR 600	0.1150	Private	Data	NIROD SARKAR, PRAFFLU SARKAR, MADHAB CHANDRA SARKAR, SURESH SARKAR, SUSHEN SARKAR, UMESH SARKAR
					LR 601	0.2400	Private	Data	RAMESWAR SARKAR, HARI CHARAN SARKAR, KANCHAN SARKAR, JANAK SARKAR, TASRI BALA SARKAR
2	DAKSHIN DINAJPUR	(1) AKCHA	(1) CHAPKA - 4	6851	RS 73	0.0700	Private	Data	MANINANDRA SARKAR, MANTU SARKAR
					RS 74	0.3750	Private	Data	MANINANDRA SARKAR, MANTU SARKAR
					RS 75	0.3200	Private	Danga	AJAY KUMAR SARKAR, ATUL SARKAR, KUMARESH SARKAR, KULDEV SARKAR, BAHARI DASI, BIJAY SARKAR, MANIK SARKAR, SATISH CHANDRA SARKAR, BARGADAR, NATURANU SARNAKAR, NATU RAM SARNAKAR, NADU RAM DESI
					RS 76	0.3300	Private	Danga	ATUL SARKAR, KULDEV SARKAR, MANIK SARKAR
					RS 77	0.3800	Private	Danga	SURENDRA NATH SARKAR
					RS 78	0.0950	Private	Danga	BAS DESHI, SADAR DESHI
					RS 80	0.2400	Private	Data	SURENDRA NATH SARKAR
					RS 81	0.5600	Private	Data	ATUL SARKAR, KULDEV SARKAR, MANIK SARKAR
					RS 82	0.0650	Private	Data	KHAKSU DEBSHARMA, DEBANDRA NATH SARKAR, SANTA NATH SARKAR
					RS 83	0.3100	Private	Data	GANESH SARKAR, SUBAL SARKAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 84	0.0200	Private	Dala	KHAKSU DEBSHARMA, DARSHAN DESHI, NAREN SARKAR, BAN DESHI, MAHESH DESHI, SAREN SARKAR
					RS 99	0.0150	Private	Danga	KHAKSU DEBSHARMA
					RS 119	0.0850	Private	Dala	DILEN BALA DASI, BABULAL SARKAR, SHAMBU NATH SARKAR, RAJKUMAR SARKAR, RANAJIT SARKAR
					RS 135	0.0050	Private	Danga	BILASU SARKAR
					RS 136	0.6200	Private	Danga	BILASU SARKAR
					RS 137	0.0050	Private	Doba	BILASU SARKAR
					RS 138	0.1050	Private	Bastu	BILASU SARKAR
					RS 139	0.1850	Private	Bastu	DEBANDRA NATH SARKAR, BETAN SARKAR, SANTA NATH SARKAR
					RS 140	0.0800	Private	Doba	DEBANDRA NATH SARKAR, BETAN SARKAR, SANTA NATH SARKAR
					RS 141	0.2400	Private	Vita	DEBANDRA NATH SARKAR, BETAN SARKAR, SANTA NATH SARKAR
					RS 142	0.1250	Private	Danga	TUMIR DESHI
					RS 144	0.1900	Private	Danga	SHOKA DESHI
					RS 145	0.1150	Private	Dala	KANGALU ROY, KALU ROY, DHERAN ROY, SADRU ROY
					RS 150	0.0050	Private	Danga	KHAKSU DEBSHARMA, DARSHAN DESHI, NAREN SARKAR, BAN DESHI, MAHESH DESHI, SAREN SARKAR
					RS 213	0.2000	Private	Dala	PARESH CHANDRA SARKAR, BHUMI SARKAR, RAGHU SARKAR, LALIT SARKAR, LIBAN SARKAR, GANESH SARKAR, KHAMIL SARKAR, DINESH CHANDRA SARKAR
					RS 252	0.0150	Private	Dala	KELSHI DASI
					RS 254	0.1600	Private	Doba	LALIT DASI
					RS 256	0.2650	Private	Vita	KELSHI DASI
					RS 257	0.5250	Private	Danga	ASHARAM DEBSHARMA, JOGAI CHANDRA RAY, BIJAY DESHI, BHADRA DEBSHARMA, PRAN BALLAB DESI
					RS 258	0.4000	Private	Dala	GALI ROY, DEBANDRA ROY
					RS 259	0.1800	Private	Bansh	AALAI SARKAR, BHUMI SARKAR, RAGHU SARKAR, LALIT SARKAR, LIBAN SARKAR, KHAMIL SARKAR
					RS 260	0.0550	Private	Danga	KHETRA MOHAN SARKAR
					RS 261	0.2000	Private	Dala	HAREN DESHI
					RS 262	0.0450	Private	Dala	KELSHI DASI
					RS 266	0.1900	Private	Dala	KELSHI DASI
					RS 271	0.0250	Private	Pukur	KHETRA MOHAN SARKAR
					RS 275	0.0900	Private	Danga	PIYALI DESHI (DEATH)
					RS 276	0.7100	Private	Danga	PRAFFLU DESHI, KHETRA MOHAN SARKAR
					RS 277	0.3400	Private	Danga	BISNU DESHI
					RS 278	0.0500	Private	Rasta	THE PRADHAN NO-1 AKUTIA GRAM PANCHAYET
					RS 279	0.4800	Private	Bastu	TARAN DEBSHARMA, PARESH CHANDA SARKAR, BALARU DEBSHARMA, BHUMI SARKAR, BHODER DEBSHARMA, RAGHU SARKAR, LALIT SARKAR, LIBAN SARKAR, KHAMIL SARKAR
					RS 280	0.1650	Private	Vita	TUTHU BEWA
					RS 571	0.0350	Private	Rasta	SAFA DESHI
					RS 575	0.0200	Private	Danga	KALSHI DASI
			(2) SULTANPURA 82	6850, 6852	LR 74	0.0025	Private	Dala	BAHANU DESHI, BHABANANDA DESHI, SURESH DESHI
					RS 161	0.1650	Private	Bastu	PRANA BALLAV DESHI, BIJAY PRADHAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 173	0.2450	Private	Vita	KELAMI DESHI, NILENAM DEBSHARMA, BASANTA DEBSHARMA, BIRENDRA SARKAR, SUREN DEBSHARMA, KHOKA DEBSHARMA, YOGESHCHANDRA SARKAR, ANDHARU DEBSHARMA
					LR 174	0.7450	Private	Vita	PALASH CHANDRA SARKAR, CHATRA KUMAR SARKAR
					LR 176	0.4000	Private	Dala	ADI DEBSHARMA, MANJANI DAS, SOMAI DAS, MALATI DAS, CHITEN SARKAR, VENDOR DEBSHARMA, JAJNESWAR SARKAR, PASHMI RANI SARKAR, DAITU DEBSHARMA, BHABANANDA SARKAR, PALASH CHANDRA SARKAR
					LR 177	0.4600	Private	Dala	PURENDRA SARKAR, JAJNESWAR SARKAR
					LR 178	0.3400	Private	Dala	BIJAY PRADHAN
					LR 179	0.1350	Private	Vita	KANCHALI DAS, PURENDRA SARKAR, BHABANANDA SARKAR, PABITRA SARKAR
					LR 190	0.0900	Private	Vita	JAJNESWAR SARKAR
					LR 191	0.0100	Private	Dala	NILENAM DEBSHARMA
					LR 192	0.3000	Private	Dala	MANINANDRA SARKAR, MANTU SARKAR
					LR 276	0.0150	Private	Dala	JAGAI SARKAR, BIJAY PRADHAN, ASHARAM SARKAR
					LR 277	0.1200	Private	Dala	KELAMI DESHI
					LR 278	0.4050	Private	Dala	BIJAY PRADHAN
					LR 282	0.4000	Private	Dala	NALAHARI DEBSHARMA, NILENAM DEBSHARMA, BASANTA DEBSHARMA, NAMEN DEBSHARMA, NAGEN CHANDRA SARKAR
					LR 283	0.4300	Private	Dala	KELAMI DESHI
					LR 284	0.0750	Private	Dala	BIJAY PRADHAN, MALIN SARKAR, BANISWAR ROY
					LR 1030	0.2500	Private	Bastu	CHHABI RANI SARKAR, CHHATRA KUMAR SARKAR
					LR 1054	0.0850	Private	Rasta	THE PRADHAN, AKCHA GRAM PANCHAYET
					RS 452	0.0875	Private	Dala	NILENAM DEBSHARMA, BASANTA DEBSHARMA, BECHAN SINGH, BHARAT DEBSHARMA, JOGESHWAR DEBSHARMA, BHESHTU RAM SARKAR, PHALI SARKAR, ANIL SARKAR
					RS 453	0.2200	Private	Dala	KHAGENDRA ROY, GOBINDA DESHI, CHHABI SARKAR, NILENAM DEBSHARMA, BASANTA DEBSHARMA, BIRENDRA SARKAR, HAREKANTA SARKAR, HABIL SARKAR
					RS 454	0.2100	Private	Dala	SWAMI NATH DEBSHARMA
					RS 455	0.0275	Private	Dala	JAGANNATH SARKAR
					RS 457	0.0500	Private	Rasta	SRI SRI RADHA BALLAV JEU SEBAIT KUMAR ARUN CHANDRA SINGHA BAHADUR, KUMAR JAGEDISH CHANDRA SINGHA BAHADUR, KUMAR BIMAL CHANDRA SINGHA BAHADUR, ANIMA BAL SINGHA BAHADUR, MATA ABHA RANI SINGHA BAHADUR
					RS 459	0.2150	Private	Dala	PURENDRA SARKAR
					RS 460	0.0300	Private	Danga	NALAHARI DEBSHARMA, PREMAHARI DEBSHARMA
					RS 461	0.4100	Private	Danga	MOHAMMED DESHI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 463	0.0500	Private	Dala	BHABANANDA SARKAR, PABITRA SARKAR
					RS 886	0.0100	Private	Danga	GOUR MOHAN SARKAR
					RS 887	0.1800	Private	Vita	OSMAN ALI, ALIBAUDDIN AHMED, ARUJA KHATUN
					RS 945	0.0500	Private	Rasta	SRI SRI RADHA BALLAV JEU SEBAIT KUMAR ARUN CHANDRA SINGHA BAHADUR, KUMAR JAGEDISH CHANDRA SINGHA BAHADUR, KUMAR BIMAL CHANDRA SINGHA BAHADUR, ANIMA BALA SINGHA BAHADUR, MATA ABHA RANI SINGHA BAHADUR
					RS 946	0.0400	Private	Rasta	THE PRADHAN, AKCHA GRAM PANCHAYET
			(3) NAOGAN - 84	6846	LR 114	0.0750	Private	Rasta	THE PRADHAN NO-1 AKCHA GRAM PANCHAYET
					LR 118	0.1050	Private	Dala	SWAMI NATH ROY
					LR 123	0.1600	Private	Dala	JAGANNATH SARKAR, NALINI SARKAR, ABHIJIT SARKAR, MAHARANI SARKAR, TISO BALA DASI, CHARKI DASI, GANOBALA DASI, JATOBALA DASI
					LR 124	0.0350	Private	Danga	JOGE SARKAR
					LR 125	0.3200	Private	Danga	YOGESHDEB SHARMA, SADANANDA SARKAR
					LR 128	0.1800	Private	Danga	JAGANNATH SARKAR, NALINI SARKAR, ABHIJIT SARKAR, MAHARANI SARKAR, TISO BALA DASI, CHARKI DASI, GANOBALA DASI, JATOBALA DASI
					LR 129	0.2750	Private	Vita	BHARAT DASI
					LR 130	0.0500	Private	Danga	ABHIJIT SARKAR, JAGANNATH SARKAR, NALINI SARKAR, MAHARANI SARKAR, TISO BALA DASI, CHARKI DASI, GANOBALA DASI, JATOBALA DASI
					LR 131	0.5450	Private	Danga	PARASWARI DASHI, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SADANANDA SARKAR, SALOBALA DASII, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBISWER DEBSHARMA
					LR 132	0.0400	Private	Rasta	THE PRADHAN NO-1 AKCHA GRAM PANCHAYET
					LR 133	0.1750	Private	Danga	KASTURI BALA DASI, GAJENDRA NATH SARKAR, DINESH CHANDRA SARKAR, BHUSURI DASI, CHILAKA DASI, GHERI DESI, NISHIKANTA ROY, SASHIBHUSHAN SARKAR
					LR 197	0.0750	Private	Danga	SWAMI NATH ROY
					LR 198	0.0600	Private	Danga	SWAMI NATH ROY
					LR 200	0.0025	Private	Danga	JAGANNATH SARKAR, NALINI SARKAR, ABHIJIT SARKAR, MAHARANI SARKAR, TISO BALA DASI, CHARKI DASI, GANOBALA DASI, JATOBALA DASI
			(4) JAMINIPARA - 78	140	LR 1	0.0300	Private	Rasta	THE PRADHAN NO-1 AKCHA GRAM PANCHAYET
					LR 2	0.3025	Private	Danga	BHARAT DASI
					LR 3	0.1000	Private	Rasta	THE PRADHAN, AKCHA GRAM PANCHAYET
					LR 4	0.2600	Private	Danga	GAN DEBSHARMA, SHUJI DEBSHARMA, PURAN DEBSHARMA, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBI DEBSHARMA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 5	0.0750	Private	Vita	GAN DEBSHARMA, SHULI DEBSHARMA, PURAN DEBSHARMA, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBI DEBSHARMA
					LR 6	0.0075	Private	Vita	GAN DEBSHARMA, SHULI DEBSHARMA, PURAN DEBSHARMA, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBI DEBSHARMA
					LR 8	0.7800	Private	Danga	GAN DEBSHARMA, SHULI DEBSHARMA, PURAN DEBSHARMA, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBI DEBSHARMA
					LR 9	0.0075	Private	Danga	GAN DEBSHARMA, SHULI DEBSHARMA, PURAN DEBSHARMA, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBI DEBSHARMA
					LR 10	0.0900	Private	Dala	GAN DEBSHARMA, SHULI DEBSHARMA, PURAN DEBSHARMA, YOGESH DEBSHARMA, RADHA DEBSHARMA, SUKUMAR DEBSHARMA, SUBI DEBSHARMA
					LR 11	0.1575	Private	Danga	GANESH SARKAR
					LR 21	0.0475	Private	Vita	ACHAMUDDIN MOHAMMAD
					LR 22	0.0025	Private	Danga	GANESH SARKAR
					LR 23	0.0850	Private	Vita	ACHAMUDDIN MOHAMMAD
					LR 24	0.2700	Private	Danga	ACHAMUDDIN MOHAMMAD, KHARUDDIN AHMED, SHAMBU MOULAA
					LR 26	0.0075	Private	Danga	ACHAMUDDIN MOHAMMAD, KHARUDDIN AHMED
					LR 27	0.3200	Private	Danga	ACHAMUDDIN MOHAMMAD
					LR 33	0.1050	Private	Danga	JAI MUHAMMAD, FAJUR RAHAMAN, NAZRUL ISLAM, KASHEM ALI, MANGLI BEWA, RIJIA KHATUN, SAMUDA KHATUN, MAHMAMUDA KHATUN, NURNEHAR KHATUN, ROSNERA BEGAM, ASHRAF ALI, KANIRUDDIN, KHAYERUDDIN AHMED, FAJILA KHATUN, BASHIRA KHATUN, BIBIRAN BEWA, BELD BIBI, MAYMUNA BEWA, MAHIDUR RAHAMA, MOTIBUR RAHAMAN, MOTIBUR RAHAMAN
					LR 34	0.7500	Private	Danga	KHAGESWAR ROY, TARANI SARKAR, MANTU CHANDRA ROY, NEYAMET ALI, DALU MUHAMMAD
					LR 35	0.4000	Private	Dala	JABANANDA BASAK, SUFFIA KHATUN, WAHED ALI BARGADAR, WAHED ALI, JATINDRA DESI
					LR 76	0.2700	Private	Dala	KHAIRUDDIN AHMED, JOLEKHA KHATUN, TAMIJUDDIN AHMED, TAMINA BEWA, NURBANU BEWA, MAMTAJUDDIN AHMED,
					LR 77	0.1100	Private	Dala	KHAIRUDDIN AHMED, JOLEKHA KHATUN, TAMIJUDDIN AHMED, TAMINA BEWA, NURBANU BEWA, MAMTAJUDDIN AHMED,
					LR 91	0.0025	Private	Danga	AFTAL ALI, ABBAS ALI, FAJUR RAHAMAN, MOTIAR RAHAMAN, HAMED ALI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 92	0.9500	Private	Danga	BELO BIBI, RAFIKUL MOMIN, MAHIDUR RAHAMAN, MOTIBUR RAHAMAN, AMINUL HOQUE
					LR 93	0.4050	Private	Danga	JALU MUHAMMAD, TAIFUR HARAMAN, NAZRUL ISLAM, KASHEM ALI, MANGLI BEWA, RIJIA KHATUN, MAHMUDA KHATUN, MAHMAMUDA KHATUN, NURNEHAR KHATUN, ROSNEARA BAGEM
					LR 94	0.0200	Private	Danga	JOGI NANDA BASAK, SAMSUL ALAM, JAKIR HOSSAIN, JAHANGIR HOSSAIN BARGADAR, SHAMBIHU MUHAMMAD, CHAHALUDDIN
					LR 552	0.0700	Private	Danga	KHAIRUDDIN AHMED
		(5) JOT SUDAM - 79		139, 141	LR 7	0.1150	Private	Danga	MANIJA KHATUN, JAMUNA BIHARI BASAK, JOGANANDA BASAK, JASODA NANDA BASAK, DIPALI RANI BASAK
					LR 64	0.0550	Private	Danga	AISHA KHATUN BIBI, CHALAUDDIN MOLLA, CHINA MUHAMMAD, FAJUR RAHAMAN, WAJINER HASAN
					LR 79	0.0450	Private	Danga	ALAUDDIN AHMED, RAFIKUL AMIN, SAHAJAN ALI BARGADAR, FOL MD, KUL MAHAMAD
					LR 80	0.5400	Private	Danga	ATIMAN NECHHA, CHINA MAHAMAD, TAMINA BAWA, GAZIBUR RAHAMAN, MAJEDAR RAHAMAN, AJJAR RAHAMAN, JALAKHA KHATUN, LOTIKA KHATUN, SHUR MUHAMMAD
					LR 82	0.0425	Private	Danga	ATIMAN NECHHA, CHINA MAHAMAD, TAMINA BAWA, GAZIBUR RAHAMAN, MAJEDAR RAHAMAN, AJJAR RAHAMAN, JALAKHA KHATUN, LOTIKA KHATUN, SHUR MUHAMMAD
					LR 83	0.1000	Private	Danga	AKIM NECHHA, HALIMANNECHHA, GAJIBUR RAHAMAN
					LR 84	0.0550	Private	Danga	GAJIBUR RAHAMAN
					LR 85	0.2500	Private	Danga	JAHURUDDIN SARKAR, NAJADDIN AHMED, PAJIRUDDIN AHAMMAD, MANSUR ALI
					LR 86	0.2075	Private	Danga	SAMBHU MOHAMMAD, NAJMUL ISLAM, ANAMUL HAQUE
					LR 87	0.0700	Private	Danga	KAMINI RANI BASAK
					LR 91	0.0200	Private	Danga	KARIDUL ISLAM
					LR 92	0.0550	Private	Danga	KHARUDDIN AHMED, JOLEKHA KHATUN, TAMAJUDDIN AHMED, TAHAMINA BEWA, NURBANU BEWA, MAMATAJUDDIN AHAMMAD
					LR 93	0.1200	Private	Danga	ASHARAF ALI AHEDA KHATUN, KASHEM ALI, DALU MUHAMMAD, TAIFUR RAHAMAN, TASLIMA KHATUN, NAJRUL ISLAM, SIRASHI BEGAM, NURNEHAR KHATUN, MANGALI BEWA, JASUDA KHATUN, MAHMAMUDA KHATUN, RIJIA KHATUN, ROSNEARA KHATUN, SAMIDA KHATUN, SALUMA KHATUN, SERAJUL ISLAM, HAMIDA KHATUN
					LR 94	0.3850	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK
					LR 95	0.0975	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 96	0.0250	Private	Danga	AABUL HOUSSAIN, NAHYADDIN AHAMMAD, PAJIRUDDIN AHAMMAD, KARSU (FASIUDDIN) MULLA (AHAMMAD), HAMIRUDDIN AHAMMAD
					LR 97	0.1250	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK
					LR 98	0.0100	Private	Danga	ACHHIMUDDIN AHAMMAD
					LR 99	0.1250	Private	Danga	MOMENA KHATUN
					LR 100	0.1600	Private	Danga	ASHARAF ALI, AHEDA KHATUN, KASHEM ALI, DALU MUHAMMAD, TAIHUR RAHAMAN, TASLIMA KHATUN, NAJRUL ISLAM, SIRASHI BEGAM, NURNEHAR KHATUN, MANGALI BEWA, JASUDA KHATUN, MAHAMUDA KHATUN, RIJIA KAHTUN, ROSHENARA KHATUN, SAMIDA KHATUN, SALEMA KHATUN, SERAJUL ISLAM, HAMIDA KHATUN
					LR 101	0.0200	Private	Danga	KHYERDDIN AHAMMAD, JOLEKHA KHATUN, TAMAJUDDIN AHAMMAD, THAMINA BEWA, NURBANU BEWA, MAMTAJUDDIN AHAMMAD
					LR 102	0.1700	Private	Danga	ACHHIMUDDIN AHAMMAD
					LR 103	0.0600	Private	Danga	SAHABUDDIN AHAMMAD
					LR 104	0.1800	Private	Danga	TACHHILIMDDIN AHAMMAD, AREJA KHATUN, FARUJA KHATUN, DHANIA MULLA, NAJIADDIN AHAMMAD, FATEMA, BEWA, PANCHPAD AHAMMAD, MAHRUDDIN AHAMMAD, SAHERBANU NECHHA, REJIA KHATUN, RIJIA KHATUN, LOKMAN ALI, SHARBAN NECHHA, SOLAMAN ALI, HAKIMUDDIN AHAMMAD
					LR 105	0.0525	Private	Danga	KHABIRUDDIN AHAMMAD, CHHABIRUDDIN(PANCHKOR) SARKAR, RAHELA KHATUN, TACHHIRUDDIN SARKAR, NAFURUDDIN AHAMMAD, NAMIRUDDIN AHAMMAD, FIROJA KHATUN, SAHELA KHATUN
					LR 131	0.0500	Private	Rasta	THE PRADHAN, NO-1 AKCHA GRAM PANCHAYET
					LR 173	0.3250	Private	Danga	JAYANTA KUMAR BASAK, JOGANANDA BASAK, JOSADA NANDA BASAK, BARGADAR-JABARUDDIN, JAHARUDDIN
					LR 174	0.1050	Private	Danga	JARIMAN BEWA, SAFIUDDIN AHAMMAD
					LR 175	0.0050	Private	Danga	JOLEKA KHATUN, DULMAN NECHHA, SAFIUDDIN AHAMMAD
					LR 181	0.0950	Private	Danga	KARIDUL ISLAM, MAHASHIL ALI
					LR 182	0.0525	Private	Danga	KARIDUL ISLAM, MAHASHIL ALI
					LR 183	0.1700	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK
					LR 184	0.0700	Private	Danga	JDYGOPAL BASAK
					LR 185	0.1050	Private	Danga	SAKURA KHATUN
					LR 186	0.0025	Private	Vita	JAHURUDDIN AHAMMAD
					LR 194	0.2100	Private	Danga	JAYANTA KUMAR BASAK, JIBAN GOPAL BASAK, TAJIRUDDIN AHAMMAD
					LR 195	0.0450	Private	Danga	TACHHILIMDDIN AHAMMAD, CHAIUDDIN MOJIA, WAJINUR HASAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 196	0.8200	Private	Pukur	TACHHLIMDDIN AHAMMAD, KHABIRUDDIN AHAMMAD, KHAIRUDDIN AHAMMAD, JAYANTA KUMAR BASAK, TAMAJUDDIN AHAMMAD, NAFURUDDIN AHAMMAD, NAMIRUDDIN AHAMMAD, MAMTAJUDDIN AHAMMAD, MAHIDUR RAHAMMEN
					LR 197	0.0175	Private	Danga	NAJADDIN AHAMMAD, PAJRUDDIN AHAMMAD
					LR 198	0.0300	Private	Danga	ABUL HOSSAIN, MAKBUL HOSSAIN, HAMIRUDDIN AHAMMAD BARGADAR- TAJIRUDDIN AHAMMAD
					LR 199	0.0250	Private	Danga	ABUL HOSSAIN, MAKBUL HOSSAIN, HAMIRUDDIN AHAMMAD BARGADAR- TAJIRUDDIN
					LR 202	0.2700	Private	Danga	JAHIRUDDIN AHAMMAD
					LR 203	0.0700	Private	Pukurpar	SHAMBHU MOHAMMAD
					LR 213	0.0550	Private	Danga	JAYANTA KUMAR BASAK, JIBAN GOPAL BASAK, JOGANANDA BASAK, YASHODA NANDA BASAK, MD. SAMSUL, MD. JAKHIR HOSSIAN, MD. JHANGIR ALAM, MASHARO HOSSION, NAJAMUL ISLAM BARGADAR- SAFIRUDDIN MUHAMMAD, JABARUDDIN AHAMMAD
					LR 464	0.8500	Private	Danga	JOY GOPAL BASAK, JAYANTA KUMAR BASAK, JIBAN GOPAL BASAK, YAMUNA BIHARI BASAK, YOGANANDA BASAK, YASHODA NANDA BASAK
					LR 479	0.4000	Private	Danga	JAYANTA KUMAR BASAK, JOGANANDA BASAK, JOSADA NANDA BASAK BARGADAR- PRAFULLA BASAK
					LR 481	0.2200	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK, YAMUNA BIHARI BASAK
					LR 482	0.0100	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK, JIBAN GOPAL BASAK, YAMUNA BIHARI BASAK, JAYANTA KR BASAK
					LR 484	0.0150	Private	Danga	JAYANTA KUMAR BASAK, JOGANAND BASAK, JASODA NANDA BASAK BARGADAR- JABARUDDIN
					LR 485	0.0175	Private	Danga	JIBAN GOPAL BASAK, FAJUR RAHAMAN, TAJIRUDDIN AHAMMAD, SULAKHA PARBIN BARGADAR- CHABIRUDDIN
					LR 505	0.6000	Private	Dala	JIBAN GOPAL BASAK, YAMUNA BIHARI BASAK, MIRARANI BASAK
		(6) DHARMA DANGA - 80		142	LR 270	0.0650	Private	Danga	PICHILA PUKUR MASZID WAKF PRESENTED BY MOTOWALI SAMSUDDIN AHAMMAD
					LR 271	0.1700	Private	Danga	ALAUDDIN MIYA, RAFIKUL AMIN, MANSHUR ALI BARGADAR- SAMBHU MIYA
					LR 273	0.1100	Private	Danga	RAFIKUL AMIN, HASAN ALI
					LR 274	0.1750	Private	Danga	MITHU MIYA
					LR 275	0.3675	Private	Danga	SRIRAM BHATTACHARYA, HARA BHUSHAN BHATTACHARYA BARGADAR- SAMBHU MIYA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 276	0.1350	Private	Danga	YAMUNA BIHARI BASAK, AIMUDDIN AHAMMAD, ANARUL ISLAM, ABDUL SATTAR, AMINUL ISLAM BARGADAR- TASIMUDDIN
					LR 277	0.0725	Private	Dala	NAFIRUDDIN AHAMED, FIROJA BEGAM, SAHELA KHATUN, RABIUL ALAM
					LR 281	0.0800	Private	Danga	AMRAN ALAM, JABA NANDA DAS, RAFIQUEL, BARGADAR- DABIRUDDIN, NURALAM, IMTAJ ALAM
					LR 282	0.1500	Private	Danga	TAMAJUDDIN AHAMMAD, MAFIJUDDIN
					LR 283	0.6250	Private	Danga	JOYGOPAL BASAK, RABEYA BEGUM, LILI AKTHAR
					LR 284	0.0025	Private	Danga	JABANANDA DAS
					LR 285	0.3450	Private	Danga	SAJEDAR RAHAMAN, ANJUARA BEGUM, ASURA KHATUN, SAMUDA BEWA, OFEJA KHATUN BIBI, KAFILUDDIN SARKAR, JAINUL HAQUE, ANSAR ALI, ANISUR RAHAMAN, RAMJAN ALI, SARIFUDDIN ALI, ARMINA BEGUM
					LR 286	0.1675	Private	Danga	ABUL HUSSAIN
					LR 287	0.1700	Private	Danga	NURUL ISLAM, MAHIDUR RAHAMAN
					LR 288	0.0925	Private	Danga	ABUL HUSSAIN
					LR 289	0.1800	Private	Danga	SRIRAM BHATTACHARYA, HARA BHUSHAN BHATTACHARYA BARGADAR- SAMBHU MUHAMMAD
					LR 290	0.0200	Private	Dala	JOYNUL HAQUE, TASIRUDDIN MULLA, PANCH KORI SARKAR
					LR 371	0.0100	Private	Dala	JATEN DEBSHARMA, CHIMU DEBSHARMA
					LR 372	0.2500	Private	Danga	TAMAJUDDIN AHAMMAD, MAFIJUDDIN
					LR 373	0.0900	Private	Danga	KASHEM ALI, JOLU MUHAMMAD, TAIFUR RAHAMAN, NAJRUL ISLAM, NURNAHAR KHATUN, MANGALI BEWA, MASUDA KHATUN, MAHAMUDA KHATUN, RAZYA KHATUN, ROSHNEAJ KHATUN
					LR 374	0.2550	Private	Danga	BARSAD ALI, MEHEBUB ALAM, MD. KANSHAR ALI, MD. RUHUL AMIN
					LR 384	0.1950	Private	Danga	TAMAJUDDIN AHAMMAD, MAFIJUDDIN
					LR 385	0.1100	Private	Danga	TAMAJUDDIN AHAMMAD, MAFIJUDDIN
					LR 386	0.3350	Private	Danga	JHARU MULLA, TAMAJUDDIN AHAMMAD, MAFIJUDDIN
					LR 387	0.1450	Private	Dala	AHELA KHATUN, ABIRUDDIN AHAMMAD, TASARUDDIN MULLA, NAFIRUDDIN AHAMMAD, NAMIRUDDIN AHAMMAD, PANCHKOR SARKAR, FIRDAJA BEGUM, SAHERA KHATUN
					LR 408	0.7600	Private	Danga	KAMESH ALI, JUL MAHAMMAD, TAIFUR RAHAMAN, NAJRUL ISLAM, NUR NAHAR KHATUN, MANGULI BEWA, MASUDA KHATUN, MAHAMUDA KHATUN, REZYA KHATUN, ROSENYAJ KHATUN, BARGADAR- KACHI MULLA, KUDI MULLA, KADI MULLA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 409	0.0650	Private	Danga	SAJADAR RAHAMAN, ANGUA BEGUM, ASURA KHATUN, SAMUDA KHATUN, OFEJA KHATUN, BIBI JOYNU HAQUE, ANSAR ALI, ANISUR RAHAMAN, RAMJAN ALI, SARIFUDDIN AHAMMAD, ARMINA BEGUM
					LR 411	0.4800	Private	Danga	TACHHARUDDIN MULLA, PANCHKOR SARKAR, MOMENA KHATUN
					LR 412	0.4250	Private	Danga	KHAIRUDDIN, JOLEKHA KHATUN, TAMIJUDIN MOLLA, TAHAMINA BEWA, NURBANI BEWA, MUMTAJUDDIN AHAMMAD
					LR 416	0.0450	Private	Danga	ABAIRUDDIN AHAMMAD, NAFIRUDDIN AHAMMAD, NAMIRUDDIN AHAMMAD, FIROJA BEGUM, RAHELA KHATUN, SAHELA KHATUN
					LR 417	0.4000	Private	Danga	BHULAN BALA DESHI, TABUDDIN AHAMMAD, BARGADAR, TAMIJUDIN, TABUDDIN AHAMMAD
					LR 418	0.3200	Private	Danga	TAICHHIRUDDIN MULLA, PANCHKOR SARKAR, RABIDUL ALAM
					LR 419	0.0525	Private	Danga	NURUL ISLAM, MAHIDUR RAHAMAN, NASHIR KHATUN
					LR 432	0.1950	Private	Danga	RAHALA KHATUN, SARIFUDDIN AHAMMAD, ARMINA BEGUM, ANISUR RAHAMAN, RAMJAN ALI, PANCHKOR SARKAR, MOMENA KHATUN, NAMURADDIN AHAMMAD, NAFIRUDDIN AHAMMAD, KHADURADDIN AHAMMAD, FIROJA KHATUN, SAHELA KHATUN, SAJEDAR RAHAMAN, ANJURA BEGUM, ASURA KHATUN, SAMUDA BEWA, OFEJA KHATUN (BIBI), AFILUDDIN SARKAR, JAINUL HAQUE, TACHHARUDDIN MULLA, ANSAR ALI
					LR 433	0.3250	Private	Danga	SHAJAHAN MIYA, SAFIRUDDIN AHAMMAD, BARGADAR, SAMADHU DESHI
					LR 434	0.1700	Private	Danga	ALAUDDIN MIYA, RAFIKUL AMIN, SAHAYED ALI, BARGADAR, PURAMUDDIN MULLA, PURAMUDDIN MULLA, KIRAMUDDIN MULLA
					LR 440	0.4100	Private	Danga	JADU GOPAL DAS, AMIT KUMAR ROY, BARGADAR, ACHHIMUDDIN MULLA, KINA MULLA
					LR 514	0.0600	Private	Danga	SHAMBU MULLA
					LR 515	0.3100	Private	Dala	USMAN ALI, ALIBUDDIN AHAMMAD, ARUJA KHATUN, SERAJUDDIN AHAMMAD, ABUL KALAM, MAJAHAR ALI
					LR 516	0.1700	Private	Danga	MAHAMUDA KHATUN
					LR 518	0.0025	Private	Danga	FATEMA BEWA, BARGADAR, MOTIBUR RAHAMAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 525	0.3000	Private	Danga	AHELA KHATUN, ABIRUDDIN AHAMMAD, TASARUDDIN MULLA, NAFIRUDDIN AHAMMAD, NAMIRUDDIN AHAMMAD, PANCHKOR SARKAR, FIROJA BEGUM, SAHELA KHATUN
					LR 526	0.4050	Private	Danga	SAJEDAR RAHAMAN, ANJUARA BEGUM, ASURA KHATUN, SAMUDA BEWA, OFEJA KHATUN (BIBI), KAFILUDDIN SARKAR, JAINUL HAQUE, ANSAR ALI, ANISUR RAHAMAN, RAMJAN ALI, SARIFUDDIN ALI, PANCHOR SARKAR, MOMENA KHATUN, NAFERUDDIN AHAMMAD, NAMIRUDDIN AHAMMAD, KHABIRUDDIN AHAMMAD, FIROJA KHATUN, SAHELA KHATON, REHALA KHATUN, SAFIRUDDIN AHAMMAD, ARMINA BEGUM
					LR 544	0.0700	Private	Rasta	THE PRADHAN NO- 1 DHARMA DANGA GRAM PANCHAYET
			(7) GOALGAON - 75	7	RS 823	0.0300	Private	Data	TAMIJUDDIN AHAMMAD, MDFUJDDIN AHAMMAD
					RS 832	0.5600	Private	Data	FARIDULL ISLAM, MOHASIL ALI, MANIKUL ISLAM, HAFIJUR RAHAMAN, MOSIUR RAHAMAN BARGADAR - MAHARU MULLA
					RS 833	0.3500	Private	Data	CHAHALUDDIN AHAMMAD, AKALU MUHAMMAD, BATHIRAN BEWA, CAYASUDDIN AHAMMAD, FAIJUR RAHAMAN
					RS 834	0.0300	Private	Data	CHANU MULLA
					RS 835	0.1225	Private	Data	CHANU MULLA, MILIMAN BIBI
					RS 841	0.0375	Private	Data	YUSUF ALI, CHEYARUDDIN MULLA, PATU MUHAMMAD, BAHARUDDIN MUHAMMAD
					RS 842	0.1850	Private	Data	SAMBHU MULLA
					RS 843	0.3900	Private	Data	MAKSED ALI
					RS 844	0.2100	Private	Data	ABUJDDIN ALI
					RS 845	0.0675	Private	Data	TAMIJUDDIN AHAMMAD, MOFIJUDDIN AHAMMAD
					RS 846	0.3900	Private	Data	JOLALA BEWA, DHAKANI BEWA, TOSIRUN BEWA, TAMIJUDDIN AHAMMAD, NANDURI BEWA, FOJILA KHATUN, MAFIJUDDIN AHAMMAD
					RS 847	0.2600	Private	Data	TAMIJUDDIN AHAMMAD, MOTIJUDDIN AHAMMAD
					RS 848	0.2100	Private	Data	TAMIJUDDIN AHAMMAD, MOTIJUDDIN AHAMMAD
					RS 849	0.7200	Private	Data	HÉPAJUDDIN AHAMMOD, AMJAD ALI, SAIFUR RAHAMAN, OHEDA BEWA
					RS 850	0.1800	Private	Data	DABIR MUHAMMAD, FAJILA KHATUN, DHAJRUDDIN AHAMMAD
					RS 851	1.6200	Private	Data	AFIRUDDIN, RABIA BEGUM, IJLAKHATARA AHAMMAD, MDKSHED ALI
					RS 852	0.8350	Private	Data	ANISHUR RAHAMAN, NAJIRUDDIN AHAMMAD, PAJIRUDDIN AHAMMAD, ABDUL AZIZ
					RS 853	0.8300	Private	Data	ANSHUR RAHAMAN, CHANKU MUHAMMAD, PAJIRUDDIN MUHAMMAD, ACHHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD, CHHANWARA BEGUM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 854	0.2700	Private	Dala	FAIJAK MULLA, AJEDDIN MULLA, RATALI BIBI, DHANI MUHAMMAD
					RS 855	0.2900	Private	Dala	DHAJRUDDIN AHAMMAD
					RS 856	0.2300	Private	Dala	ACHHAMAN BIBI, BANI MONACHHA, BAJIRUDDIN AHAMMAD, MOKSHID ALI
					RS 857	0.1750	Private	Dala	PRADIP BASAK
					RS 858	1.0100	Private	Dala	NAKIBUDDIN MULLA, KHAJIRUDDIN AHAMMAD, FUL MUHAMMAD, NAJURUDDIN AHAMMAD, NACHHANA BIBI, DULO BIBI, MAHEJA BEWA
					RS 859	0.5200	Private	Dala	CHAHALUDINN AHAMMAD, AKALU MUHAMMAD, BATHIRAN BEWA
					RS 860	0.3550	Private	Dala	KINU MUHAMMAD
					RS 861	0.4400	Private	Dala	JOLALA BEWA, DHAKANI BEWA, TOSIRUN BEWA, TAMIJUDDIN AHAMMAD, NANDURI BEWA, FOJILA KHATUN, MAFIJUDDIN AHAMMAD
					RS 862	0.7900	Private	Dala	DABIR MUHAMMAD, BITHARU MULLA, AFIJUDDIN
					RS 863	0.3200	Private	Dala	USMAN ALI, ALIBUDDIN AHAMMAD, ARUJA KHATUN, SARIFADDIN AHAMMAD, AMINUL ISLAM
					RS 864	0.2750	Private	Dala	UJARIDDIN AHAMMAD, KASIRUDDIN AHAMMAD, PAJIRUDDIN AHAMMAD
					RS 865	0.0800	Private	Dala	USMAN ALI, ALIBUDDIN AHAMMAD, ARUJA KHATUN, KHABIRUDDIN AHAMMAD
					RS 866	0.3400	Private	Dala	CHENKU MAHAMMOD, ASRAF ALI, MAJID ALI, AHIDUR RAHAMAN, ANARUL HOSSOIN, HAKIMUDDIN AHAMMOD
					RS 879	0.0200	Private	Dala	NURECHA KHATUN, MACHELUDDIN KHATUN, MAJEDA KHATUN
					RS 880	2.0950	Private	Dala	TARABUDDIN AHAMMOD, DAITYA SARKAR, NEYAMUDDIN AHAMMOD, NIRANJANI BALA SARKA, ASHIDAR RAHAMAN, HARE KRISHNA SAHA, KALA CHAND SAHA, MANARANJAN SAHA
					RS 881	0.4150	Private	Dala	SAFIRUDDIN AHAMMOD, TARABUDDIN AHAMMOD, NIYAMUDDIN AHAMMOD
					RS 882	0.2200	Private	Dala	NURECHA KHATUN, MACHELUDDIN KHATUN, MAJEDA KHATUN
					RS 883	0.1125	Private	Dala	SAFIRUDDIN AHAMMOD, ABDUL GAFAR BARGADAR, BOCHHAMUDDIN, MONIJUDDIN, PACHHAMUDDIN
					RS 885	0.0075	Private	Dala	SARIFUDDIN AHAMMOD, TARABUDDIN AHAMMOD, NIYAMUDDIN AHAMMOD
					RS 886	0.8250	Private	Dala	GRISH CHANDRA MAHANTO
					RS 887	1.4800	Private	Dala	AMAN SARKAR, BALI KANTA DESHI
					RS 888	0.4700	Private	Dala	ATBALA DASI, GUPI DEBSHARMA, DAYAL DEBSHARMA, PAHAL DEBSHARMA, SOHAN DEBSHARMA, TULARAM SARKAR, SERU SARKAR
					RS 889	0.5100	Private	Dala	MACHHAMUDDIN AHAMMOD
					RS 890	0.0500	Private	Dala	HEMANTA SARKAR
					RS 891	0.6400	Private	Dala	AMAN SARKAR, AMAL DESHI, UPEN SARKAR, BIMLA DASI, ROHITA DASI, SUPEN SARKAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 892	0.6700	Private	Dala	BHUPEN DESHI, CHAPU RANI DASHI, TITAN DASHI, DARPAN DESHI, KUMARISH CHANDRA RDY
					RS 913	0.2000	Private	Dala	BAJURADDIN MULLA, SAHARUDDIN
					RS 914	0.5500	Private	Dala	OSMAN ALI, ALIBAUDDIN AHMED, ARUJA KHATUN, DHAKU MUHAMMAD
					RS 915	0.0450	Private	Dala	OSMAN ALI, ALIBAUDDIN AHMED, ARUJA KHATUN, KHABIRUDDIN AHAMMAD
					RS 918	0.0200	Private	Dala	SAFURA KHATUN BARGADAR- BHANU SINGH
					RS 1564	0.1500	Private	Danga	DAGDHAN DESHI, PARESH DESHI
					RS 1587	0.0900	Private	Dala	OSMAN ALI, ALIBAUDDIN AHMED, ARUJA KHATUN, DHAKU MUHAMMAD
					RS 1665	0.3900	Private	Dala	AKIMAN NECHHA, JALIMAN CECHHA
			18) ARAJI KASBA - 74	138	RS 29	0.0350	Private	Dala	FAJUDDIN AHAMED
					RS 38	0.0200	Private	Dala	BISHU MUHAMMAD
					RS 40	0.2650	Private	Dala	KASIMUDDIN MULLA, CHHAIRUDDIN AHAMMAD, SAHALUDDIN AHAMMAD, BAHARUDDIN AHAMMAD, KHABIBUR RAHAMAN BARGADAR- SUKU MULLA
					RS 41	0.0050	Private	Dala	ASHAMUDDIN BARGADAR- SUKU MULLA
					RS 42	0.1350	Private	Dala	TAHER MULLA
					RS 44	0.3000	Private	Dala	ASIMUDDIN AHAMMAD, TASLIMA KHATUN, MAKBUL HOSSAIN
					RS 45	2.5100	Private	Dala	JAMUNA BIHARI BASAK, JASHODA BASAK BARGADAR- KHAPAT MULLA
					RS 46	0.4300	Private	Dala	NAIMUDDIN AHAMMAD, TASLIMA KHATUN
					RS 47	0.0300	Private	Dala	NAIMUDDIN AHAMMAD, TASLIMA KHATUN
					RS 48	0.7875	Private	Dala	OFEJA KHATUN, JOYNUL HAQUE, TASIRUDDIN SARKAR, ANISUR RAHAMAN, ANSHAR ALI, RAMJAN ALI, PANCHKODI SARKAR, MOMINA KHATUN BIBI, SARIFUDDIN, SAMSUDDIN SARKAR
					RS 50	0.4350	Private	Dala	LAL MAHAMMAD
					RS 51	1.2400	Private	Dala	KHAIRUDDIN, TAMINA BEWA, NAKIMUDDIN MULLA, NAJIRUDDIN, FAJUDDIN AHAMMAD, FUL MUHAMMAD, MAJURADDIN, MAINUDDIN, MARA BEWA
					RS 52	0.3800	Private	Dala	ASTULIA MULLA, AKALU MULLA, ATABAR SARKAR, CHALUDDIN MULLA
					RS 53	0.9200	Private	Dala	PAJIRUDDIN AHAMMAD, TAJUDDIN AHAMMAD, SAHARBANU BEGUM, JAHERA BEGUM
					RS 54	0.3600	Private	Dala	AMINA KHATUN, ECHHAMUDDIN AHAMMAD
					RS 55	0.0525	Private	Dala	JAMUNA BIHARI BASAK, AKIRUDDIN AHAMMAD, MAJIBUR RAHAMAN, SAIFUR RAHAMAN, MOTI KUL ISLAM, RABIUL ISLAM BARGADAR- JIYARU MULLA, JIYAR MULLA, REYAJUDDIN MULLA
					RS 56	0.0200	Private	Dala	BAJIRUDDIN AHAMMAD
					RS 57	0.3400	Private	Dala	PAJIRUDDIN AHAMMAD, LATIFA KHATUN, JAHERA BEGUM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 58	0.0600	Private	Dala	JAMILA KHATUN
					RS 59	0.2300	Private	Dala	JADU GOPAL BASHAK
					RS 68	0.3450	Private	Dala	MATABBAR MULLA, SAMU MULLA
					RS 69	0.2050	Private	Dala	TETALINNECHHA BIBI (KHATUN)
					RS 71	0.0225	Private	Dala	RAM BHATTACHARYA BARGADAR- SAIFUR RAHAMAN
					RS 108	0.0450	Private	Dala	BALARAM SARKAR, RAJANI KANTA SARKAR
					RS 109	1.3025	Private	Dala	RAJENDRA NATH SARKAR, GHUTU CHANDRA SARKAR, HEM CHANDRA SARKAR, MANTU CHANDRA SARKAR
					RS 110	0.4400	Private	Dala	BALARAM SARKAR, RAJANI KANTA SARKAR
					RS 299	0.0500	Private	Dala	KARTIK CHANDRA SAHA
					RS 301	0.1000	Private	Danga	KALYA BALA HALDAR, ANJALI DAS, SUBANDU DAS, SULACHANA DAS, DIBENDU DAS, JADAV CHANDRA DAS, SURESH CHANDRA DAS
					RS 305	0.6900	Private	Dala	ASHTA SARKAR, AHITA DESHI, UPEN DESHI, KRISHNA SARKAR, DARPAN DESHI, NARAYAN CHANDRA SARKAR, BIVISHAN SARKAR, BHUPAL CHANDRA SARKAR, BHUPEN CHANDRA SARKAR, SUPEN DESHI, KUMARESH ROY, HIRA JHA, BIPLAB SARKAR
					RS 306	0.0075	Private	Dala	ASHTA SARKAR, AHITA DESHI, ADHAIN DESHI, UPEN DESHI, KRISHNA SARKAR, DARPAN DESHI, NARAYAN CHANDRA SARKAR, BIVISHAN SARKAR, BHUPAL CHANDRA SARKAR, BIMLA DESHI, SUPEN DESHI, HEMANTA SARKAR, KUMARESH ROY
					RS 307	0.3000	Private	Bastu	AMAN CHANDRA SARKAR, GAMANTA CHANDRA SARKAR, DIGENDRA NATH SARKAR, HIREN DEBESHARMA, BHIMLOLI SARKAR, MOHAN LAL SARKAR, AJAY BISWAS, RAJU BISWAS
					RS 308	0.0400	Private	Vita	BHABAK DESHI, AJAY BISWAS, RAJU BISWAS
					RS 309	0.7900	Private	Dala	DAGDHAN ROY, NARESH CHANDRA DEBESHARMA
					RS 310	0.0500	Private	Doba	DAGDHAN ROY, NARESH CHANDRA DEBESHARMA
					RS 312	0.0350	Private	Dala	KHOKARAM SARKAR
					RS 313	0.1600	Private	Dala	ASHTA SARKAR, SAILEN SARKAR, RANJIT SARKAR
					RS 314	0.1350	Private	Dala	RATAN CHANDRA SARKAR
					RS 315	0.9300	Private	Dala	BALARAM SARKAR, RAJANIKANTA SARKAR
					RS 316	1.1100	Private	Dala	BALARAM SARKAR, RAJANIKANTA SARKAR
					RS 317	0.1800	Private	Danga	AJAY SARKAR
					RS 318	0.0600	Private	Dala	RATAN CHANDRA SARKAR
					RS 319	1.5000	Private	Dala	ASHTA SARKAR, AHITA DESHI, UPEN DESHI, KRISHNA SARKAR, DARPAN DESHI, NARAYAN CHANDRA SARKAR, BIVISHAN SARKAR, BHUPAL CHANDRA SARKAR, BHUPEN CHANDRA SARKAR, BIMLA DESHI, SUPEN DESHI, KUMARESH ROY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 320	1 9150	Private	Dala	PRANTOSH DEBSHARMA, MANGAL CHANDRA BHOWMICK, MOTILAL BHOWMICK, JITENDRANATH BHOWMICK, BIPAD CHANDRA BHOWMICK
					RS 321	0.6000	Private	Dala	NIRESH CHANDRA SARKAR, MANABENDRA SARKAR BARGADAR- KEKARU SARKAR
					RS 322	0.7200	Private	Dala	TARUNKANIT SARKAR, ARUNKANTI SARKAR
					RS 323	0.7200	Private	Dala	TARUNKANIT SARKAR, ARUNKANTI SARKAR BARGADAR- MASMAT ALI
					RS 324	0.1250	Private	Dala	KHERAJUDDIN AHAMMAD, MRINAL KANTI SARKAR, ARUNKANTI SARKAR
					RS 325	0.5900	Private	Dala	MRINAL KANTI SARKAR, TAJ SARKAR
					RS 326	0.3800	Private	Dala	BHABAK DESHI
					RS 381	0.1350	Private	Bastu	BHABAK DESHI, KAMAL SARKAR
					RS 469	0.7450	Private	Dala	ASHABALA DAS, SHITAL DESHI, MANABENDRA SARKAR
					RS 480	0.0475	Private	Dala	AJIMUDDIN SARKAR
					RS 501	0.0700	Private	Dala	BALIKANTA DESHI
	(2) BASOIL		(1) KUSAMANDI - 70	137	RS 1001	0.0900	Private	Nayanjali	ZILA PARISHAD, DAKSHAIN DINAJPUR
					RS 1002	0.0800	Private	Rasta	HABIJEDDIN MULLA, NUR MATI ALI
					RS 1003	0.0600	Private	Rasta	ZILA PARISHAD, DAKSHAIN DINAJPUR
					RS 1059	0.1400	Private	Danga	TULA SARKAR, SHERU SARKAR
					RS 1063	0.1450	Private	Dala	SADARI BEWA, PREMDA BALA, SUMITA BALA, MENAKA BALA, KAMALA BALA, BHUPENDRA DESHI, NIRODA DAS, NARAYAN DESHI, BHUPAL DESHI, KRISHNA DESHI, BAINABAL DAS, ASITA SARKAR, SHAILAN SARKAR, RANJIT SARKAR
					RS 1064	0.1100	Private	Dala	ASHITA SARKAR, SHENAIN SARKAR, RANJIT SARKAR
					RS 1065	0.0800	Private	Dala	ASHATA SARKAR, HEMANTA SARKAR, SHAINEN SARKAR, RANJIT SARKAR
					RS 1066	0.0100	Private	Rasta	THE PRADHAN NO- 4 ANCHAL PANCHAYET
					RS 1067	0.3300	Private	Danga	NIRODA DAS, NARAYAN DESHI, BHUPAL DESHI, KRISHANA DESHI, BAINA BALA DESHI
					RS 1069	0.2000	Private	Vita	BIJAY SARKAR, AKHAIL SARKAR, DHANESWAR SARKAR, DHANANJAY SARKAR
					RS 1070	0.0100	Private	Vita	BHUPAL DESHI, KRISHANA DESHI, DAINABALKA DESHI, ASHATA SARKAR, HEMANTA SARKAR, SHAILAN SARKAR, RANJIT SARKAR, BHUPEN SARKAR, SABITRY SARKAR, SADARI BEWA, PREMDA BALA, SUMITA BALA, MENAKA BALA, KAMALI BALA, KUMARISH CHANDRA ROY, BHURENDRA DESHI, NIRODA DESHI, NARAYAN DESHI
					RS 1071	0.2500	Private	Bastu	BATASHU DESHI, RAMCHANDRA SHIL, SOMNATH SARKAR, SHYAM LAL DESHI, NUNALU CHANDEK SARKAR BARGADAR- KOKAR DESHI, FAKARU DESHI, KEKARU DESHI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 1076	0.0025	Private	Bastu	JATINDRA DESHI, RAMCHANDRA SHIL
					RS 1078	0.0775	Private	Bastu	BATASHU DESHI, HULASHU DESHI, SOMNATH DESHI, BUDHA BALA DESHI
					RS 1081	0.1700	Private	Dala	ARCHANA RANI PAL, HEMCHANDRA SARKAR
					RS 1082	0.1600	Private	Dala	HEMCHANDRA SARKAR
					RS 1083	0.1900	Private	Dala	BALARAM SARKAR, RAJANI KANTA DESHI
					RS 1085	0.0100	Private	Dala	BATASHU DESHI, HULASHU DESHI, SOMNATH DESHI, BUDHA BALA DESHI
					RS 1091	0.0050	Private	Dala	BATASHU DESHI, SOMNATH DESHI, NUNALU CHANDAK SARKAR
					RS 1115	0.0175	Private	Bastu	DHANI RAM DESHI, ADESHWAR DESHI
					RS 1119	0.0050	Private	Bastu	DHULESH CHANDRA ROY
					RS 1121	0.0150	Private	Bastu	BHABAK DESHI
					RS 1122	0.0650	Private	Bastu	PRIYANATH SARKAR
					RS 1123	0.0700	Private	Vita	DHULESH CHANDRA ROY
					RS 1124	0.0250	Private	Danga	KEKARU ROY
					RS 1125	0.0600	Private	Bastu	KANESH SARKAR, KEKARU ROY
					RS 1126	0.0550	Private	Bastu	KEKARU ROY
					RS 1127	0.0900	Private	Bastu	KANESH SARKAR, KEKARU ROY
					RS 1128	0.0050	Private	Pukur	KEKARU ROY
					RS 1130	0.0125	Private	Bastu	BATASHU DESHI, HULASHU DESHI, SOMNATH DESHI, BUDHA BALA DESHI
					RS 1143	0.0125	Private	Danga	TARUN KUMAR DAS
					RS 1144	0.0825	Private	Dala	DHANI RAM DESHI, ADESHWAR DESHI, DHULESH CHANDRA ROY, BHULU CHANDRA SARKAR BARGADAR- TEPU DESHI
					RS 1145	0.0250	Private	Danga	KEKARU ROY
					RS 1146	0.0800	Private	Danga	KEKARU ROY
					RS 1147	0.0700	Private	Danga	KEKARU ROY, DHULESH CHANDRA ROY
					RS 1148	0.1700	Private	Danga	KANESH CHANDRA SARKAR, DHULESH CHANDRA ROY
					RS 1149	0.1250	Private	Danga	DHULESH CHANDRA ROY
					RS 1150	0.0025	Private	Danga	KEKARU ROY, SUNIL CHANDRA ROY BARGADAR- KEKARU DESHI
					RS 1152	0.0650	Private	Danga	KEKARU ROY
					RS 1153	0.1450	Private	Bastu	KANESH CHANDRA SARKAR, KEKARU ROY, JAGANNATH SARKAR, JITENDRA NATH SARKAR, BAIDYANATHSARKAR BARGADAR- ADHISHWAR DESHI
					RS 1157	0.1850	Private	Danga	KANESH CHANDRA SARKAR
					RS 1158	0.2875	Private	Dala	BULESH CHANDRA ROY
					RS 1159	0.1650	Private	Bastu	DHANI RAM DESHI, ADESHWAR DESHI
					RS 1160	0.0800	Private	Dala	DHANI RAM DESHI, ADESHWAR DESHI
					RS 1161	0.7500	Private	Danga	ANOKA BALA SARKAR
					RS 1162	0.0650	Private	Danga	JINDU BHUSHAN CHOWDHURY, KANESH SARKAR, KEKARU ROY, NIRESH CHANDRA SARKAR, BATSHU DESHI, BABU CHANDRA SARKAR, RAMSAGAR SARKAR, SHYAM LAL DESHI, NULANU CHANDRA SARKAR, NIRESH SARKAR BARGADAR- KUMAN DESHI, JUMAN DESHI, HUJAN DESHI, DUMAN DESHI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 1260	0.0025	Private	Data	BHABAK DESHI
					RS 1261	0.2550	Private	Data	DHULESH CHANDRA ROY, BHULU CHANDRA SARKAR
					RS 1263	0.1450	Private	Data	FARMAN ALI
					RS 1264	0.2750	Private	Data	JALEKHA KHATUN, MAHIDUR RAHAMAN
					RS 1265	0.1050	Private	Data	KEKARU ROY
					RS 1266	0.0600	Private	Data	OBABDUR RAHAMAN, MAHIDUR RAHAMAN
					RS 1269	0.0050	Private	Data	KHERAJUDDIN MULLA, KULESH CHANDRA SARKAR
					RS 1270	0.2650	Private	Danga	AHELA KHATUN, PATALI BIBI
					RS 1271	0.1900	Private	Data	CHHAHURA BEGUM
					RS 1272	0.2500	Private	Data	AKIMUDDIN AHAMMAD
					RS 1273	0.1700	Private	Data	KANDURA MULLA, KURBAN ALI, GHUTU MULLA, JANAB ALI, JABED ALI, JOHAD ALI, JEARUDDIN AHAMMAD, BATU MULLA, RAMJAN ALI
					RS 1275	0.0300	Private	Data	CHENU MAHAMMAD
					RS 1271	0.0175	Private	Data	TULIMANNESA, NAJRUL ISLAM
					RS 1272	0.2600	Private	Data	GOFARADDIN
					RS 1273	0.1250	Private	Data	MAYDANNESA, MONIRA KHATUN, MEHARANNESA, MAJEDAR RAHAMAN
					RS 1274	0.1550	Private	Data	JAMIRUDDIN AHAMMAD, NOTU MULLA, PAN'HKOR MULLA, MAYEFFUR RAHAMAN, TAI'FUR RAHAMAN
					RS 1275	0.1000	Private	Data	ACHHA KHATUN, HABUDDIN AHAMMAD
					RS 1276	0.0100	Private	Data	NAIMA KHATUN, SARIFADDIN
					RS 1279	0.3700	Private	Data	BHABAK DESHI
					RS 1280	0.1350	Private	Data	NEGAR SULTANA
					RS 1291	0.0100	Private	Data	ALI MAHAMMAD, BHUDA MAHALAT
					RS 1292	0.1550	Private	Data	KARIMANNESA, MAJILA MAHAMMAD, SEKERNNESA, PRADIP RANI MANDAL
					RS 1293	0.4100	Private	Data	SANU MAHAMMAD
					RS 1294	0.3150	Private	Data	NURUL ISLAM
					RS 1296	0.0025	Private	Data	ABDUL MAZID, BEYAJUDDIN
					RS 1297	0.5200	Private	Data	ANSHAR ALI, BAHARUDDIN AHAMMAD, RAISUDDIN AHAMMAD, SAHAHUDDIN AHAMMAD
					RS 1298	0.0200	Private	Data	TASIRUDDIN, TASILUDDIN, TETLI BEWA, KHATHA KHATUN, KHABIRUDDIN AHAMMAD, RASNEYARA KHATUN, NAJMANNESA
					RS 1401	0.0125	Private	Data	AKALU MAHAMMAD
					RS 1428	0.1200	Private	Data	TASIRUDDIN, TASILUDDIN, TETLI BEWA, KHATHA KHATUN, KHABIRUDDIN AHAMMAD, NAJMANNESA
					RS 1430	0.0025	Private	Data	RAJITA DASI, UPEN DESHI, SUPEN DESHI, BIMALA DASI, JAGANNATH SARKAR, JIBAN BASAK, ADARI SARKAR
					RS 1431	0.1750	Private	Data	TARABUDDIN, BAHARUDDIN AHAMMAD
					RS 1432	0.1500	Private	Data	TARABUDDIN, BAHARUDDIN AHAMMAD
					RS 1433	0.1175	Private	Data	FAYJA KHATUN, ABDUL BASEED HASIRAN BIBI, HINU MIYA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 1887	0.0325	Private	Bastu	BATASU DESHI, HULASU DESHI, SOMNATHI DESHI, BUDHU BALA DESHI
					RS 1893	0.1450	Private	Dala	BIHULU CHANDRA SARKAR BARGADAR- SUREN DESHI
					RS 1908	0.0300	Private	Dala	NAIMA KHATUN, SARIFADDIN
			(2) KASBA - 71	11	RS 2262	0.1425	Private	Pukurpur	THE PRADHAN, NO-1 KUSMANDI GRAM PANCHAYET FOR ZAM-E-MASJID
					RS 2271	0.0100	Private	Dala	NAJRUL ISLAM, MOK FAR HOSSAIN, SAMEDUR RAHAMAN, HAIRAT ALI
					RS 2272	0.2700	Private	Dala	PANCHKOR MULLA, DELWARA BEGUM
					RS 2273	0.1800	Private	Dala	KAMALUDDIN AHAMMAD, SAJRUDDIN AHAMMAD, MAJIFUR RAHAMAN
					RS 2274	0.0750	Private	Dala	GABANU SARKAR, MAHURA KHATUN
					RS 2275	0.0125	Private	Dala	IBHARIM, YAKUB ALI, KANDARI BIBI, KHABIRUDDIN AHAMMAD, TASALIMUDDIN AHAMMAD, TASRUDDIN AHAMMAD, TETLI BEWA, NAHMINNESA, NAHRUDDIN AHAMMAD
					RS 2276	0.1450	Private	Danga	ACHHIMUDDIN, TORA KHATUN, NABIMAN BIBI, FUL MUHAMMAD, TAFILUDDIN MULLA, MOMENA BIBI, AMENA KHATUN
					RS 2277	0.0500	Private	Dala	MOFIUDDIN
					RS 2278	0.1800	Private	Dala	KHABIRUDDIN AHAMMAD
					RS 2279	0.2300	Private	Dala	ABDUL KADER, KHABIRUDDIN AHAMMAD, KHAMINA KHATUN, NAJIBUDDIN, YASIN ALI
					RS 2280	0.2500	Private	Dala	ACHHIMUDDIN
					RS 2281	0.2000	Private	Dala	ACHHIMUDDIN, YASIN ALI
					RS 2283	0.0900	Private	Dala	ACHHIMUDDIN, KURANNESA, TASLIMA KHATUN, MOHASEN ALI, ASHADUR RAHAMAN
					RS 2284	0.1300	Private	Dala	AZIZUR RAHAMAN, KHAJIRUDDIN AHAMMAD, TAJUDDIN AHAMMAD, FARAJUDDIN AHAMMAD, PARESA KHATUN, HAKIMANNESA
					RS 2287	0.0675	Private	Dala	ACHHIA BEWA, ANWARA KHATUN, ABUL HOSSAIN, AMIRUL ISLAM, ALAUDDIN, AHAMMAD HOSAIN, AYESA BEWA, BHALU MAHAMMAD
					RS 2289	0.0150	Private	Dala	AYESA KHATUN
					RS 2310	0.0025	Private	Dala	KHAJILUR RAHAMAN, MAHAFUJAR, MANIUR RAHAMAN, GULAM RABBAMI, GULAM RAHAMAN, GULAM RAHM
					RS 2404	0.2500	Private	Dala	ANISUR RAHAMAN, JULUM NEGAR
					RS 2405	0.1775	Private	Dala	AKALI KHATUN, ANJUARA BEGUM, KAMALUDDIN AHAMMAD, GABANU SARKAR, SAJIRUDDIN AHAMMAD, MAJIFUR RAHAMAN
					RS 2406	0.2800	Private	Dala	AZIZUR RAHAMAN, KHAJIRUDDIN AHAMMAD, TAJUDDIN AHAMMAD
					RS 2407	0.4400	Private	Dala	AJIRUDDIN, NUR HUSSAIN, NAJMA KHATUN
					RS 2408	0.0350	Private	Dala	GAHARJANNESA BARGADAR- TABHASHT MAHACHIRA
					RS 2409	0.0450	Private	Dala	ACHHIA BEWA, ANWARA KHATUN, ABUL HOSSAIN, AMIRUL ISLAM, ALAUDDIN, AHAMMAD HOSAIN, AYESA BEWA, BHALU MAHAMMAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 2410	0.1200	Private	Dala	KETABUDDIN MULLA
					RS 2411	0.1450	Private	Dala	KHATINA KHATUN, TACHHIRUDDIN AHAMMAD
					RS 2412	0.4000	Private	Dala	PRADIP KUMAR ROY
					RS 2413	0.0700	Private	Dala	BARGADAR GOLAM RAHIM
					RS 3053	0.0200	Private	Dala	ACHHIMUDDIN AHHA. ASHADUR RAHAMAN
					RS 3054	0.1950	Private	Dala	JAMUDDIN AHAMMAD, MANGLU MIYA
					RS 3055	0.4550	Private	Dala	ASHARAF ALI
					RS 3056	0.1200	Private	Dala	BASARU ALI
					RS 3057	0.3000	Private	Dala	BASARU ALI
					RS 3058	0.1200	Private	Dala	MAJIDUR RAHAMAN, MASIUR RAHAMAN
					RS 3059	0.0200	Private	Dala	RAHIMA KHATUN
					RS 3060	0.4675	Private	Dala	AZIZUDDIN
					RS 3080	0.0775	Private	Dala	BARGADAR NAYELUDDIN
					RS 3081	0.1500	Private	Dala	JAMALUDDIN MIYA, HAFEZ MD. YASIN ALI
					RS 3084	0.0350	Private	Danga	BRAJENDRA NATH DEBSHARMA
					RS 3086	0.1600	Private	Dala	NAFELUDDIN MULLA
					RS 3087	0.0750	Private	Danga	KHALILUR RAHAMAN, MAHAFUJAR, MANIUR RAHAMAN
					RS 3088	0.5200	Private	Pukur	BRAJENDRA NATH DEBSHARMA
					RS 3089	0.1675	Private	Dala	KUARRU DEBSHARMA, BRAJENDRA NATH DEBSHARMA
					RS 3160	0.0775	Private	Dala	THE PRADHAN, AKCHA GRAM PANCHAYET
					RS 3161	0.1200	Private	Dala	BRAJENDRA NATH DEBSHARMA
					RS 3162	0.2800	Private	Danga	TARABUDDIN, BAIARUDDIN AHAMMAD, JAHANARA BEGUM
					RS 3163	0.0150	Private	Dala	NURESA BEGUM
					RS 3164	0.0550	Private	Dala	SALEHA KHATUN
					RS 3165	0.0700	Private	Dala	NARENDRA NATH BISWAS
					RS 3166	0.1150	Private	Dala	AKALI KHATUN, ANJUARA BEGUM, KAMALUDDIN AHAMMAD, GABANU SARKAR, SAJIRUDDIN AHAMMAD, MAJIDUR RAHAMAN
					RS 3167	0.2600	Private	Dala	SUDHIR KUMAR BISWAS
					RS 3168	0.3700	Private	Dala	JOYNAL ABEEDIN
					RS 3169	0.5300	Private	Dala	NARENDRA NATH BISWAS, HARISH CHANDRA BISWAS, HARA KUMAR BISWAS
					RS 3170	0.0400	Private	Dala	ISRAFIL HAQUE, SAHERA BEGUM
					RS 3172	0.2700	Private	Dala	SHAMSUDDIN AHAMMAD
					RS 3174	0.2400	Private	Dala	ATIMANNESA
					RS 3175	0.4000	Private	Dala	KHALILUR RAHAMAN
					RS 3179	0.0075	Private	Dala	KHALILUR RAHAMAN, MAHAFUJAR, MANIUR RAHAMAN
					RS 3206	0.0550	Private	Dala	KHALILUR RAHAMAN, MAHAFUJAR, MANIUR RAHAMAN
					RS 3208	0.0025	Private	Dala	OHEDA KHATUN, KAIMULLA MIYA
					RS 3234	0.1600	Private	Dala	RAHIMA KHATUN
					RS 3235	0.0200	Private	Dala	AIJAN, UMISA KHATUN, KHARIA BIBI, JAMIRUDDIN AHAMMAD, BACHHIRUDDIN, HAZI MUSIRUDDIN AHAMMAD, MANGLU MIYA, JEARUDDIN AHAMMAD, NUR MAHAMMAD
					RS 3691	0.0450	Private	Dala	FAJUDDIN MIR, KANFURI BEWA.
					RS 4843	0.1250	Private	Dala	BRAJENDRA NATH DEBSHARMA
									ANISHUR RAHAMAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(3) LAKSHMIPUR - 63	11, 127, 128	RS 3439	0.0125	Private	Dala	BAJURUDDIN MAHAMMAD
					RS 3440	0.1400	Private	Dala	BOJIRUDDIN MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD
					RS 3441	0.7000	Private	Dala	AJBULA SARKAR
					RS 3442	0.0675	Private	Dala	AJBULA SARKAR
					RS 3443	0.5300	Private	Dala	ALI MAHAMMAD, JARUDDIN AHAMMAD, NURUL ISLAM, SOFURA BEWA, RUMJANI KHATUN, RABIA KHATUN.
					RS 3444	0.1150	Private	Danga	RAHAMTULLA HAQUE, AKTAR BANU
					RS 3446	0.2400	Private	Dala	MENU MULLAH, BARGADAR - AFIZUDDIN
					RS 3447	0.0425	Private	Dala	CHADER MAHAMMAD
					RS 3451	0.1700	Private	Dala	BOJIRUDDIN MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD
					RS 3452	0.5700	Private	Dala	AFSAR MULLA, BOJIRUDDIN MAHAMMED, MOKTAR HOSSAIN, MAJAHAR ALI, HAMIDUR RAHMAN
					RS 3453	0.2850	Private	Dala	YOUNUS ALI
					RS 3455	0.2625	Private	Dala	SAJIRUDDIN AHAMMAD BARGADAR - NACHIRUDDIN
					RS 3456	0.3300	Private	Dala	JAHERUNNECTHA BIHL, MOZAMMEL HOSSION BARGADAR - TACHIRUDDIN
					RS 3457	0.1100	Private	Dala	AFSAR MULLA, HAMIDUR RAHMAN, MOZAMMEL HOSSION
					RS 3459	0.1500	Private	Dala	KHALILUR RAHAMAN, MASIUR RAHAMAN, MAHAFUJAR RAHAMAN,
					RS 3460	0.1000	Private	Dala	MANINDRA NATH ADHIKARI
					RS 3461	0.2750	Private	Dala	PENDO BEWA, MACHHALIMA BEGUM, SAJIRUDDIN AHAMMAD
					RS 3462	0.1950	Private	Dala	TOPU MULLAH, MACHHALIMA BEGUM, SAJIRUDDIN AHAMMAD
					RS 3463	0.4300	Private	Dala	AMALUDDIN MIYA, CHHALE MAHAMMAD,
					RS 3464	0.3300	Private	Dala	AMALUDDIN MIYA, KAMALUDDIN MIYA, TASILIM UDDIN, BAJIRUDDIN MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD
					RS 3466	0.0100	Private	Dala	BAJIRUDDIN MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD
					RS 3477	0.1300	Private	Dala	ABDUL AZIZ MIYA, NACHIRA KHATUN, ROSNEWARA KHATUN, JAYEDA KHATUN, BARGADAR - TOJAMMEL HOSSION
					RS 3478	0.1500	Private	Dala	GULAM RABBANI, GULAM RAHAMAN, AZAHAR ALI,
					RS 3480	0.0100	Private	Dala	TAJIRUDDIN MOLAH,
					RS 4243	0.0975	Private	Dala	BIRESWAR PAL, SARFESH CHANDRA PAL, MOINUDDIN AHAMMAD,
					RS 4244	0.1250	Private	Dala	KHAMIRUDDIN AHAMMAD, BHULU MULLA, BIJULU MAHAMMAD
					RS 4245	0.4100	Private	Dala	SERAJUDDIN AHAMMAD, MEHERAF ALI, HUSSIAN ALI, HASEN ALI
					RS 4246	0.0750	Private	Dala	JAMMUNA MAHATO, BARGADAR - TASAR MAHAMMAD
					RS 4248	0.0450	Private	Rasta	RUSMANDI AANCHAL PANCHAYAT
					RS 4249	0.0075	Private	Danga	FANIRUDDIN AHAMMAD, MDMENA KHATUN
					RS 4250	0.2250	Private	Dala	FANIRUDDIN AHAMMAD,
					RS 4251	0.4850	Private	Dala/Basti	ABDUL NUR, ABDUL BAKHER, ABDUL GOFUR, NAJIRUDDIN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 4252	0.1800	Private	Dala	MACCHLUDDIN, HAKIMUDDIN AHAMMAD.
					RS 4255	0.1800	Private	Dala	FANIRUDDIN AHAMMAD
					RS 4257	0.7500	Private	Dala	FANIRUDDIN AHAMMAD, MOKTAR HOSSION
					RS 4258	0.0400	Private	Dala	SAKILA BEGUM
					RS 4264	0.0350	Private	Dala	JITEN MANDAL, BADAR MANDAL, BIDUR MANDAL, SUDHUR MANDAL
					RS 4265	0.1800	Private	Dala	SAJIMUDDIN
					RS 4266	0.0800	Private	Dala	CHHAMINA KHATUN
					RS 4387	0.0475	Private	Dala	KALIMAN NECHA
					RS 4390	0.1800	Private	Dala	JAGADISH CHANDRA CHOWDHURY, DHIRENDRA NATH CHOWDHURY,
					RS 4391	0.3450	Private	Dala	TACHHLIMUDDIN AHAMMAD, MACHHIBUDDIN AHAMMAD
					RS 4392	0.3000	Private	Dala	ARJAHAN KHATUN, JYOTSNA KHATUN
					RS 4393	0.2400	Private	Dala	AFAJUDDIN MULLAH, ASRAFI BIBI, EJA MAHAMMAD, ISLAMUDDIN AHAMMAD, KAJIMUDDIN, TASLIMUDDIN AHAMMAD
					RS 4394	0.1150	Private	Dala	KALIMAN NECHA, ALTAH HOSSION,
					RS 4402	0.5600	Private	Dala	ADHIR CHANDRA PAL, JITENDRA NATH PAL, MADAN MOHAN PAL, NAMIRUDDIN AHAMMAD
					RS 4403	0.5200	Private	Dala	SIRAJUL ISLAM, MAMUN RASHID,
					RS 4404	0.0375	Private	Dala	TASLIMUDDIN AHAMMAD, HAMIDUR HAQUE
					RS 4406	0.5000	Private	Dala	HARIPADA SAHA
					RS 4421	0.0050	Private	Dala	RAMANIKANTA PRAMANIK BARGADAR - WAHID ALI
					RS 5026	0.4200	Private	Dala	KHABIRUDDIN MOLLAH, SAMSUL ALAM,
					RS 5051	0.0700	Private	Dala	ABDUL LATIF, ALAUDDIN, TASI MUDDIN AHAMMAD, NUR KHAN KHATUN, HAKIMUDDIN AHAMMAD, HASEN ALI,
					RS 5054	0.0850	Private	Dala	MAHAT ALI, AMIRUL ISLAM, AFZAL HOSSION
			(4) NURULLA KURI ANGARPARA - 62	18	RS 80	0.0775	Private	Dala	MOSU MAHAMMAD, ABDUL BASED,
					RS 81	0.0575	Private	Dala	RAHAMAN ALI, SAMSUL HAQUE,
					RS 83	0.5900	Private	Dala	ABDUL BASED
					RS 84	0.4300	Private	Dala	CHHALEHA KHATUN, RAHAMAN ALI, SAMSUL HAQUE, HUSEN ALI, HASEN ALI,
					RS 126	0.0025	Private	Dala	MOHASEN ALI,
					RS 127	0.3600	Private	Dala	MOSU MAHAMMAD, MIR MAHAMMAD,
					RS 133	0.4800	Private	Dala	AKHIJUDDIN AHAMMAD, MANGALI KHATUN,
					RS 134	0.0800	Private	Dala	RAHAMAN ALI,
					RS 605	0.2000	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, MOHASEN ALI, AANICHUR RAHAMAN,
					RS 606	0.2150	Private	Dala	OSMAN ALI
			(5) KUMRUK - 125	19	LR 1	0.0050	Private	Dala	RAHAMAN MULLA
					LR 2	0.1300	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAFURA KHATUN, HAFIJUDDIN AHAMMAD, RAZZAK ALI, YASIN ALI, ABBAS ALI, REJALU HAQUE, MIJANUR HAQUE,
					LR 3	0.0350	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAFURA KHATUN, HAFIJUDDIN AHAMMAD, RAZZAK ALI, YASIN ALI, ABBAS ALI, REJALU HAQUE, MIJANUR HAQUE,
					LR 5	0.1600	Private	Dala	NACHU MAHAMMAD, ABDUL BASED, MIR MAHAMMAD, SAHEDA KHATUN, SAHEDA BEWA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 6	0.4825	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, RAHAMAN MULLA, SAFURA KHATUN, HAFIZUDDIN AHAMMAD, AFIZUDDIN
					LR 7	0.0950	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, HAFIZUDDIN AHAMMAD, RAJAK ALI, YASIN ALI, ABBAS ALI, REJAUH HAQUE, MIJANUR HAQUE,
					LR 10	0.2200	Private	Dala	AFAJUDDIN
					LR 11	0.6300	Private	Dala	AFAJUDDIN
					LR 12	0.2650	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, FASIUDDIN AHAMMAD,
					LR 14	0.6500	Private	Danga	AJIUR RAHAMAN, JAHARUDDIN AHAMMAD, ASRAF ALI BARGADAR - THALI MULLAH, THANI MULLAH
					LR 16	0.2850	Private	Dala	AJIUR RAHAMAN, JAHARUDDIN AHAMMAD, BAHARUDDIN MULLAH, YUNUS ALI
					LR 417	0.0250	Private	Pukur	ACHIMUDDIN AHAMMAD, ABDUR RAHAMAN, ACHIYA KHATUN, AJIUR RAHAMAN, ACHIMUDDIN, AFAJUDDIN AHAMMAD, YOUNISH ALI, JAHARUDDIN AHAMMAD, DODA MOLLAH, TARABUDDIN AHAMMAD, FASIUDDIN AHAMMAD, BANGRA MULLAH, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JABIDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN, MOFIUDDIN, MACHURA KHATAUN, RAFIUDDIN SARKAR, SAKINA KHATUN, HAKIMUDDIN AHAMMAD, HASMO TARA
					LR 418	0.0900	Private	Bastu	KUMRUK PRE PRIMARY SCHOOL
					LR 419	0.5400	Private	Dala	CHAHERA BIBI, MOHIRA KHATUN, IMAJUDDIN AHAMMAD, FAJUDDIN AHAMMAD,
					LR 420	0.4830	Private	Dala	DAMINUL HAQUE, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JABIDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN, MAJIBUR RAHAMAN,
					LR 422	0.0450	Private	Dala	AFJAAN ALI, JAMILA KHATUN, MOHASIN ALI, MARFAT ALI, HAMIDUR RAHAMAN, SAFURA BEWA, SAMSUDDIN, JABEDUR RAHAMAN, AJIUR RAHAMAN, MAMTAZ BEGUM,
					LR 423	0.0650	Private	Bastu	KUMRUK PRE PRIMARY SCHOOL
					LR 424	0.0400	Private	Bastu	KUMRUK PRE PRIMARY SCHOOL, BAHARUDDIN (NATARU)
					LR 425	0.0050	Private	Bastu	KUMRUK PRE PRIMARY SCHOOL,
					LR 427	0.0025	Private	Kachla	DAMINUL HAQUE,
					LR 429	0.1500	Private	Doba	HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JAVEDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN,
					LR 430	0.0500	Private	Bastu	KUMRUK PRE PRIMARY SCHOOL, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JABEDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN
					LR 431	0.1000	Private	Bastu	ABDUL HAQUE, ABDUL HIGH MULLAH, KUMRUK PRE PRIMARY SCHOOL, KRAMAT ALI, ABDUL BACHIR MULLAH,
					LR 432	0.0850	Private	Dala	MDMENA KHATUN, SAKINA KHATUN,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 433	0.2200	Private	Danga	DAMINUL HAQUE, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JABIDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN, MAHSEN ALI, MARFAT ALI, BARGADAR - MAHAMMAD MULLAH,
					LR 457	0.2550	Private	Dala	MAJUDDIN AHAMMAD, SAHABUDDIN, FAJUDDIN AHAMMAD, AMJUDDIN AHAMMAD, JARIFA BEGUM, HACHEN ALI, AHESAN ALI.
					LR 459	0.3700	Private	Dala	REJIYA KHATUN, MOJAFAR HOSSIAN, KHAMIRUL ISLAM,
					LR 460	0.5150	Private	Dala	MOMENA KHATUN, ABDUL RAHAMAN, SAKINA KHATUN,
					LR 461	0.0400	Private	Danga	MOMENA KHATUN, ABDUL RAHAMAN, SAKINA KHATUN,
					LR 462	0.0900	Private	Vita	MOMENA KHATUN, ABDUL RAHAMAN, SAKINA KHATUN,
					LR 463	0.0650	Private	Vita	MOMENA KHATUN, ABDUL RAHAMAN, SAKINA KHATUN,
					LR 468	0.3250	Private	Bastu	AARASUDDIN AHAMMAD, KALIM NECHA, TARAMUDDIN, DAMINUL HAQUE, MOMENA KHATUN, ABDUL RAHAMAN, SAKINA KHATUN,
					LR 495	0.0100	Private	Kachla	AJJUR RAHAMAN, DOBIRUDDIN AHAMMAD
					LR 496	0.0300	Private	Kachla	AJJUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JABIDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN, MAJIDAR RAHAMAN
					LR 497	0.3300	Private	Dala	ACHIRUDDIN AHAMMAD. MUKINA KHATUN,
					LR 509	0.1025	Private	Kachla	ACHIMUDDIN AHAMMAD, WAJUL HAQUE, FASUDDIN AHAMMAD, MAJIDA KHATUN
					LR 510	0.6200	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, JAHRUDDIN AHAMMAD,
					LR 511	0.0725	Private	Dala	BANGRA MULLAH, MOFIUDDIN
					LR 513	0.0975	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, JAHARUDDIN AHAMMAD,
					LR 514	0.1100	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, MOHSEN ALI,
					LR 515	0.0750	Private	Dala	BABLU MIA, MALEKA KHATUN,
					LR 516	0.1700	Private	Dala	HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JAVEDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN,
					LR 517	1.4100	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, AJIM KHATUN, JAVEDUR RAHAMAN, AJIMUDDIN AHAMMAD, AJIMA KHATUN, ARSAD ALI
					LR 518	0.1100	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, AJIMA KHATUN, JAVEDUR RAHAMAN, AJIMUDDIN AHAMMAD,
					LR 519	0.1700	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, AJIMA KHATUN, JAVEDUR RAHAMAN, AJIMUDDIN AHAMMAD,
					LR 520	0.2300	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, AJIMA KHATUN, JAVEDUR RAHAMAN,
					LR 521	0.0700	Private	Dala	AJJUR RAHAMAN, MOHSEN ALI
					LR 522	0.0600	Private	Dala	JAHARUDDIN AHAMMAD
					LR 523	0.0225	Private	Kachla	SIRAJUL ISLAM,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 581	0.0375	Private	Dala	TARAMUDDIN MULLAH, ARAMUDDIN AHAMMAD,
					LR 582	0.2100	Private	Dala	DAMINUL HAQUE,
					LR 583	0.2325	Private	Dala	ABDUL RAHAMAN, ARSAD ALI
					LR 584	0.2050	Private	Danga	AJJUR RAHAMAN,
					LR 1401	0.0050	Private	Dala	EJAMUDDIN AHAMMAD,
					LR 1620	0.0900	Private	Danga	TARAMUDDIN MULLAH, ARAMUDDIN AHAMMAD,
					LR 1001	2.5600	Private	Dala	AKBAR ALI, NAMIRUDDIN AHAMMAD, HAMIDUR RAHAMAN, SAFKUL ISLAM, CHALEMAN ALI,
					LR 1002	1.7350	Private	Dala	TAFIJUDDIN AHAMMAD, MAFIJUDDIN SARKAR, MACHILUDDIN SARKAR, MAHIMUDDIN SARKAR, HAKIMUDDIN AHAMMAD, HAFIZUDDIN AHAMMAD, SOLEMAN ALI,
					LR 1003	0.2200	Private	Dala	MAJUDDIN AHAMMAD, MAHATABUDDIN, MARUFA KHATUN, ABDUL ALI, KHASRU NEHAR,
					LR 1004	1.1500	Private	Dala	AFEJA KHATUN, TOSHU MAHAMMAD, BABLU MIYA, MAJUDDIN AHAMMAD, MAHATABUDDIN, SAIDUR RAHAMAN, JAHIDUR RAHAMAN,
					LR 1005	0.2150	Private	Dala	TAMJUDDIN AHAMMAD, MOFIJUDDIN SARKAR, MACHILUDDIN SARKAR, MAHARANI KHATUN, MAHIMUDDIN SARKAR, HAKIMUDDIN AHAMMAD, HAFIZUDDIN AHAMMAD, RAZZAQ HOSSIAN, REZAUL KARIM, BARGADAR - NASHIRUDDIN, NACHIRUDDIN
					LR 1032	0.5700	Private	Dala	WAJUL HAQUE,
					LR 1033	0.3200	Private	Dala	TASIRUDDIN AHAMMAD, RABIA KHATUN, SARIFA KHATUN
					LR 1034	1.2600	Private	Dala	BABLU MIA
					LR 1036	0.3400	Private	Dala	KINU MAHAMMAD, JASUMUDDIN AHAMMAD, MAJIBAR RAHAMAN,
					LR 1037	0.3600	Private	Dala	BABLU MIA
					LR 1038	0.3200	Private	Dala	JASUMUDDIN AHAMMAD, MAJIDUR RAHAMAN, MOTIBUR RAHAMAN
					LR 1039	0.0100	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, WAZUL HAQUE, KINU MAHAMMAD, JASIMUDDIN AHAMMAD, FASIUDDIN AHAMMAD, MAJIBAR RAHAMAN, KHATIBUDDIN AHAMMAD, AJIMUDDIN AHAMMAD, AJJUR RAHAMAN, MAJIBUR RAHAMAN
					LR 1042	0.7000	Private	Dala	ASRAF ALI, MAKCHED ALI, MAMATAZ ALI, MOHSIN ALI, RAHAMTULLA AHAMMAD, MOHAMMAD HUSSAIN, BARGADAR - BAHARUDDIN
					LR 1043	0.6000	Private	Dala	KINU MAHAMMAD, JASUMUDDIN AHAMMAD, MAJIBAR RAHAMAN,
					LR 1044	0.8600	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, WAJUL HAQUE, FASIUDDIN AHAMMAD,
					LR 1045	0.1950	Private	Dala	ASADUL ASRAFI, RABIUL ASRAFI, ANARUL ASRAFI, ASKARUL ASRAFI,
					LR 1057	0.1550	Private	Dala	HIYALU MAHAMMAD,
					LR 1058	0.0250	Private	Dala	NURUL ISLAM, MATEJA KHATUN, SUKIMDN NECCHA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 1054	1 1200	Private	Data	PONA BIBI, UJ. MAHAMMAD, BIBITA MULLAH, KUARKHATI BIBI, SIRMAMUD MULLAH,
					LR 1060	0 8600	Private	Data	AIFRA BEWA, EMAJUDDIN AHAMMAD, TAMIJUDDIN AHAMMAD, HANJUR RAHAMAN,
					LR 1061	0 6800	Private	Data	AFURA BEWA, EMAJUDDIN AHAMMAD, TAMIJUDDIN AHAMMAD,
					LR 1062	3 3300	Private	Data	MAHUDDIN AHAMMAD, NAMUL HAQUE,
					LR 1063	0 7800	Private	Data	MANWARA KHATUN, RAHAMAN ALI, ASADUL ASRAFI, RABIUL ASRAFI, ANARUL ASRAFI, ASKARUL ASRAFI
					LR 1065	1 4700	Private	Data	HAMIDA BEWA, WAHDUR RAHAMAN,
					LR 1066	0 1650	Private	Data	FAIZUL AHAMMAD,
					LR 1093	0 1200	Private	Data	KALBANU KHATUN, MINARUL ISLAM BARGADAR - JONNY MAHAMMAD
					LR 1095	0 0600	Private	Data	ALIMUDDIN AHAMMAD, JULIOUS ALI, TACHHIMUDDIN AHAMMAD, LUTFAR RAHAMAN
					LR 1099	0 1150	Private	Data	GALEJA BEWA, SAMSUL MIA
					LR 1100	0 9800	Private	Data	RAFIUDDIN, JAHORA KHATUN
					LR 1101	0 7900	Private	Data	RAFIUDDIN
					LR 1102	1 0700	Private	Data	SEIKH BHULU MAHAMMAD, ZAKIR HUSSAIN, JAHIDUL HUSSAIN, JARUL HUSSAIN, JAFAR HUSSAIN,
					LR 1103	0 6400	Private	Data	AINUDDIN, MAOKHERA BEWA, RAHAMAN ALI, NUR MAHAMMAD, DAMIMULLAH HAQUE
					LR 1104	0 2900	Private	Data	KANFORA MULLAH,
					LR 1105	0 2900	Private	Data	RAFIUDDIN, JAHORA KHATUN
					LR 1106	0 2500	Private	Data	GULAM HOSSAIN
					LR 1107	1 1400	Private	Data	ALIMUDDIN AHAMMAD, JULIOUS ALI, TACHHIMUDDIN AHAMMAD, GULAM HOSSAIN
					LR 1111	0 0175	Private	Data	MAHATABUDDIN
					LR 1112	0 0525	Private	Data	HAMIDA BEWA,
					LR 1113	0 4300	Private	Data	MAMATAZ BEGUM, SAIMUDDIN AHAMMAD,
					LR 1114	1 4000	Private	Data	FAHUR RAHAMAN, FARUJA BEGAM, AHIDUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, HABIBUR RAHAMAN, JAMAL HOSSAIN, JYOTSNARA BEGAM
					LR 1115	0 0300	Private	Data	ICHAHAR ALI, RIJAZUL ISLAM, HAMIDA BEWA
					LR 1116	0 2500	Private	Data	AJJUL ISLAM, ICHA HAQUE ALI, SIRAJUL ISLAM
					LR 1117	0 1600	Private	Data	FAJUDDIN AHAMMAD, AJIRUDDIN AHAMMAD,
					LR 1118	0 1375	Private	Data	SAEMI, ABIR AARJAU ISLAM
					LR 1119	0 1450	Private	Data	AAJJUL ISLAM, SIRAJUL ISLAM, MAHAMMAD FIRDOSII
					LR 1123	0 0375	Private	Data	AAKJAN HAUM, HAFIZUL RAHAMAN
					LR 1187	0 1200	Private	Data	SARIFUL ISLAM, MAJAHAR HOSSIAN, AZAHAR ISLAM,
					LR 1199	0 0350	Private	Data	YUNIS ALI,
					LR 1202	0 1400	Private	Data	AFZAL HOSSIAN, MARFAT ALI, AMIRUL ISLAM,
					LR 1453	0 2800	Private	Data	MANWARA KHATUN, RAHAMAN ALI
					LR 1455	0 4700	Private	Data	ACCHIA KHATUN,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 1459	0 2000	Private	Dala	HAMIDUR RAHAMAN, SAIDUR RAHAMAN, JAVEDUR RAHAMAN, ATIBUR RAHAMAN,
					LR 1629	0 3200	Private	Dala	AANUDDIN, MAUKHRA BEWA, RAHAMAN ALI, NUR MAHAMMAD, DAMIMULLAH HAQUE
					LR 1631	0 5800	Private	Dala	FATUR RAHAMAN, FARUJA BEGAM, AHIDUR RAHAMAN, HAMIDUR RAHAMAN, HABIBUR RAHAMAN, JAMAL HOSSAIN, JYOTSNARA BEGAM
					LR 1632	0 9000	Private	Dala	MASTAR HOSSAIN MAHAMMAD MUSA, MASUDA BEGUM
			(6) IBRAHIMPUR - 110	51	LR 383	0 3925	Private	Dala	MITU MOLLAH, HEJAMUDDIN AHAMMAD,
					LR 385	0 0250	Private	Dala	BARGADAR - SAMIRUDDIN AKURA BEWA, TOHJA RAHAMAN,
					LR 386	0 7500	Private	Dala	NASIRA KHATUN, MOMIMA LIDDIN, FASUDDIN AHAMMAD, HEJAMUDDIN AHAMMAD,
					LR 387	0 1600	Private	Dala	KALJMAN BIBI, JAVEDA BEWA, JABIKUDDIN, NAJIRUDDIN AHAMMAD, MAJIRUDDIN, NASHIRUDDIN AHAMMAD, JAMIRUDDIN AHAMMAD, MAHIBUR RAHAMAN, MAHEJA KHATUN, RAHIMUDDIN MULLAH,
					LR 388	0 0600	Private	Dala	RAHIMUDDIN MULLAH,
					LR 389	0 2100	Private	Danga	MITU MOLLAH, BARGADAR - SAMIRUDDIN
					LR 390	0 6000	Private	Dala	RAHIMUDDIN MUJ. AH. SAHIDAR RAHAMAN, SAIFUR RAHAMAN, AJUDDIN AHAMMAD,
					LR 391	0 2800	Private	Dala	SUKKIMON BEWA, MOKTAR HOSSAIN,
					LR 392	0 9100	Private	Dala	HEJAMUDDIN AHAMMAD
					LR 393	0 1650	Private	Dala	RAHIMUDDIN MOLLAH, KHARUL ISLAM, MOKTAR HOSSIAN
					LR 443	0 3600	Private	Dala	MOKTAR HOSSIAN,
					LR 458	0 2200	Private	Dala	MITU MOLLAH
			(1) BARAIDANGA - 135	50	LR 123	0 3200	Private	Dala	JAMSED ALI,
					LR 124	0 0400	Private	Dala	KALIMUDDIN, JAMIRUDDIN, BAJIRUDDIN, SAMIRUDDIN
					LR 131	0 1100	Private	Danga	NAJIRAN BEWA, BARGADAR - POTUL MAHAMMAD,
					LR 132	0 3300	Private	Danga	JAHANGIR ALAM
					LR 133	0 1300	Private	Danga	AAHASAN ALI, IDRISH ALI, YUNUS ALI,
					LR 134	0 1550	Private	Danga	NURUDDIN, SATTAR SEIKH
					LR 135	0 4550	Private	Danga	YUNUS ALI,
					LR 136	0 2950	Private	Danga	MAHABUR RAHAMAN,
					LR 137	0 2300	Private	Danga	YUNUS ALI,
					LR 138	0 2450	Private	Danga	RAHIMUDDIN, SIRAJUL HAQUE, HAJJUR RAHAMAN,
					LR 140	0 0800	Private	Danga	YUNUS ALI,
					LR 142	0 4600	Private	Danga	THAMIRUDDIN, MUKTAR HOSSIAN
					LR 146	0 2500	Private	Danga	HEJAMUDDIN
					LR 147	0 0150	Private	Danga	HEJAMUDDIN
					LR 150	0 8100	Private	Dala	NITU SARKAR,
					LR 187	0 8725	Private	Dala	AAHACHAN ALI, YUNUS ALI, MAHARANI KHATUN, BACHIRA KHATUN, MANSURA KHATUN, FERUJA KHATUN, AAKLIMA KHATUN,
					LR 188	0 1800	Private	Danga	NAJUMULLA,
					LR 189	0 1900	Private	Danga	AHASAAN ALI, IDRISH ALI, YUNUS ALI,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 190	0.0825	Private	Danga	ABUL MIYA, RAFIUDDIN, SAKIUDDIN,
					LR 191	0.0800	Private	Danga	ABUL MIYA, RAFIUDDIN, SAKIUDDIN,
					LR 192	0.0800	Private	Danga	NAJUMULLA
					LR 193	0.0800	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN
					LR 194	0.3250	Private	Danga	AAHOSAAAN ALI, IDRISH ALI, YUNUS ALI,
					LR 204	0.2000	Private	Danga	AJIJUR RAHAMAN, AYESHA KHATUN, KALIMUDDIN, GIYASUDDIN, JAMIRUDDIN, BAJIRUDDIN, RIAZUDDIN, SAMIRUDDIN, SIRAJUDDIN,
					LR 245	0.2300	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN
					LR 246	0.1700	Private	Danga	ABUL JALIL, SIRAJUDDIN
					LR 249	0.4100	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN, MOHSEN ALI,
					LR 256	0.5000	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, KALIMUDDIN, GIYASUDDIN, JANIRUDDIN, BAJIRUDDIN, RAHIMA KHATUN, RIAZUDDIN, SAMIRUDDIN, PARUL AKTAR BANU,
					LR 257	0.4200	Private	Danga	SUKHIMAAN NESHA, TAMINA KHATUN,
					LR 258	0.0375	Private	Danga	NAJUMULLA
					LR 282	0.1750	Private	Danga	KALIMUDDIN, JAMIRUDDIN, BAJIRUDDIN, SAMIRUDDIN, NITU SARKAR, RAHIMA KHATUN
					LR 283	0.1450	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN
					LR 284	0.0460	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, RAHIMA KHATUN
					LR 286	0.0450	Private	Danga	RAHIMUDDIN, NAJIMUDDIN, TAFIJAR HOSSAIN, MARJUM NECCHA, RAHELA KHATUN, RAHEN BANU, MALEKHA,
					LR 287	0.0675	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, RAHIMA KHATUN
					LR 289	0.0400	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN
					LR 290	0.0500	Private	Danga	KAFILUDDIN, KALIMUDDIN, KHATEJA KHATUN, GIYASUDDIN, JAMIRUDDIN, BAJIRUDDIN, RIYAZUDDIN, SAMINA BEWA, SAMIRUDDIN, SALEMA BEWA, SIRAJUDDIN, HAMIRAN NECCHA, HAMEDA BEWA
					LR 291	0.1300	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, DABIRUDDIN, SAMIRUDDIN, SAMSUDDIN
					LR 292	0.0200	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN,
					LR 293	0.0150	Private	Danga	ACHIMUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN, BARGADAR - MAJHIRUDDIN
					LR 517	0.0500	Private	Danga	MOFIJUDDIN, TOCHLEM ALI, MOSLEM ALI
					LR 521	0.0075	Private	Danga	MOTIAR RAHAMAN,
					LR 522	0.0575	Private	Danga	RAHIMUDDIN
					LR 523	0.5700	Private	Danga	KALIMUDDIN, ALAMGIR KABIR, MAHAMMAD FIRDOOSH ALI
					LR 524	0.6050	Private	Danga	RAHIMUDDIN
					LR 525	0.3700	Private	Danga	THAMIRUDDIN
					LR 526	0.3125	Private	Danga	SUKHIMAAN BEWA,
					LR 527	0.0125	Private	Danga	MAFIJUDDIN SARKAR,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 955	0.0100	Private	Rasta	KALIKA MORE ANCHAL PANCHAYAT
					LR 1008	0.6700	Private	Danga	HEJAMUDDIN
					LR 1035	0.0650	Private	Dala	EMAJUDDIN, TACHIMUDDIN MAHAMMAD, TAJIRUDDIN AHAMMAD, JAMAL HOSSAIN, KHATER MAHAMMAD, AATER MAHAMMAD, BARGADAR - JABARUDDIN, DOGRUDDIN
					LR 1036	0.3800	Private	Dala	TACHIMUDDIN MAHAMMAD, TAJIRUDDIN AHAMMAD, JAMAL HOSSAIN, KHATER MAHAMMAD, AATER MAHAMMAD
			(2) CHAKDAPARA - 129	53, 54	RS 592	0.0225	Private	Dala	SAIFUDDIN AHAMMAD BARGADAR - POTLU MAHAMMAD
					RS 593	0.1050	Private	Dala	TAIYABUDDIN SARKAR,
					RS 594	0.0800	Private	Dala	NUZRUL ISLAM, BARGADAR - POTLU MAHAMMAD
					RS 595	0.1200	Private	Dala	WAJED ALI
					RS 596	0.0400	Private	Danga	ABUL HOSSIAN, SAHARAJ ALI
					RS 597	0.0200	Private	Vita	WAJED ALI
					RS 598	0.0800	Private	Danga	KHAMIRUDDIN AHAMMAD, GAMIRUDDIN AHAMMAD,
					RS 637	0.1350	Private	Dala	TACHIMUDDIN AHAMMAD, TAJIRUDDIN AHAMMAD, JAVEDA KHATUN, MOFEJA KHATUN
					RS 638	0.1675	Private	Bastu	AJIMUDDIN SARKAR, ABUL HOSSIAN, SAHARAJ ALI, SAIFUDDIN AHAMMAD
					RS 639	0.0700	Private	Vita	AJIMUDDIN SARKAR, ABUL HOSSIAN, SAHARAJ ALI, SAMIRUDDIN, RAHIMUDDIN AHAMMAD, NITU SARKAR
					RS 640	0.5750	Private	Dala	YUNUS ALI, TAIYABUDDIN AHAMMAD, MUSAMAD SAHIBA BANU
					RS 641	0.1800	Private	Dala	TAJIRUDDIN AHAMMAD, SARIUDDIN AHAMMAD, SAHARAJ ALI, SAFIUDDIN AHAMMAD, MOHABUR RAHAMAN, MUSTAFA JAMAN ALI
					RS 733	0.5600	Private	Dala	KHAMIRUDDIN AHAMMAD
					RS 734	0.6175	Private	Dala	KHAMIRUDDIN AHAMMAD, GAMIRUDDIN AHAMMAD, NAKIMUDDIN
					RS 735	0.0175	Private	Dala	KHAMIRUDDIN AHAMMAD, GAMIRUDDIN AHAMMAD,
					RS 736	0.4400	Private	Dala	ACHIMUDDIN SARKAR,
					RS 737	0.2250	Private	Dala	TAIYABUDDIN AHAMMAD, SARIUDDIN AHAMMAD, MUSTAFA JAMAN ALI
					RS 741	0.0075	Private	Dala	HASRUDDIN SARKAR, NAJIBUR RHAMAN, RAHIMA KHATUN, RENUKA PARVEEN
					RS 743	0.1200	Private	Dala	AJIMUDDIN, TOFURAN BEWA,
					RS 746	0.1850	Private	Dala	MAHABUR RAHAMAN, MUSTAFA JAMAN ALI
					RS 747	1.1450	Private	Dala	TAIYAB UDDIN AHAMMAD, SARIUDDIN AHAMMAD, MAHOBUR RAHAMAN, MUSTAFA JAMAN ALI
					RS 748	0.3200	Private	Dala	SAIFUDDIN AHAMMAD, SAMIRUDDIN AHAMMAD,
					RS 749	0.2600	Private	Dala	TAIYABUDDIN AHAMMAD, SARIUDDIN AHAMMAD, MAHIBUR RAHAMAN, MUSTAFA JAMAN ALI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(3) PAPTAR BHAKTIPUR 141	49	LR 3	0.0850	Private	Danga	AJJUR RAHAMAN, ABDUL RAHAMAN, KANKORA MAHAMMAD, KALIMUDDIN MAHAMMAD, MOKCHED ALI, MAJIBUR RAHAMAN,
					LR 6	0.0900	Private	Danga	KALIMUDDIN AHAMMAD,
					LR 7	0.0900	Private	Danga	KALIMUDDIN AHAMMAD,
					LR 8	0.0550	Private	Danga	KALIMUDDIN AHAMMAD,
					LR 9	0.1050	Private	Danga	MAFIJUDDIN
					LR 10	0.1875	Private	Danga	MAHEDA KHATUN
					LR 11	0.6400	Private	Danga	SABURUDDIN, HAMED ALI
					LR 12	0.0100	Private	Danga	JORDIGHI HIGH SCHOOL BARGADAR - SAMBHU NATH BISWAS, SADHAN GHOSH
					LR 13	0.2600	Private	Danga	HASEDA BIBI
					LR 22	0.7850	Private	Danga	AINUL HAQUE, AKBAR ALI, YUSUF ALI, IDAHARU ALI, JAYNAL AABEDIN, MOJIRUDDIN, HASEDA BIBI
					LR 169	0.2800	Private	Danga	NITYANANDA SAHA, YUNUS ALI, ASRAF ALI, BARGADAR - KHAJER ALI,
					LR 170	0.6200	Private	Danga	TAIMUR ALI, YUSUF ALI, MAHIRUDDIN AHAMMAD, TAFEJAL HUSSAIN
					LR 171	0.0225	Private	Danga	KHUNIRAN BEWA, SOHORA KHATUN,
					LR 172	0.0300	Private	Danga	MAJEDA BIBI, HACHINA BEWA
					LR 173	0.5400	Private	Danga	ABIRUDDIN MULLAH, GYASUDDIN, RAFIUDDIN, LOKMAAN MOLLAH
					LR 211	0.3050	Private	Danga	LOKMAAN MOLLAH
					LR 212	0.2450	Private	Danga	NILAY KUMAR KUNDU, SANJOY KUMAR KUNDU BARGADAR - SAMBHU NATH PAL
					LR 213	0.0250	Private	Danga	SHYAMAL KUMAR SAHA BARGADAR - HAFIJUR RAHMAN
					LR 214	0.2500	Private	Danga	JORDIGHI HIGH SCHOOL BARGADAR - SAMBHU NATH BISWAS, SADHAN GHOSH
					LR 215	0.0400	Private	Danga	SHYAMAL KUMAR SAHA BARGADAR - HAFIJUR RAHMAN
					LR 216	0.0300	Private	Danga	JORDIGHI HIGH SCHOOL BARGADAR - SAMBHU NATH BISWAS, SADHAN GHOSH
					LR 217	0.0350	Private	Danga	JAHURA BEGUM, MOINUDDIN AHAMMAD
					LR 218	0.0325	Private	Danga	JORDIGHI HIGH SCHOOL BARGADAR - SAMBHU NATH BISWAS, SADHAN GHOSH
					LR 528	0.1400	Private	Danga	MALAYINDU BASAK BARGADAR - SAFIUDDIN
					LR 529	0.2950	Private	Danga	KHAMIRUDDIN, CHABILUDDIN
					LR 530	0.0600	Private	Danga	KHAMIR UDDIN
					LR 537	0.0875	Private	Danga	GYASUDDIN, RAFIUDDIN
			(4) AMLAHAR - 142	44	LR 23	0.0900	Private	Dala	BADLU MULLAH
					LR 26	0.0425	Private	Danga	NURUDDIN,
					LR 27	0.0550	Private	Danga	NIJAMUDDIN
					LR 28	0.1150	Private	Danga	SUKRA BHUIA
					LR 29	0.0150	Private	Danga	MAPIJUDDIN AHAMMAD
					LR 30	0.0900	Private	Dala	BIJON BIHARI KUNDU
					LR 31	0.1400	Private	Dala	DAMINIBALA BASAK, BIJON BIHARI KUNDU
					LR 32	0.0100	Private	Dala	DAMINIBALA BASAK, BARGADAR - BACHIRUDDIN
					LR 37	0.9250	Private	Dala	ACHIMUDDIN AHAMMAD, BARGADAR - ABDUL SAMIR
					LR 41	0.2750	Private	Dala	BACHIRUDDIN AHAMMAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 42	0.9900	Private	Dala	SUROTAN MESHA, JANAB SAMSUDDIN AHAMMAD, HUSSNEWARA BEGUM
					LR 68	0.1300	Private	Dala	DUNA BHUIYA,
					LR 69	0.1500	Private	Dala	MAFIJUDDIN AHAMMAD
					LR 70	0.1350	Private	Dala	BACHIRUDDIN AHAMMAD
					LR 71	0.1400	Private	Dala	BESARUDDIN
					LR 72	0.1100	Private	Dala	MOINUDDIN
					LR 75	0.2550	Private	Dala	CHENU MOLLAH, MAFIJUDDIN AHAMMAD
					LR 76	0.1900	Private	Dala	JOSIMUDDIN MOLLAH, MAJIRUDDIN BARGADAR - MACHIR MOLLAH
					LR 77	0.1525	Private	Dala	KHYAJUDDIN, TAMIJUDDIN, HAJI BHUNDU MAHAMMAD, MOINUDDIN, HEMARUDDIN AHAMMAD, KASEM ALI,
					LR 81	0.0025	Private	Danga	JOSIMUDDIN MOLLAH, BOSIRUN BEWA
					LR 82	0.4600	Private	Danga	AFIJA KHATUN, BHUNDU MAHAMMAD
					LR 88	0.2800	Private	Dala	ABDUL MASIR, MAKSED ALI, SARIFUL ISLAM, PAJIRUL ISLAM, ENAMUL ISLAM, NASIRA BEWA, BASIRA BEWA,
					LR 90	0.4200	Private	Danga	KHUSIDA RAHAMAN, SAIFUR RAHAMAN, MAJIDUR RAHAMAN, SAMSUN NEHAAR
					LR 92	0.2500	Private	Danga	JOSIMUDDIN MOLLAH, MAJIRUDDIN
					LR 95	0.3000	Private	Pukurpar	ANIMA RANI KUNDU, NILA KUNDU, BIJON BIHARI KUNDU, SANJAY KUNDU, BHUNA BHUIYAR, MAJNU BHUIYAR, RAMESHWAR BHUIYAR, KHATEJA BIBI, PHOOLMONI BIBI,
					LR 117	0.1250	Private	Danga	AFIJA KHATUN, PUSIDAR RAHAMAN, SAIFUL RAHAMAN, MAJIDUR RAHAMAN, SAMSUN NEHAAR
					LR 123	0.0300	Private	Danga	AFIJA KHATUN, PUSIDAR RAHAMAN, SAIFUL RAHAMAN, MAJIDUR RAHAMAN, SAMSUN NEHAAR
					LR 125	0.4250	Private	Danga	KHYAJUDDIN, TAMIJUDDIN, MAINUDDIN, SAJIBUDDIN AHAMMAD, HEMARUDDIN AHAMMAD
					LR 126	0.2100	Private	Danga	KHYAJUDDIN, TAMIJUDDIN, MAINUDDIN, HALIMA KHATUN, GUMSED ALI, HAMIDAR RAHAMAN, MAJEDAR RAHAMAN
					LR 139	0.3250	Private	Danga	KHYAJUDDIN, TAMIJUDDIN, HAJI BHUNDU MAHAMMAD, MOINUDDIN, SAJIBUDDIN AHAMMAD, HEMARUDDIN AHAMMAD
					LR 140	0.1400	Private	Dala	PUSIDAR RAHAMAN, SAIFUL RAHAMAN, MAJIDUR RAHAMAN, SAMSUN NEHAAR, HEMARUDDIN AHAMMAD
					LR 142	0.0650	Private	Danga	KHYAJUDDIN, TAMIJUDDIN, MAINUDDIN
					LR 143	0.0500	Private	Dala	HEMARUDDIN
					LR 144	0.0900	Private	Dala	KHYAJUDDIN, TAMIJUDDIN, HAJIBHUNDU MAHAMMAD, MAINUDDIN, SAJIBUDDIN AHAMMAD, HEMARUDDIN AHAMMAD,
					LR 145	0.1200	Private	Dala	SAJIBUDDIN AHAMMAD
					LR 146	0.1800	Private	Dala	SABURUDDIN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 899	0.4900	Private	Dala	JAYNUDDIN AHAMMAD, JANAB SAMSUDDIN AHAMMAD, JEKERIYA MIA, SOHORAV ALI, BARGADAR - BALAI MANDAL
					LR 901	0.3200	Private	Dala	DHOGU MOLLAH,
					LR 1065	0.2950	Private	Dala	YAKUB HAQUE, RABIUL HAQUE
					LR 1067	0.1600	Private	Danga	HEMARUDDIN AHAMMAD
					LR 1137	0.3700	Private	Danga	AINUDDIN AHAMMAD, YAJUDDIN AHAMMAD, TAFIJUDDIN MOJUDDIN, FAJUDDIN
					LR 1138	0.0500	Private	Dala	SRI KOKIL BHUJA
		(4) BRAJBALLAVPUR	(1) MAHUGRAM - 211	47	LR 1001	0.1400	Private	Dala	GOPAL GHOSH, JYOTSHNA RANI GHOSH, DUKHI RANI GHOSH, BANI RANI GHOSH, BASUDEB GHOSH, SHILPI RANI GHOSH, MANGLU MIA, JAYNUDDIN AHAMMAD, JUHURUDDIN AHAMMAD, ABU TAHER MIA,
					LR 1002	0.2700	Private	Dala	MANSOOR ALI,
					LR 1003	0.3600	Private	Dala	DAKHANATH BARMAN, JADAV CHANDRA GHOSH
					LR 1005	0.1350	Private	Dala	KULMAAN BIBI, KHEMAAN BIBI, JHORU MOLLAH, NEPHAN BIBI
					LR 1007	0.1875	Private	Dala	NRIPENDRA CHANDRA SARKAR, RABINDRA NATH SAHA, BASUDEB SIL, AJAY CHANDRA GHOSH
					LR 1008	0.4300	Private	Dala	KHAGHESH CHANDRA GHOSH, GOBINDO CHANDRA GHOSH, GOPAL GHOSH, NARESH CHANDRA GHOSH, BELULAL GHOSH, MANTU GHOSH, SHANTI KUMAR GHOSH, BADAL CHANDRA GHOSH
					LR 1009	0.3400	Private	Dala	AMULYA RATAN GHOSH, INDRAMATI GHOSH, DIGAMBAR POLI, RAJESHWAR POLI
					LR 1011	0.0700	Private	Dala	DIGMABAR POLI, RAJESHWAR POLI, SAMBHU NATH GHOSH, AMULYA RATAN GHOSH,
					LR 1013	0.5450	Private	Dala	APAL CHANDRA SARKAR, GOPAL CHANDRA SARKAR, DULAL CHANDRA SARKAR, FATICK CHANDRA SARKAR, RAMESH GHOSH, SUNIL CHANDRA SARKAR,
					LR 1019	0.2250	Private	Dala	TILKAI MURMU
					LR 1020	0.1250	Private	Dala	GICHAR TUDU, JADAV CHANDRA TUDU
					LR 1021	0.4200	Private	Dala	DAKHANATH BARMAN, JADAV CHANDRA GHOSH
					LR 1069	0.0700	Private	Dala	NAGENDRA NATH BAGCHI, PHANINDRA NATH BAGCHI, MANINDRA BAGCHI, BIRENDRA BAGCHI, RABINDRA NATH BAGCHI BARGADAR - BAJEL HASDA
					LR 1070	0.3500	Private	Dala	FAKINR GHOSH, SUDHIR GHOSH,
					LR 1071	0.5500	Private	Dala	NAGENDRA NATH BAGCHI, BIRENDRA BAGCHI, BARGADAR - BAJEL HASDA
					LR 1072	0.3400	Private	Dala	AMULYA RATAN GHOSH, KALA CHAND GHOSH, NIRODHA BARMANI, MANINDRA GHOSH, HARADHAN GHOSH, LAKHI RANI GHOSH, MANTU GHOSH, BADAL CHANDRA GHOSH
					LR 1073	0.0650	Private	Dala	NAGENDRA NATH BAGCHI, BIRENDRA BAGCHI, BARGADAR - BAJEL HASDA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 1077	0.4100	Private	Dala	NAGENDRA NATH BAGCHI, FIANINDRA NATH BAGCHI, BIRENDRA BAGCHI, RABINDRA NATH BAGCHI, ETI GOSWAMI
					LR 1081	0.0050	Private	Dala	NILMONI RAY, MEDAN RAY, CHANCHALA RANI GHOSH,
					LR 1082	0.0325	Private	Dala	KALYANI DEBI, DBARGADAR - BALAI MANDAL
					LR 1083	0.5700	Private	Dala	NAGENDRA NATH BAGCHI, BIRENDRA BAGCHI
					LR 1084	0.6000	Private	Dala	ARCHANA RANI CHOWDHURY, DHIRENDRA NATH CHOWDHURY, MANINDRA KUMAR GHOSH, SANJIB KUMAR GHOSH, SUNIL KUMAR GHOSH, SAPAN KUMAR GHOSH,
					LR 1085	0.0500	Private	Dala	NILMANI RAY, MEDAN RAY
					LR 1086	0.2950	Private	Dala	ALOK CHANDRA RAY, SASTI CHARAN GHOSH,
					LR 1087	0.0625	Private	Vita	ALOK CHANDRA RAY
					LR 1088	0.1500	Private	Kachla	SUKU CHANDRA RAY
					LR 1089	0.0225	Private	Dala	ALOK CHANDRA RAY
					LR 1090	0.4350	Private	Dala	SUKU BALA RAY
					LR 1091	0.1200	Private	Vita	NILMONI RAY, MEDAN RAY,
					LR 1097	0.0200	Private	Pukur	ALOK CHANDRA RAY, UDAY BALA RAY, NARENDRA RAY, BASANTA RAY, BHEDU RAY, RADHA BALA RAY, SADEBALA RAY, HARENDRA RAY, ETI GHOSH, SANTOSH GHOSH
					LR 1098	0.1100	Private	Vita	NIRODHA BARMANI,
					LR 1099	0.1400	Private	Bastu	ASHUTOSH GHOSH
					LR 1100	0.1300	Private	Danga	ASHUTOSH GHOSH
					LR 1101	0.0250	Private	Danga	ASHUTOSH GHOSH
					LR 1102	0.0550	Private	Vita	KANAI LAL GHOSH, PARIMAL MANDAL, SHYAMAL MANDAL, ETI GHOSH
					LR 1103	0.4250	Private	Dala	PARIMAL MANDAL, SHYAMAL MANDAL, ETI GHOSH
					LR 1104	0.3100	Private	Dala	JOGESH CHANDRA BAGCHI BARGADAR - LAKHAN HEMRAN
					LR 1487	0.2500	Private	Dala	BHANU RANI GHOSH
					LR 1488	0.0325	Private	Dala	NAGENDRA NATH BAGCHI, BIRENDRA BAGCHI BARGADAR - CHOTO SOREN
					LR 1489	0.6800	Private	Dala	IBRAHIM MIYA, DULURAM CHOWDHURY, HARENDRA CHOWDHURY
					LR 1665	0.0525	Private	Danga	EKESWAR GHOSH, CHAMINA KHATUN, JHORU MOLLAH, FULMONI BEWA,
					LR 1666	0.0300	Private	Danga	NIRODH CHANDRA SAHA
					LR 1667	0.0325	Private	Danga	MAHARUDDIN SARKAR,
					LR 1668	0.3500	Private	Danga	AJIT KUMAR SAHA,
					LR 1671	0.0525	Private	Danga	NARESH GHOSH, RAMESH GHOSH, SANTOSH GHOSH
					LR 1672	0.1450	Private	Dala	SANTOSH RAY
					LR 1673	0.9800	Private	Dala	NARESH GHOSH, MADHUSUDAN SAHA, RAMESH GHOSH, HITLER MITRA, ASHUTOSH MITRA, SANTOSH KUMAR GHOSH, HARAN BALA GHOSH, SAKOBALA GHOSH, PARITOSH SARKAR, DINESH DAS, BISWANATH SARKAR
					LR 1677	1.0550	Private	Dala	AMAR CHAND SAHA, GAJENDRA SAHA, MADHUSUDHAN SAHA, MANINDRA SAHA
					LR 1679	0.0675	Private	Dala	BHOLA NATH MUKHOPADHYAY BARGADAR - BHABIHESH GHOSH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 1681	0.1450	Private	Dala	NONIGOPAL SANYAL, SUDHANGSHU SANYAL, BARGADAR - PARITOSH GHOSH
					LR 1682	0.0700	Private	Dala	DAYAMOJ DASI, JAGABANDHU GHOSH, ANATH BANDHU GHOSH, DESHBANDHU GHOSH
					LR 1752	0.1200	Private	Bastu	AJIT KUMAR SAHA, ANIL KUMAR SAHA, GRINDRANATH SAHA, DHIRENDRA NATH SAHA
					LR 1753	0.0700	Private	Danga	KAMAL MANDAL, AMAL MANDAL, RANJIT MANDAL, SANJIT MANDAL, TRIPTI RANI MANDAL, BHAKTI RANI MANDAL, PRABH RANI MANDAL, DIPTI RANI BHOWMICK,
					LR 1754	0.0200	Private	Danga	KAMAL MANDAL, AMAL MANDAL, RANJIT MANDAL, SANJIT MANDAL, TRIPTI RANI MANDAL, BHAKTI RANI MANDAL, PRABH RANI MANDAL, DIPTI RANI BHOWMICK,
					LR 1755	0.1000	Private	Vita	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL
					LR 1756	0.0925	Private	Pukurpar	AJIT KUMAR SAHA, ANIL KUMAR SAHA, GRINDRANATH SAHA, DHIRENDRA NATH SAHA
					LR 1758	0.1200	Private	Pukur	AJIT KUMAR SAHA, ANIL KUMAR SAHA, GRINDRANATH SAHA, DHIRENDRA NATH SAHA, NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL, BIMAN MANDAL, BDKUL MANDAL, BIDUT MANDAL
					LR 1763	0.0400	Private	Vita	SUCHHMULLAH
					LR 1764	0.1200	Private	Danga	NONIGOPAL GHOSH, SANI RAM GHOSH
					LR 1765	0.0600	Private	Bastu	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL
					LR 1766	0.0700	Private	Pukurpar	AJIT KUMAR SAHA, ANIL KUMAR SAHA, GRINDRANATH SAHA, DHIRENDRA NATH SAHA, NARAYAN GHOSH
					LR 1767	0.1000	Private	Bastu	SUDHIR MANDAL
					LR 1768	0.1700	Private	Bastu	AJIT KUMAR SAHA, ANIL KUMAR SAHA, GRINDRANATH SAHA, DHIRENDRA NATH SAHA,
					LR 1772	0.0600	Private	Vita	EKESWAR GHOSH, BIKASH CHANDRA MANDAL
					LR 1773	0.0800	Private	Pukurpar	BIIDLA NATH MANDAL, SUCCHMULLAH
					LR 1774	0.2400	Private	pukur	FAJUDDIN AHAMMAD, SAIDUR RAHAMAN, SUCCHMULLAH
					LR 1775	0.0675	Private	Bastu	FAJUDDIN AHAMMAD, SAIDUR RAHAMAN, SUCCHMULLAH, DINESH DAS
					LR 1776	0.0450	Private	Bastu	FAJUDDIN AHAMMAD, SUCCHMULLAH, DINESH DAS
					LR 1785	0.0350	Private	Bastu	BHOLA NATH MANDAL
					LR 1786	0.1300	Private	Bastu	ARUN MANDAL, AMAL MANDAL, RANJIT MANDAL, SANJIT MANDAL, TRIPTI RANI MANDAL, BHAKTI RANI MANDAL, PRABHA RANI MANDAL, DIPTI RANI BHOWMICK, SHYAMAL MANDAL, PARIMAL MANDAL, DHIRENDRA NATH CHDWDHURY, BHOLA NATH MANDAL
					LR 1788	0.0800	Private	Vita	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 1789	0.1000	Private	Pukurpar	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1790	0.1100	Private	Pukur	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1791	0.0550	Private	Pukurpar	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1793	0.1300	Private	Bastu	DIJEN DAS, PRADIP DAS, BRAJEN DAS, SOFIJA KHATUN, DIPTI RANI BHOWMICK
					LR 1794	0.0500	Private	Pukur	DIPTI RANI BHOWMICK
					LR 1842	0.3700	Private	Dala	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL, RIKTA MANDAL, SUMAN BARMAN, LAKHAN BARMAN, CHAMPA BARMAN
					LR 1845	0.0125	Private	Danga	BHOLA NATH MANDAL,
					LR 1846	0.2625	Private	Dala	BHOLA NATH MANDAL,
					LR 1847	1.0200	Private	Dala	BHOLA NATH MANDAL, BIMAN MANDAL, BOKUL MANDAL, BIDUT MANDAL, MALA SARKAR, SIDDHARTA SARKAR, RANA SARKAR
					LR 1848	0.0900	Private	Danga	PARIMAL MANDAL, SHAYMAL MANDAL
					LR 1849	0.0300	Private	Danga	GOPAL GHOSH, NARYAN GHOSH, BASUDEB GHOSH, BIMAL MANDAL, BHOLA NATH MANDAL, RATAN GHOSH, RADHE SHYAM GHOSH, SUDHIR MANDAL, SUBAL GHOSH, SUMAN BARMAN, LAKHAN BARMAN, CHAMPA BARMAN, DIPTI RANI BHOWMICK
					LR 1851	0.0700	Private	Danga	DIPTI RANI BHOWMICK,
					LR 1852	0.1600	Private	Danga	PARIMAL MANDAL, SHYAMAL MANDAL, DIPTI RANI BHOWMICK
					LR 1853	0.0400	Private	Danga	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1854	0.0900	Private	Danga	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1855	0.1600	Private	Danga	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1856	0.0825	Private	Danga	AMAL MANDAL, RANJIT MANDAL, SANJIT MANDAL, TRIPTI RANI MANDAL, BHAKTI TANI MANDAL, PRABHA RANI MANDAL, DIPTI RANI BHOWMICK, NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL
					LR 1891	0.0125	Private	Danga	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL MANDAL, SUDHIR MANDAL,
					LR 1943	0.0400	Private	Rasta	02 NO. BROJBALLAB PUR ANCHAL PANCHAYAT
					LR 2231	0.0200	Private	Danga	MAHARUDDIN
					LR 2276	0.0950	Private	Vita	BASIRUDDIN SARKAR, BHOLA NATH MANDAL, MAHIDUR RAHAMAN, MOMENA KHATUN
					LR 2278	0.1600	Private	Bastu	ARUN MANDAL, AMAL MANDAL, RANJIT MANDAL, SANJIT MANDAL, TRIPTI RANI MANDAL, BHAKTI RANI MANDAL, PRAVA RANI MANDAL, DIPTI RANI BHOWMICK, SAMAL MANDAL, PARIMAL MANDAL, DHIRENDRA NATH CHOWDHURY, NAGEN CHANDRA MANDAL, BIMAL CHANDRA MANDAL, SUDHIR CHANDRA MANDAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(2) BANSHIHARI - 209	42	LR 345	1.0800	Private	Danga	KALIMUDDIN SARKAR, KATHULI BIBI, GANESH CHANDRA MANDAL, JAMATULLA MIA, JITEN MANDAL, NIPENDRA NATH MANDAL, BIPIN CHANDRA MANDAL, MAJITULLA MIYA, LAKHIKANTA MANDAL, SAILENDRA KUMAR DESMUKH, MINA SINGHA, JAYANTA MAHATO
					LR 346	0.1600	Private	Danga	SAILENDU KUMAR DESHMUKH, SUBRATA CHAKRABORTY.
					LR 347	0.9050	Private	Danga	BAHARUDDIN MULLAH, RAHIMUDDIN MIA, JAYANTA MAHANTO
					LR 351	0.0325	Private	Danga	NAJIBUDDIN, JAMALUDDIN, AMALUDDIN, SANABUDDIN,
					LR 352	0.0500	Private	Danga	ANANTA SARKAR, SURENDRA NATH SARKAR, HEMANTA KUMAR SARKAR
					LR 353	0.1050	Private	Danga	GANESH CHANDRA MANDAL,
					LR 357	0.2600	Private	Danga	AJIT KUMAR SAHA, AJIT SINGHA, AKSHAY KUMAR SINGHA, NITISH CHANDRA SAHA, NIRMAL CHANDRA SAHA, BHAWANI PRASAD SINGHA, SHIB KUMAR SINGHA, KHITISH CHANDRA SAHA
					LR 358	0.2700	Private	Danga	MAHESH CHANDRA GHOSH
					LR 361	0.3675	Private	Danga	AJIT KUMAR SAHA, AJIT SINGHA, AKSHAY KUMAR SINGHA, NITISH CHANDRA SAHA, NIRMAL CHANDRA SAHA, BHAWANI PRASAD SINGHA, SHIB KUMAR SINGHA, KHITISH CHANDRA SAHA
					LR 364	0.4000	Private	Danga	NAGENDRA NATH MANDAL, BIMAL CHANDRA MANDAL, AJAY MANDAL
					LR 365	0.2400	Private	Danga	AJIT KUMAR SAHA, NITISH CHANDRA SAHA, NIRMAL CHANDRA SAHA, KHITISH CHANDRA SAHA, SUBRATA CHAKRABORTY
					LR 366	0.0325	Private	Danga	ANANTA SARKAR, GOBINDO CHANDRA MANDAL, SURENDRA NATH SARKAR, HEMANTA KUMAR SARKAR,
					LR 367	0.1600	Private	Danga	NAGENDRA NATH MANDAL BIMAL CHANDRA MANDAL, AJAY MANDAL,
					LR 377	0.1400	Private	Danga	ASIRUDDIN MIA,
					LR 378	0.0350	Private	Danga	JAMATULLA SARKAR, MAJITULLA SARKAR
					LR 528	0.0650	Private	Danga	SUBRATA CHAKRABORTY
					LR 553	0.2475	Private	Bastu	AJIT SINGHA, AKSHAY KUMAR SINGHA, NASIRUDDIN, SHIB KUMAR SINGHA, ASIA BIBI, SAHARUDDIN SARKAR,
					LR 554	0.2175	Private	Danga	RAFIUDDIN MIA
					LR 555	0.2300	Private	Danga	BESARUDDIN MULLAH
					LR 559	0.0250	Private	Vita	GOPINATH SARKAR, DILIP SARKAR, DIPAK SARKAR
					LR 560	0.0700	Private	Vita	JOSIRUDDIN
					LR 561	0.1200	Private	Vita	AJIT SINGHA, AKSHAY KUMAR SINGHA, JOSIMUDDIN AHAMMAD, BHAWANI PRASAD SINGHA, SHIB KUMAR SHINGA
					LR 562	0.0125	Private	Vita	JOSIRUDDIN
					LR 563	0.0225	Private	Vita	BESARUDDIN MULLAH
					LR 564	0.0175	Private	Vita	JOSIRUDDIN
					LR 681	0.1250	Private	Danga	SALENDRA KUMAR DESHMUKH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(D) CHANDMUKHI - 208	35, 38 40	LR 379	0.0100	Private	Dala	JAHANARA BEGUM, BAJIRUDDIN AHAMMAD, ANANAU ALI, MID MIJANUR ALI, ANWERA KHAHTUN
					LR 380	0.5000	Private	Dala	AZGAR ALI, TAMJUDDIN MIYA, RAHAMATULLA MIYA, SAKHAUDDIN MIYA, RAHIN BANU, PRAMATHA NATH ROY
					LR 383	0.2300	Private	Danga	TINKORI BEWA, MATIMANNESA
					LR 424	0.5000	Private	Dala	FASUDDIN AHAMMAD, FAJUR RAHAMAN MIYA
					LR 425	0.0625	Private	Dala	TASLUMUDDIN SARKAR
					LR 430	0.0025	Private	Dala	EJARUDDIN MIYA
					LR 431	0.0400	Private	Dala	AZIZAR RAHAMAN, ABDUL KADEE, MAJEDAR RAHAMAN, MOKAREN HOSSAIN, HAMIDAR RAHAMAN, HAJERA BIBI, MOSARAF HOSSAIN
					LR 438	0.1400	Private	Dala	BASIRUDDIN MIYA, MUJAHARUL HAQUE, MAMINUDDIN AHAMMAD
					LR 439	0.8050	Private	Dala	NASIRUDDIN AHAMMAD, NAJRUL ISLAM, MUSAMMAT HASINA KHAHTUN, MAMINUDDIN AHAMMAD, MAMINUDDIN MIYA, RIYAJUDDIN MIYA
					LR 440	0.1800	Private	Dala	RABEUN BEGUM
					LR 447	0.6400	Private	Dala	AZIZAR RAHAMAN, SALEMA KHATUN, TASILMUDDIN AHAMMAD, RAKIBUDDIN AHAMMAD, KOHINUR BIBI, SIDDIKA BIBI
					LR 455	0.4400	Private	Dala	BIBHUTI BHUSHAN SARKAR, BAIDYANATH SARKAR, MOKLESUR RAHAMAN, OBAIDUR RAHAMAN, MARJENA BEGUM, SARFARAJ NEYAJ, SAMSUDDIN AHAMMAD
					LR 456	0.4700	Private	Dala	WAJUDULLA MIYA, TACHHIMUDDIN AHAMMAD, GOLFARJAN, JABIDUR RAHAMAN, ATEUR RAHAMAN, PUSSYDAR RAHAMAN, AHAMMAD HIGH, AHAMMAD BARI, JABEDUR RAHAMAN, MAMATAJUDDIN AHAMMAD, AZIZAR RAHAMAN, ABAIDUR RAHAMAN
					LR 457	0.9000	Private	Dala	TASLUMUDDIN AHAMMAD, MOINUDDIN AHAMMAD, ANISUR RAHAMAN, MANSUR ALI, ABDUL MANNAN, MANWARA KHATUN
					LR 467	0.3100	Private	Dala	AMIRUDDIN MIYA, BASIRUDDIN MIYA, ABDUL RAHIM MIYA, MAZEDA KHATUN, MUSARAF HOSSAIN, JUHARA BEGUM
					LR 468	0.2000	Private	Dala	AJMUDDIN AHAMMAD, TINKORI BEWA, FAJUL RAHAMAN MIYA, RIYAJUDDIN AHAMMAD, MAMINUDDIN AHAMMAD
					LR 469	0.6400	Private	Dala	FAJIRAN BIBI, MUKAREM HOSSAIN, MUSAMMED FAJJA BIBI, NAJRUL ISLAM, MAMINUDDIN AHAMMAD, SAIFUR RAHAMAN, SAIFUR RAHAMAN
					LR 490	0.3400	Private	Dala	WAHID KHATUN, TASILMUDDIN SARKAR, BARGADAR, TASILMUDDIN AHAMMAD
					LR 491	0.2400	Private	Dala	FAJUDDIN AHAMED, FAJUR RAHAMAN, MIYA
					LR 492	0.3050	Private	Dala	TINKORI BEWA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 493	0.0450	Private	Dala	NIKHIL CHANDRA SARKAR, JUTHIKA ROY (BAIRAGI)
					LR 530	0.0025	Private	Dala	CHANCHAL KUMAR SARKAR, ABDUL JALIL MIYA
					LR 531	0.0125	Private	Dala	MAHIDUR RAHAMAN
					LR 532	0.2550	Private	Dala	TINKORI BEWA, MATIMANNESA, NIKHIL CHANDRA SARKAR, JUTHIKA ROY (BAIRAGI)
					LR 533	0.2900	Private	Dala	SUPRIYA ISLAM
					LR 534	0.0175	Private	Dala	ABAIDUR RAHAMAN
					LR 535	0.2450	Private	Dala	FASIUDDIN AHAMMAD, FAIJUR RAHAMAN MIYA
					LR 536	0.2500	Private	Dala	FASIUDDIN AHAMMAD, FAIJUR RAHAMAN MIYA
					LR 537	0.3800	Private	Dala	AZAGAR ALI, TAMJUDDIN MIYA, RAHAMAT TULLA MIYA, SHAKAUDDIN MIYA, PRAMATH NATH ROY
					LR 561	0.2850	Private	Dala	DINESH MAHATO, NUDURAM MAHATO, BABURAM MAHATO, MANARANJAN MAHATO, RAGHUNATH MAHATO, SAHERA MAHATO
					LR 562	0.1350	Private	Dala	JIBUYA MAHATO, DINESH MAHATO, SAHERA MAHATO, FELU MAHATO
					LR 563	0.1175	Private	Dala	KANCHIRAM MAHATO, NUDURAM MAHATO, BABURAM MAHATO, FANIRAM MAHATO
					LR 564	0.3400	Private	Dala	ANWARA KHATUN, NASIRA BIBI, RAKIBUDDIN AHAMMAD, NAJRUL ISLAM
					LR 565	0.1300	Private	Dala	DINESH MAHATO, SAHERA MAHATO
					LR 566	0.0200	Private	Dala	DINESH MAHATO, SAHERA MAHATO
					LR 567	0.0500	Private	Dala	KANCHIRAM MAHATO, NUDURAM MAHATO, BABURAM MAHATO, FANIRAM MAHATO
					LR 568	0.0200	Private	Dala	RAKIUDDIN AHAMMAD, HAZERA BIBI
					LR 569	0.2075	Private	Dala	KANCHIRAM MAHATO, TURA MAHATO, NUDURAM MAHATO, BABURAM MAHATO, VIMA MAHATO, FANIRAM MAHATO, MAHINDAR MAHATO, MAHESHWAR MAHATO
					LR 570	0.3050	Private	Dala	JIBUYA MAHATO
					LR 571	0.3500	Private	Dala	GOLENUR BIBI
					LR 574	0.0275	Private	Dala	MAHINDAR MAHATO, MAHESHWAR MAHATO
					LR 575	0.3400	Private	Dala	MADHDA MAHATO
					LR 576	0.4550	Private	Dala	DHANIRAM MAHATO, FANIRAM MAHATO, SADARUDDIN AHAMMAD
					LR 577	0.4575	Private	Dala	JAHEDA BIBI, RAFIUDDIN MULLA, HAFIJA BEWA
					LR 578	0.0275	Private	Danga	ATUL CHANDRA MAHATO, JAHEDA BIBI, MUJIB ALI, MOMENA KHATUN, SADARUDDIN AHAMMAD, SAMIRUDDIN AHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD, SAHABUDDIN AHAMMAD, SURENDRA NATH MAHATO, HAFIJA BEWA
					LR 584	0.3900	Private	Dala	RAKIUDDIN AHAMMAD, HAZERA BIBI
					LR 585	0.2800	Private	Dala	AJIMUDDIN AHAMMAD, BABLU DAS
					LR 586	0.4100	Private	Dala	NIASIRA BIBI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 587	0.1400	Private	Dala	NIASIRA BIBI, SHIBABRATA MANDAL
					LR 588	0.0750	Private	Dala	NIASIRA BIBI
					LR 590	0.0200	Private	Dala	BESARADDIN MULLA
					LR 591	0.3600	Private	Pukurpar	BESARADDIN MULLA
					LR 592	0.1525	Private	Pukur	BESARADDIN MULLA
					LR 593	0.7700	Private	Dala	DHIRENDRA NATH MANDAL, KALIKA RANI MANDAL, BHALU RANI MANDAL
					LR 991	0.1900	Private	Dala	GOLAM MOSTAFA, MOKAREM HOSSAIN
					LR 1020	0.1825	Private	Dala	FAJUR RAHAMAN, MIYA, MOTIUR RAHAMAN
					LR 1021	0.2275	Private	Dala	NANI GOPAL MANDAL, PARESH CHANDRA MANDAL, REJAUL ISLAM
			(4) KRISHNABATI - 207	37, 39	LR 113	0.4700	Private	Dala	MUHAY CHANDRA DAS
					LR 115	0.0025	Private	Dala	SUBRATA DAS, SUMAN DAS
					LR 116	0.4000	Private	Dala	SANSUDDIN AHAMMAD, CHHALEMA KHATTUN (BIBI), TAFIJAR RAHAMAN, RASHIDA BEGUM
					LR 118	0.1300	Private	Dala	SOMESH DAS, SABUR MAHAMMAD SARKAR, SAMSUDDIN AHAMMAD
					LR 126	0.5250	Private	Dala	SOMESH DAS
					LR 127	0.0425	Private	Dala	RABINDRA DAS, SOMESH DAS, RANJIT BARMAN
					LR 128	0.1450	Private	Dala	RABINDRA DAS, RANJIT BARMAN
					LR 129	0.0700	Private	Dala	SOMESH DAS, SURESH DAS
					LR 130	0.0050	Private	Dala	RABINDRA DAS, JAISRI DAS
					LR 131	0.3300	Private	Dala	RABINDRA DAS, JAISRI DAS
					LR 132	0.3650	Private	Dala	RABINDRA DAS, SOMESH, JAISRI DAS
					LR 133	0.1975	Private	Dala	JAISRI DAS
					LR 134	0.1800	Private	Dala	JAISRI DAS
					LR 141	0.6400	Private	Dala	UTTAM SARKAR, ASISH SARKAR, SUSHIMA SARKAR, MAFIJA BEWA, SAHED MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD, MABIUDDIN AHAMMAD
					LR 143	0.5350	Private	Dala	NIKUNJA BIHARI DAS, UTTAM SARKAR, ASISH SARKAR, SUSHMA SARKAR, BAJIRUDDIN MIYA, MAFIJA BEWA, LUTFAR RAHAMAN, SAMSUDDIN MIYA, AHELA BIBI, KHATEJA BIBI, HAJERA BIBI, REJIYA BIBI, GAUR DAS, GITA DAS, GAURI DAS, BEDANA DAS, NITAI CHANDRA GHOSH, PRABIR SHIL, GOPAL CHANDRA DAS
					LR 144	0.2500	Private	Dala	AMRITA MOHANTA, NUKANJA BIHARI DAS, SAHEB MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD
					LR 145	0.1350	Private	Dala	NUKANJA BIHARI DAS, UTTAM SARKAR, ASISH SARKAR, SUSHMA SARKAR, SAHEB MAHAMMAD, SAMSUDDIN AHAMMAD, NIBARAN BARMAN
					LR 475	0.1400	Private	Dala	KANAI DAS, NISHIKANTA MOHANTA, MAHAMAYA DATTA, SAROJINI BALA DEVI, NIVEDITA DAS(MANDAL), APARNA MAJUMDER
					LR 476	0.3800	Private	Dala	ANIL KANTI DEB, KANAI DAS, DEBANDRA DAS, DHERANDRA DAS, PRAVASHI KAMINI DAS, BHUPENDRA DAS, APARNA MAJUMDAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 478	0.5350	Private	Dala	DEBANDRA DAS, DHERANDRA DAS, BHURENDRA DAS, BIMAL DAS, JITEN DAS, TAPA DAS, LAKSHMI RANI MOHANTA, BIPLAB KUMAR DAS, SHAMBU MURMU
					LR 496	0.3475	Private	Dala	RABINDRA DAS
					LR 497	0.0900	Private	Dala	NAKFURA BARMAN
					LR 584	0.3500	Private	Dala	NISHIKANTA MOHANTA, BRAJENDRA DEBSHARMA
					LR 585	0.0300	Private	Dala	DEBANDRA DAS, BISWANATH DAS, RAMGOBINDA DAS, LAKSHMAN DAS, SABITRI DAS, TRIPTI DAS
					LR 586	0.0200	Private	Dala	RABINDRA DAS
					LR 602	0.2600	Private	Dala	UTTAM SARKAR, ASISH SARKAR, SUSHMA SARKAR
					LR 603	0.1300	Private	Dala	SAHEB MAHAMMAD
		(5) SHIBPUR	(1) NARAYANPUR - 205	442, 501	LR 38	0.0500	Private	Rasta	THE PRADHAN NO- 4 SHIVPUR GRAM PANCHAYET
					LR 64	0.2950	Private	Dala	KHURAN DASHI, MRITUANJAY SAHA, NIRMAL BARMAN, SWAPAN KUMAR MANDAL, BHEBASH CHANDRA RDY, GAUTAM MANDAL, UTTAM MANDAL, KUSUM BALA GOWSAMI, ABHINANDM DAS, BRATSHISH SAHA, CHAINA RANI DAS, BISWANATH CHANDRA ROY, GAUTAM MAJUMDAR, GAURENDRA MAJUMDAR
					LR 65	0.3050	Private	Bastu	KHURAN DASHI, MRITUANJAY SAHA, JOY MOHANTA, SWAPAN KUMAR MANDAL, GAUTAM MANDAL, UTTAM MANDAL, ARINDAM MANDAL, BRATASHISH SAHA, GAUTAM MAJUMDAR, GAURENDRA MAJUMDAR
					LR 72	0.6800	Private	Dala	DINESH NARAYAN PAL, SAHIDUR RAHAMAN, REKHARANI DAS, KALYAN KUMAR DAS, KUNTAL DAS
					LR 73	0.0300	Private	Dala	JYOTISH CHANDRA MOHANTA, LALU MURMU, RABIN HEMBRAM, JITRANDRA HEMBRAM, BHARAT HEMBRAM
					LR 74	0.2400	Private	Dala	KHURAN DASHI
					LR 75	0.5800	Private	Dala	UJJALLA CHAKRABORTY, BANESWAR MAHATO, MONARANJAN SARKAR, NIRANJAN SARKAR, RAHA HEMBRAM, GADAR MARDI, RABIN MURMU, UTTAM PAL, SANKHA SUBHA SARKAR BARGADAR- DULAL DAS
					LR 78	0.0575	Private	Dala	SANTOSH KUMAR DAS
					LR 98	0.0100	Private	Dala	BANIMADHAB SHIL, REKHA RANI DAS, NIRANJAN SARKAR
					LR 99	0.2000	Private	Dala	BANIMADHAB SHIL, SUNIL HEMBRAM
					LR 100	0.2000	Private	Dala	KINI BIB
					LR 101	0.3100	Private	Dala	BANIMADHAB SHIL, SUNIL HEMBRAM, SANIKAM SOREN, RABIN SIOREN, MANGAL SOREN
					LR 104	0.2600	Private	Dala	KINI BIB
					LR 105	0.7350	Private	Dala	PREMIARI DEBSHARMA, MUKTIL CHANDRA PRAMANIK
					LR 111	0.3625	Private	Dala	PREMHARI DEBSHARMA
					LR 112	0.1200	Private	Dala	KHATER MAHAMMAD
					LR 113	0.0550	Private	Dala	SUNIL KANTI DAS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 117	0.3650	Private	Danga	SUNIL KANTI DAS, SHUTKU BHUNGAR
					LR 118	0.1200	Private	Dala	GULSHANARA BEGUM, DALACHHA BIBI, NURSENA BEGUM, MAMTAJ BEGUM, RUKSHANA BEGUM, RASANEYARA BEGUM, LOTIFA BEWARA, SAHERA BEWA, SHARIJUL ISLAM, SAIFUR RAHAMAN
					LR 122	0.0050	Private	Dala	RAJANI KANTA SHIL, BALARAM CHANDRA BARMAN
					LR 123	0.6950	Private	Dala	ANWARA BEGUM, GOLEJA KHATUN, GOMARUDDIN SARKAR, SAFRU BEWA, HASANEYARA KHATUN, HAFIJUDDIN SARKAR, PRADIP KUMAR BARMAN, BALARAM CHANDRA BARMAN, DEBASH CHANDRA SHIL, RANU CHANDRA SHIL
					LR 124	0.2250	Private	Dala	DHAN MAHAMMAD
					LR 134	0.0075	Private	Dala	BANIMADHAB SHIL
					LR 337	0.0025	Private	Dala	IMAMMAN BIBI, KAJIDA BIBI, FULO RANI SARKAR
					LR 338	0.1400	Private	Dala	IMAMMAN BIBI, BHUDIMAN NECHHA, SAIDUR RAHAMAN
					LR 339	0.6850	Private	Dala	SAIFUR RAHAMAN, LAGINA BIBI, RAJIN SK
					LR 344	0.0100	Private	Dala	KINO SARKAR, SUBODH SARKAR, PRADIP SARKAR, MITHUN SARKAR
					LR 345	0.5000	Private	Dala	AMENA BIBI, ASHIYA BEWA, NURJHAN KHATUN
					LR 346	0.2250	Private	Dala	AMENA BIBI, JOYNAL ABADIN, NARENDRA NATH MAHATO, MARTUJA ALI
					LR 350	0.0025	Private	Dala	DHAN MAHAMMAD
					LR 355	0.3025	Private	Dala	ABDUL RAHIM
					LR 356	0.6000	Private	Dala	ACHHAIA KHATUN, AMIRUDDIN KHATUN, FAIJUDDIN SARKAR, PEYARAUDDIN SARKAR, ALIA KHATUN, RAKIYA KHATUN, BASHADA KHATUN, DHAN MAHAMMAD
					LR 357	0.2300	Private	Danga	TACHHADAK MIYA, BHAN MAHAMMAD
					LR 449	0.0150	Private	Danga	BHUGRA SOREN, DUKHU SOREN
		(2) SAKRAIL - 204		140	LR 238	0.2850	Private	Danga	BINAY MANDAL, AMAL CHANDRA MANDAL, BIMAL MANDAL
					LR 239	0.8000	Private	Pukur	SUBOBH CHANDRA SARKAR
					LR 241	0.2600	Private	Danga	SAIFUR SARKAR, SERAJUL RAHAMAN, LATIFA BEWA, GULSONARA BEGUM, SAHER BANU, RUPLAL BEGUM, MAMTAJ BEGUM, ROUSELAR BEGUM, SANJIT SARKAR, BINAY MANDAL, AMAL CHANDRA MANDAL, BIMAL MANDAL, BHURENDRA NATH SARKAR
					LR 243	0.5400	Private	Dala	TAHRU MANDAL, BINDI MANDAL, NAKUL SARKAR, BABUL SARKAR, BHURENDRA NATH SARKAR
					LR 249	0.0700	Private	Dala	MEJADA KHATUN, NAKUL SARKAR, BABUL SARKAR
					LR 250	0.0025	Private	Dala	SAIFUR MIYA, SUPRABHAT SARKAR
					LR 251	0.1275	Private	Dala	DASHERDDIN, DASHER MAHAMMAD, SAIFUR RAHAMAN
					LR 252	0.1250	Private	Dala	BISWANATH PRAMANIK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					I.R 253	0.5200	Private	Dala	NARUL ISLAM, TACHHADAK HOSSAIN, BACHERA KHATUN, BISWANATH PRAMANIK, TARANI KANTA PAI.
					I.R 254	0.0400	Private	Dala	KHATER MAHAMMAD
					I.R 256	0.4400	Private	Dala	UMELA BIBI, BIKASH CHANDRA SARKAR
					LR 257	0.1900	Private	Dala	KAJIRAN BIBI, DALEJA BEWA
					LR 258	0.4650	Private	Dala	LATIFA BEWA, NAKUL SARKAR, BABUL SARKAR
					LR 259	0.1050	Private	Dala	PURAN CHANDRA MAHATO
					LR 260	0.1250	Private	Dala	PURAN CHANDRA MAHATO
					LR 261	0.0150	Private	Dala	NIRMAL KUMAR SARKAR, HARIMATI PAL
					LR 262	0.0150	Private	Dala	DALEJA BEWA
			(3) KIRUSIPUR - 253	133, 134, 136, 142, 214, 245	LR 11	0.4850	Private	Dala	PAROYA MAHATO, PURN CHANDRA MAHATO, MUTRA MAHATO, LAGHLU MAHATO
					LR 15	0.0100	Private	Dala	KASTU MANDAL, GUNDIA MANDAL, FANINDRA MANDAL, MANINDRA MANDAL
					LR 17	0.2350	Private	Dala	JHUNIA MAHATO, DEBANDRA MAHATO, DUKHANI MAHATO, SONAKA MAHATD
					LR 18	0.4700	Private	Dala	JHUNIA MAHATO, DEBANDRA MAHATO, DUKHANI MAHATO, FULAN DESHI, SONAKA MAHATO, DINESH HALDAR, JOGENDRA HALDAR
					LR 19	0.2900	Private	Dala	JIBAN CHAND DESHI
					LR 21	0.2850	Private	Dala	TUFANU PRADHAN
					LR 22	0.0200	Private	Dala	DEBANDRA NATH MAHATO, SONEKA MAHATO, JHUMA MAHATO, DARKHANA
					LR 2J	0.0025	Private	Dala	CALITA DEBISHARMA, BANKIM CHANDRA SARKAR
					LR 24	0.7300	Private	Dala	JADU GOPAL SARKAR, RAGHU NATH SARKAR, HALDAR DESHI, UTPAL SARKAR, BADAL SARKAR
					LR 27	0.5800	Private	Dala	LAGHLU MAHATO, SALEHA KHATUN, HAMIDA KHATUN
					LR 29	0.0200	Private	Dala	KHOKA DESHI, LAGHALU MAHATO, SANTOSH DESHI, NAKUL CHANDRA SHINGH, PATANU DEBSHARMA
					LR 31	0.0450	Private	Dala	KAMAKHYA CHARAN DAS, KALI PADA DAS, GAURANGA CNARAN DAS, TARA PADA DAS, NITAI CHANDRA DAS, NIMAI CHARAN DAS, BHUBANESWAR DAS BARGADAR - CHHENA SARKAR, SURESH CHANDRA SARKAR, SASTHI CHARAN SARKAR, PAILOT SARKAR, DHADHI SARKAR, NENA SARKAR
			(4) BARAIL - 255	44, 219	RS 15	0.2600	Private	Vita	PURAN MAHATO
					RS 16	0.5100	Private	Vita	JYOTISH CHANDRA DAS, MAYA RANI DAS, RANAJIT KUMAR DAS, RABINDRA NATH MANDAL
					RS 17	0.0350	Private	Vita	UMA SARKAR, SIANTI SARKAR
					RS 19	0.0800	Private	Vita	BHAGBAT SARKAR, JOGENDRA NATH SARKAR, GANDHI SARKAR, DAULATI BALA SARKAR
					RS 20	0.1050	Private	Vita	KUTTAR PAHAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 21	0.0300	Private	Vita	AJIT KUMAR DAS
					RS 22	0.0750	Private	Danga	NARENDRA NATH MAHATO
					RS 39	0.0150	Private	Danga	RABINANDRA NATH MANDAL
					RS 40	0.0100	Private	Danga	RABINANDRA NATH MANDAL
					RS 41	0.0500	Private	Danga	RABINANDRA NATH MANDAL
					RS 42	0.0700	Private	Danga	MINATI RANI MANDAL
					RS 43	0.0500	Private	Danga	MINATI RANI MANDAL
					RS 44	0.0700	Private	Danga	PRABHU SARKAR, BIREN SARKAR, HAREN SARKAR, BEGUN SARKAR, FALANI DESHI, MEJA BALA DESHI, PUTI BALA DESHI
					RS 45	0.0550	Private	Danga	CHHABI CHOWDHURY, MADHAB CHANDRA SARKAR
					RS 47	0.0200	Private	Danga	SANJAY KUMAR MANDAL, NARESH CHANDRA MANDAL, UTTAM KUMAR MANDAL
					RS 49	0.5400	Private	Vita	KULEN SARKAR, SURESH SARKAR, PADMA BALA SARKAR
					RS 77	0.0650	Private	Rasta	THE PRADHAN, NO-4 SHIVPUR GRAM PANCHAYET
					RS 81	0.0400	Private	Vita	UPOBALA DAS, NEPUR DAS, SAPO DAS, MAYA RANI DAS, BIMAL MANDAL, GAJENDRA NATH MANDAL
					RS 82	0.0650	Private	Rasta	THE PRADHAN, NO-4 SHIVPUR GRAM PANCHAYET
					RS 81	0.0050	Private	Vita	PRAVU SARKAR, BIREN SARKAR, HAREN SARKAR
					RS 85	0.5200	Private	Vita	UPOBALA DAS, NEPUR DAS, PRAVU SARKAR, BIREN SARKAR, JOGOBALA SARKAR, HAREN SARKAR
					RS 91	0.0125	Private	Vita	PRAVU SARKAR, BIREN SARKAR, HAREN SARKAR
					RS 228	0.1150	Private	Vita	BHUPAL DESHI
					RS 229	0.0800	Private	Vita	GAMEN CHANDRA SARKAR, SAMEN CHANDRA SARKAR
					RS 230	0.0100	Private	Vita	SULEKHA DAS
					RS 231	0.4300	Private	Vita	ULANI BALA DAS
					RS 232	0.3400	Private	Dala	CHHABI CHOWDHURY
					RS 233	0.2050	Private	Dala	MOTI LAL DEBSHARMA
					RS 234	0.1825	Private	Vita	MDTI LAL DEBSHARMA
					RS 595	0.0300	Private	Danga	RABILAL DESHI
					RS 596	0.0600	Private	Danga	JYOTISH CHANDRA DAS, DEBANDRA NATH MANDAL, HARENDRA NATH MANDAL, PRATIMA SARKAR
					RS 606	0.1300	Private	Vita	MAYA RANI DAS
			(5) BUNIADPUR - 261	42, 134, 312, 516	RS 294	0.0100	Private	Rasta	NO-4, SHIB PUR ANCHAL PANCHAYAT
					RS 402	0.0400	Private	Dala	DULAL MANDAL, PRAMILA PRADHAN
					RS 403	1.1700	Private	Dala	MAHIUDDIN SARKAR, BARGADAR - SAMAI MURMU, LUTHRU MURMU
					RS 404	0.1250	Private	Dala	PURNIMA PRADAHAN, SUJIT MANDAL
					RS 405	0.8300	Private	Dala	BIRENDRA NATH SARKAR, SAMBHU DESHI, RANJIT MAHANTO, GOKUL MAHANTO, SUBHSI MAHANTO
					RS 406	0.1050	Private	Dala	HARENDRA DESHI
					RS 408	0.0500	Private	Dala	MANINDRA NATH PRADHAN, SHIRISH CHANDRA MANDAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 410	0.0075	Private	Dala	BHUPAL CHANDRA SARKAR, BIMAL SARKAR, AMAL SARKAR, PESA RANI SARKAR,
					RS 412	0.2050	Private	Dala	RANJIT MAHANTO, GOKUL MAHANTO, SUBASHI MAHATO,
					RS 413	0.1500	Private	Dala	DULAL PAL,
					RS 414	0.4100	Private	Dala	GOPESH SARKAR, SUDHIR MANDAL, KHITISH CHANDRA MANDAL,
					RS 415	0.0125	Private	Dala	JYOTISH CHANDRA DAS, RANJIT DAS, KHITISH CHANDRA MANDAL
					RS 417	1.0000	Private	Dala	BIBHUTI BHUSAN TAKDAR, BANDANA TAKDAR, SUBHENDU TAKDAR, PURNENDU TAKDAR, KRISHNENDU TAKDAR,
					RS 418	0.0300	Private	Dala	MOTILAL DAS,
					RS 419	0.3700	Private	Dala	SUNIL CHANDRA SARKAR, SURESH CHANDRA SARKAR, SUSHIL CHANDRA SARKAR
					RS 420	0.4200	Private	Dala	GUTLU DESHI, SUBAL CHANDRA SARKAR, SARIP DESHI, ARUN SARKAR,
					RS 470	0.5400	Private	Dala	SUBAL CHANDRA SARKAR, SUDHIR KUMAR SARKAR, TULSHI MANDAL,
					RS 471	0.5150	Private	Dala	JANAK MAHATO, RAGHUNATH MAHATO
					RS 472	0.1250	Private	Vita	BIRENDRA NATH MANDAL, SHYAMAL CHANDRA SARKAR, HARENDRA NATH MANDAL,
					RS 474	0.0200	Private	Vita	KAMAL CHANDRA SARKAR,
					RS 475	0.0650	Private	Vita	BIRENDRA NATH MANDAL, SHYAMAL CHANDRA SARKAR, HARENDRA NATH MANDAL,
					RS 476	0.0800	Private	Vita	KAMAL CHANDRA SARKAR,
		(8) MAHABARI	(1) KHIDIRPUR - 202	393	RS 357	0.0600	Private	Rasta	THE PRADHAN NO- 5 MAHABARI GRAM PANCHAYET
					RS 957	0.2200	Private	Dala	CHHENA SARKAR, SURESH CHANDRA SARKAR, PAILOT SARKAR, DHADHI SARKAR
					RS 959	0.4800	Private	Dala	PURAN MAHATO
					RS 961	0.5500	Private	Dala	BHUPENDRA NATH SARKAR, HARESH CHANDRA HALDAR, BASUDEV HALDAR, JOYDEB HALDAR, NIKHIL CHANDRA HALDAR, ANUKUL CHANDRA HALDAR, NARAYAN CHANDRA HALDAR, NEREN MAHATO
					RS 962	0.3100	Private	Dala	PALASH SARKAR, RIPAN SARKAR
					RS 970	0.3000	Private	Dala	KHOKA MANDAL, DURJAN MANDAL, NIRMAL KUMAR SARKAR
					RS 971	0.4100	Private	Dala	SATYA DEBSHARMA, SALENDRA NATH SARKAR, AHENDRA NATH SARKAR, BIPUL CHANDRA SARKAR
					RS 975	0.5100	Private	Dala	KASTU DESHI, GANDIA MANDAL, FANI MANDAL, PAILOT SARKAR, MANI MANDAL
					RS 976	0.2800	Private	Dala	KHOKA MANDAL, DURJAN MANDAL, SAKRATI SARKAR
					RS 981	0.2950	Private	Dala	KHOKA MANDAL, DURJAN MANDAL, NIRMAL KUMAR SARKAR
					RS 982	0.2950	Private	Dala	SUSHEN DEBSHARMA, DALEN CHANDRA DEBSHARMA, KULPI DEBSHARMA
					RS 983	0.0900	Private	Dala	ANANDA DESHI
					RS 984	0.0775	Private	Dala	ANANDA DESHI
					RS 985	0.4300	Private	Dala	JANDO BALA SARKAR, PATANU DESHI, LATLU MAHATO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 987	0.1750	Private	Dala	PATANU DESHI, BHADRA DESHI, SUNIL SARKAR, BHAKTA LAL SARKAR, GANESH SARKAR, KANCHAN SARKAR
					RS 988	0.2300	Private	Dala	NAMAL DESHI
					RS 989	0.0650	Private	Dala	JIBAN DESHI
					RS 1106	0.0300	Private	Dala	NAMAL DESHI
			(2) RAHIMPUR - 201	244	RS 196	0.0050	Private	Bastu	BAHUR DEBSHARMA, DINESH DEBSHARMA
					RS 197	0.0275	Private	Bastu	BAHUR DEBSHARMA, DINESH DEBSHARMA
					RS 198	0.3250	Private	Vita	ANANDA SARKAR
					RS 199	0.0100	Private	Rasta	THE PRADHAN NO- 5 MAHABARI GRAM PANCHAYET
					RS 200	0.1100	Private	Rasta	THE PRADHAN NO- 5 MAHABARI GRAM PANCHAYET
					RS 201	0.0600	Private	Vita	KHITISH CHANDRA MANDAL
					RS 202	0.0300	Private	Vita	NAMAL DESHI
					RS 203	0.0350	Private	Vita	DANGAI DEBSHARMA, KHITISH CHANDRA MANDAL
					RS 206	0.0650	Private	Bastu	DANGAI DEBSHARMA, KHITISH CHANDRA MANDAL
					RS 207	0.2700	Private	Bastu	JIBAN DEBSHARMA
					RS 224	0.0225	Private	Danga	JIBAN DEBSHARMA, NAMAL DEBSHARMA
					RS 225	0.1200	Private	Pukur	BHUPEN DESHI
					RS 226	0.3950	Private	Danga	BHUPEN DESHI
					RS 227	0.2700	Private	Danga	MANINDRA CHANDRA MOHANTA, SUDHIR KUMAR MANDAL, TARANI SARKAR, ADHIK SARKAR
					RS 312	0.0100	Private	Danga	PATANU SARKAR, BHADRU DESHI, SUNIL SARKAR, BHAKTA LAL SARKAR, GANESH SARKAR, KANCHAN SARKAR
					RS 313	0.0025	Private	Vita	RAGHUNATH SARKAR
					RS 314	0.4600	Private	Danga	CHHEN DESHI, DADHI SARKAR, PILOT SARKAR, SURESH CHANDRA SARKAR, BICHARI BALA SARKAR, APO SARKAR, MOUSUMI SARKAR, TANUSHREE SARKAR
					RS 315	0.3200	Private	Danga	AKSHAY MAHATO, SHIBA MAHATO
					RS 317	0.2500	Private	Vita	NAMAL DESHI
					RS 318	0.1700	Private	Danga	PURNA DEBSHARMA, KRISHANA CHANDRA MAHANTO
					RS 319	0.2150	Private	Danga	JIBAN DEBSHARMA
					RS 320	0.0175	Private	Vita	BHUPEN DESHI
					RS 337	0.7400	Private	Danga	MANINDRA CHANDRA MOHANTA, SUDHIR KUMAR MANDAL, TARANI SARKAR, ADHIK SARKAR
					RS 338	0.2100	Private	Danga	MANINDRA CHANDRA MOHANTA, SUDHIR KUMAR MANDAL, TARANI SARKAR, ADHIK SARKAR
					RS 354	0.1600	Private	Bastu	PACHKATU SARKAR
					RS 356	0.1300	Private	Bastu	ANANDA SARKAR
					RS 357	0.1850	Private	Bastu	ANANDA SARKAR
					RS 360	0.5700	Private	Vita	ANANDA SARKAR, BAHUR DEBSHARMA, DINESH DEBSHARMA
					RS 377	0.3600	Private	Vita	FIRU SHIL
					RS 378	0.2675	Private	Vita	KASHTU DESHI
					RS 379	0.0500	Private	Vita	KASHTU DESHI, DULPI DESHI, JALEN DESHI, SUSHEN DESHI
					RS 381	0.0450	Private	Vita	DULPI DASI, JALEN DESHI, SUSHEN DESHI
					RS 382	0.0100	Private	Vita	DULPI DASI, JALEN DESHI, SUSHEN DESHI
					RS 387	0.0200	Private	Vita	KASHTU DESHI BARGADAR, TAHARU DESHI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RS 388	0.0200	Private	Vita	ALAI DASI, KEBAL DEBSHARMA, BALAI DASI
					RS 389	0.3300	Private	Vita	DULPI DASI, JALEN DESHI, SUSHEN DESHI
					RS 390	0.0500	Private	Vita	DULPI DASI, TAHURU DEBSHARMA
					RS 404	0.0600	Private	Doba	BHUPEN DESHI
					RS 413	0.0600	Private	Bastu	BAHUR DEBSHARMA, TAHURU DEBSHARMA
					RS 426	0.0900	Private	Bastu	GOPI NATH MANDAL
			(3) MALAM - 200	441	LR 853	0.0025	Private	Danga	KIRAN BALA DAS, KISHOR MOHAN DAS, JYOTISH CHANDRA DAS, DEBENDRA NATH DAS, BHUPENDRA NATH MANDAL, MAHENDRA NATH DAS, MAYA RANI DAS, MADHURY DAS, SUBHASH MAJUMDAR, AMAL CHANDRA SARKAR, CHANDRA NATH SARKAR
					LR 854	0.3000	Private	Dala	KIRAN BALA DAS, KISHOR MOHAN DAS, DEBENDRA NATH DAS, MAHENDRA NATH DAS, MAYA RANI DAS, MADHURY DAS, JYOTISH CHANDRA DAS, SAMBHU DESHI, SUBHASH MAJUMDAR
					LR 855	0.2500	Private	Dala	KHARGESHWAR MANDAL, MAHENDRA NATH SAHA
					LR 856	0.2550	Private	Dala	NARAYAN CHANDRA MANDAL
					LR 858	0.5400	Private	Dala	BHAGBAT CHANDRA SARKAR, JOGENDRA NATH SARKAR
					LR 859	0.0050	Private	Dala	SARADU PRADHAN
					LR 860	0.2000	Private	Dala	SARADU PRADHAN, AMAL CHANDRA SARKAR, BIMAL CHANDRA SARKAR
					LR 862	0.0950	Private	Rasta	THE PRADHAN, NO- 5 MAHABARI GRAM PANCHAYET
					LR 864	0.0050	Private	Vita	BIPLAB KUMAR MANDAL, DULAL MANDAL, PARIMAL MANDAL, BIPUL MANDAL, SUCHITRA MANDAL
					LR 865	0.9500	Private	Dala	ABHIJY CHANDRA MANDAL, NARAYAN CHANDRA MANDAL, BIPLAB KUMAR MANDAL, DULAL MANDAL, PARIMAL MANDAL, BIPUL MANDAL, SUCHITRA MANDAL
					LR 866	0.0800	Private	Dala	BHUPAL CHANDRA SARKAR
					LR 878	0.2000	Private	Bastu	NAYAN SARKAR, GITA SARKAR, RENUKA MANOAL, ANIMA RANI CHOWDHURY, KISHORE MOHAN DAS, JYOTISH CHANDRA DAS, DEBENDRA NATH MANDAL, PRATAP CHANDRA TAKDAR, BIBHUTI BHUSAN TAKDAR, SUDHIR MANOAL, PIJUSH KANTI DAS,
					LR 882	0.0800	Private	Vita	ABHAY CHARAN MANDAL
					LR 883	0.1200	Private	Danga	SUDHIR MANDAL
					LR 884	0.0200	Private	Danga	BHUPEDRA NATH MANDAL, RAJKUMAR MANDAL, LALAN HALDAR, BIREN HALDAR, BHUTU HALDAR,
					LR 894	0.1600	Private	Bastu	SIRISH CHANORA MANDAL, BIPLAB KUMAR MANDAL, IRA SARKAR, SAPAN SARKAR, SANJIV SARKAR, TAPASH SARKAR, GAUTAM KARMAKAR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					LR 897	0.0400	Private	Bastu	BIPLAB KUMAR MANDAL, SIRISH CHANDRA MANDAL, IRA SARKAR, SAPAN SARKAR, SANJIB SARKAR, TAPASH SARKAR, BULBULI DAS,
					LR 898	0.3100	Private	Bastu	GAJENDRA NATH MANDAL, DIPU MANDAL(DAS), JALI RAIBANGSIH
					LR 899	0.1050	Private	Vita	GAJENDRA NATH MANDAL,
					LR 900	0.0600	Private	Bastu	ANIL CHANDRA MANDAL, DULAL CHANDRA MANDAL, BIPLAB KUMAR MANDAL,
					LR 901	0.0100	Private	Bastu	ANIL CHANDRA MANDAL, SANTOSH KUMAR MANDAL, SANJIB MANDAL
					LR 905	0.0275	Private	Bastu	SUDHIR MANDAL, CHITTARANJAN MANDAL, NITAI CHANDRA MANDAL
					LR 938	0.0100	Private	Rasta	NO- 5 MAHABARI ANCHAL PANCHAYAT
					LR 1126	0.0300	Private	Vita	KHITISH CHANDRA MAHATO
					LR 1127	0.0500	Private	Dala	RAJKUMAR MANDAL, BIREN HALDAR, BHUTU HALDAR,
					LR 1178	0.0050	Private	Bastu	ANIMA RANI CHOWDHURY, DEVENDRA NATH MANDAL, ASHUTOSH MANDAL

List of Abbreviations used

(i) "LR" means Latest Revenue.

(ii) "RS" means Revenue Survey

[F. No. 2010/W-1/NF/Spl Rly. Project Pt.]

VINAY SINGH, Executive Director(Works)